



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2542]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2010/पौष 1, 1932

No. 2542]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2010/PAUSHA 1, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3004(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 916(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2010 और सं. का.आ. 1120(अ), तारीख 14 मई, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य के अम्बाला जिले में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 916(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2010 और सं. का.आ. 1120(अ), तारीख 14 मई, 2010 का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र "द ट्रिब्यून" में तारीख 23 मई, 2010 और "दैनिक भास्कर" में तारीख 28 मई, 2010 को प्रकाशित किया गया था;

और, दो आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के जिला अम्बाला में रेलवे की निर्माणधीन विशिष्ट परियोजना ईस्टर्न फ्रेट कोरिडोर हेतु अधिग्रहीत की जा रही भूमि के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि के संक्षिप्त विवरण।

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | बराडा | (1) नाहरा | 5 | 11 | निजी | कृषि | 0.0809 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 5 | 19 | निजी | कृषि | 0.0944 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 5 | 18 | निजी | कृषि | 0.0967 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 5 | 20 | निजी | कृषि | 0.0118 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 5 | 23/1 | निजी | कृषि | 0.0025 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 5 | 24/1 | निजी | कृषि | 0.0936 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 5 | 25/1 | निजी | कृषि | 0.0557 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 6 | 1 | निजी | कृषि | 0.0987 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 6 | 2/1 | निजी | कृषि | 0.0675 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 6 | 9 | निजी | कृषि | 0.0506 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 6 | 8 | निजी | कृषि | 0.0987 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 6 | 7 | निजी | कृषि | 0.0765 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 6 | 14 | निजी | कृषि | 0.0281 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 6 | 15 | निजी | कृषि | 0.0989 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 7 | 5 | निजी | कृषि | 0.0582 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 2 | 19 | निजी | कृषि | 0.0430 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 2 | 23 | निजी | कृषि | 0.0742 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचनण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | नक्सील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | मूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 2 | 24 | निजी | कृषि | 0.0784 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचरण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 2 | 25/1 | निजी | कृषि | 0.0405 | विक्रमजीत सिंह 1/2 भाग हरचरण सिंह, गुरमीत सिंह समभाग 1/2 भाग पुत्रान अमरीक सिंह पुत्र हाकम सिंह। |
| | | | 2 | 20 | निजी | कृषि | 0.0126 | तीर्थ सिंह, सुरजीत सिंह प्रीतम सिंह पुत्रान गुरबचन सिंह पुत्र सोहन सिंह समभाग 17/30 भाग हरमिन्द सिंह पुत्र तीर्थ सिंह गुरबचन सिंह 27/120 भाग श्रीमती बोहती देवी पत्नी कवरपाल पुत्र रघबीर सिंह 1/240 भाग अरविन्द सिंह, नरेन्द्र सिंह जसविन्द सिंह पुत्रान दलीप सिंह पुत्र सुन्दर सिंह समभाग 25/240 भाग श्रीमती परविन्द कौर पत्नी जसविन्द सिंह पुत्र दलीप सिंह 24/240 भाग। |
| | | | 1 | 15 | निजी | कृषि | 0.0742 | तीर्थ सिंह, सुरजीत सिंह प्रीतम सिंह पुत्रान गुरबचन सिंह पुत्र सोहन सिंह समभाग 17/30 भाग हरमिन्द सिंह पुत्र तीर्थ सिंह गुरबचन सिंह 27/120 भाग श्रीमती बोहती देवी पत्नी कवरपाल पुत्र रघबीर सिंह 1/240 भाग अरविन्द सिंह, नरेन्द्र सिंह जसविन्द सिंह पुत्रान दलीप सिंह पुत्र सुन्दर सिंह समभाग 25/240 भाग श्रीमती परविन्द कौर पत्नी जसविन्द सिंह पुत्र दलीप सिंह 24/240 भाग। |
| | | | 1 | 14 | निजी | कृषि | 0.0517 | दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह (45) भाग तीर्थ सिंह, सुरजीत सिंह प्रीतम सिंह पुत्रान गुरबचन सिंह पुत्र सोहन सिंह समभाग (309) भाग हरमिन्द सिंह पुत्र तीर्थ सिंह पुत्र गुरबचन सिंह (648) भाग व श्रीमति जसवन्त कौर पत्नी नरभैय पुत्र रामकिशन (8) भाग रतना राम पुत्र सन्तु राम पुत्र बुध राम (7) भाग जोगिन्द्र सिंह, महिन्द्र सिंह, सतविन्द सिंह पुत्रान सेवा सिंह पुत्र नाथू समभाग (114) भाग श्रीमति बोहती देवी पत्नी कवरपाल सिंह पुत्र रघबीर सिंह (100) भाग श्रीमति परविन्द कौर पत्नी जसविन्द सिंह पुत्र दलीप सिंह (164) भाग कुल (1395) भाग। |
| | | | 1 | 16 | निजी | कृषि | 0.0025 | तीर्थ सिंह, प्रीतम सिंह समभाग 34/120 भाग सुरजीत सिंह 26/120 भाग पुत्रान गुरबचन सिंह पुत्र सोहन सिंह समभाग 17/40 भाग श्रीमति बोहती देवी पत्नी कवरपाल पुत्र रघबीर सिंह 1/320 भाग जंगशेर सिंह पुत्र रमजान पुत्र इसमाईल 11/160 भाग अरविन्द सिंह, नरेन्द्र सिंह जसविन्द सिंह पुत्रान दलीप सिंह समभाग 33/320 भाग श्रीमति परविन्द कौर पत्नी जसविन्द सिंह पुत्र दलीप 8/80 भाग हरमिन्द सिंह तीर्थ सिंह पुत्र गुरबचन सिंह 9/40 भाग। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मन्तलील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 4 | 21 | निजी | कृषि | 0.0253 | सुरजीत सिंह, अमरीक सिंह गुरचरण सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र तेजा सिंह समभाग (186) भाग प्रीतम सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र सोहन सिंह (186) भाग कृष्ण लाल पुत्र हवेली राम पुत्र मखनमल (186) भाग श्रीमति ऊषा रानी विधवा व सुनील कुमार, मनीष कुमार पुत्रान प्रवीन कुमार पुत्र दीवान चन्द समभाग (56) भाग अमरीक राए जगिन्द्र लाल, राजिन्द्र लाल संजीव कुमार समभाग (366) भाग पुत्रान दीवानचन्द पुत्र बरकत राय नानकचन्द, जगदीश लाल पुत्रान रामजीदास पुत्र बरकत राय समभाग (134) भाग कुल (1114) भाग। |
| | | | 12 | 1/1/1 | सरकारी | गैरकृषि | 0.0253 | हरियाणा प्रदेश सरकार। |
| | | | 12 | 2 | सरकारी | गैरकृषि | 0.0725 | हरियाणा प्रदेश सरकार। |
| | | | 12 | 8/1 | सरकारी | गैरकृषि | 0.0531 | हरियाणा प्रदेश सरकार। |
| | | | 5 | 25/2 | सरकारी | gaOr | 0.0495 | हरियाणा प्रदेश सरकार। |
| | | | 11 | 5/1 | सरकारी | गैरकृषि | 0.0025 | हरियाणा प्रदेश सरकार। |
| | | | 2 | 39 | सरकारी | गैरकृषि | 0.0843 | केन्द्रीय सरकार |
| | | | 12 | 1/2 | निजी व सरकारी | कृषि व गैरकृषि | 0.0495 | सुरजीत सिंह, अमरीक सिंह गुरचरण सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र तेजा सिंह समभाग (186) भाग प्रीतम सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र सोहन सिंह (186) भाग कृष्ण लाल पुत्र हवेली राम पुत्र मखनमल (186) भाग श्रीमति ऊषा रानी विधवा व सुनील कुमार, मनीष कुमार पुत्रान प्रवीन कुमार पुत्र दीवान चन्द समभाग (56) भाग अमरीक राए जगिन्द्र लाल, राजिन्द्र लाल संजीव कुमार समभाग (366) भाग पुत्रान दीवानचन्द पुत्र बरकत राय नानकचन्द, जगदीश लाल पुत्रान रामजीदास पुत्र बरकत राय समभाग (134) भाग कुल (1114) भाग। हरियाणा प्रदेश सरकार। |
| | (2) मिलक शेखा | | 19 | 1/2 | निजी | कृषि | 0.0557 | कुल (4012) भाग जैल.अवतार सिंह (1003) भाग महिन्द्र सिंह (763) पुत्रान गोपाल दास पुत्र सुन्दर लाल वा श्रीमति प्रीतम कौर पत्नी जौगिन्द्र सिंह पुत्र गोपाल दास (1003) भाग वा श्रीमति अमरजीत कौर पत्नी गुरनाम सिंह पुत्र गुरवचन सिंह समभाग साकनान कुलपुर (240) भाग श्रीमति सतविन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल दास (1003) भाग। |
| | | | 19 | 8 | निजी | कृषि | 0.0984 | जसबीर सिंह, गुरविन्द्र सिंह पुत्रान गुरमेश सिंह उर्फ गुरमेज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह समभाग। |
| | | | 19 | 9 | निजी | कृषि | 0.1746 | जसबीर सिंह, गुरविन्द्र सिंह पुत्रान गुरमेश सिंह उर्फ गुरमेज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह समभाग। |
| | | | 19 | 10/1 | निजी | कृषि | 0.0455 | जसबीर सिंह, गुरविन्द्र सिंह पुत्रान गुरमेश सिंह उर्फ गुरमेज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह समभाग। |
| | | | 19 | 14/2 | निजी | कृषि | 0.0304 | जसबीर सिंह, गुरविन्द्र सिंह पुत्रान गुरमेश सिंह उर्फ गुरमेज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह समभाग। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 19 | 7/2 | निजी | कृषि | 0.0112 | जसबीर सिंह, गुरविन्द सिंह पुत्रान गुरमेश सिंह उर्फ गुरमेज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह समभाग। |
| | | | 19 | 13 | निजी | कृषि | 0.0076 | जसबीर सिंह, गुरविन्द सिंह पुत्रान गुरमेश सिंह उर्फ गुरमेज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह समभाग। |
| | | | 19 | 14/1 | निजी | कृषि | 0.0202 | श्रीमति चमेली देवी विधवा व नर सिंह पुत्र तुल्सा सुशीला सपुत्री गैदी साकनान अधोया 7/1267 भाग सरदारमल पुत्र लधामल 7/1267 भाग श्रीमति माया देवी विधवा व गोविन्द सिंह नानुलाल इन्द्र लाल पुत्रान या श्रीमति लाजवन्ती-कौशलया रानी सीता रानी हरमजन कौर सपुत्रियान रामचन्द पुत्र रूलदामल समभाग 289/8889 भाग सुखराम दास, पंच रामदास पुत्रान सरदारमल पुत्र गुरदितमल समभाग 578/8889 मोलकराज अर्जन दास पुत्रान व श्रीमति बुधदेवी रामलारी सपुत्रीयान व श्रीमति रामरक्खी विधवा मोहनमल पुत्र सरदारमल 1445/3214 भाग प्रीतमदास खरैती लाल, किशोरी लाल, सुन्दर लाल बलवन्त सिंह पुत्रान खेल चन्द पुत्र सरदारमल समभाग 1445/53214 भाग महेन्द्रपाल, कृष्ण लाल समभाग 289493/13250286 भाग जोगिन्द लाल आभप्रकाश समभाग 701258/13250286 भाग पुत्रान जगताराम पुत्र सरदारमल निर्मल सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र फकीर सिंह 36703/13250286 भाग सुन्दरदास, तरलोक चन्द पुत्रान मस्तराम पुत्र गुरदितमल समभाग 554/3801 भाग करतारचन्द बोधराज, सतीश कुमार पुत्रान हरकिशन लाल पुत्र मस्तराम समभाग 277/3801 भाग सोहन लाल हरनामदास, खजान सिंह पुत्रान बुढामल पुत्र लधामल समभाग 408/6335 भाग बलदेव सिंह 544/19005 भाग महिन्द्र सिंह दयिन्द्र सिंह समभाग 272/19005 भाग पुत्रान अमरनाथ पुत्र बुढामल या हरदित सिंह हरनाम सिंह, गुरचरण सिंह पुत्रान या श्रीमति सर्वण कौर सपुत्री धन्ना सिंह पुत्र लधामल समभाग 136/1267 भाग श्रीमति लखमी देवी विधवा भगत राम पुत्र लधामल 136/1267 जगत सिंह पुत्र लधामल रामरक्खा 8/1267 भाग श्रीमति ईशरदेवी विधवा गुरदित मल पुत्र रामदिता मल 51/2367 भाग श्रीमति महताव कौर विधवा प्रीतम सिंह 1/1267 भाग सुरजीत सिंह गुरदियाल सिंह पुत्रान व श्रीमति करतार कौर सपुत्री या श्रीमति कौशलया देवी विधवा सरदार सिंह पुत्र गोपाल सिंह समभाग 126/6335 भाग श्रीमति महेन्द्र कौर विधवा 16/6335 भाग व हरमजन सिंह पुत्र या श्रीमति हरमजन कौर सपुत्री इन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह समभाग 16/6335 भाग गुरमेश सिंह उर्फ गुरमेज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह पुत्र लाल सिंह 117/1267 मस्तिजद बाका दुह हजा 3/1267 केन्द्रीय सरकार 6/1267 भाग। |
| | | | 14 | 19/2 | निजी | कृषि | 0.0810 | श्रीमति वीरां पुत्रि खजान सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस सुवेग सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस। |
| | | | 14 | 20 | निजी | कृषि | 0.1695 | श्रीमति वीरां पुत्रि खजान सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस सुवेग सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस। |
| | | | 14 | 21/3 | निजी | कृषि | 0.0025 | श्रीमति वीरां पुत्रि खजान सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस सुवेग सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस। |
| | | | 14 | 28/1 | निजी | कृषि | 0.0076 | श्रीमति वीरां पुत्रि खजान सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस सुवेग सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 14 | 22 | निजी | कृषि | 0.0708 | प्यारा सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र फतेह सिंह । |
| | | | 14 | 23/1 | निजी | कृषि | 0.0531 | प्यारा सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र फतेह सिंह । |
| | | | 14 | 23/2 | निजी | कृषि | 0.0860 | जसमिन्दर सिंह बलविंदर सिंह रणजीत सिंह हरभजन सिंह पुत्रान जगीर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह समभाग (11) भाग श्रीमति कमला देवी पत्नी अमरनाथ पुत्र राम प्रसाद (6) भाग व श्रीमति परमजीत कौर पत्नी दलीप सिंह (36) भाग कुल (50) भाग । |
| | | | 15 | 9/1 | निजी | कृषि | 0.1037 | वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र फतेह सिंह । |
| | | | 15 | 12/2 | निजी | कृषि | 0.0135 | गरधारा सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र बुध सिंह वासी सिवन माजरा । वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र फतेह सिंह । |
| | | | 15 | 9/2 | निजी | कृषि | 0.0354 | गरधारा सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र बुध सिंह वासी सिवन माजरा । |
| | | | 15 | 10 | निजी | कृषि | 0.1518 | गरधारा सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र बुध सिंह वासी सिवन माजरा । |
| | | | 16 | 4 | निजी | कृषि | 0.1147 | गरधारा सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र बुध सिंह वासी सिवन माजरा । |
| | | | 16 | 5 | निजी | कृषि | 0.1214 | गरधारा सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र बुध सिंह वासी सिवन माजरा । |
| | | | 16 | 8 | निजी | कृषि | 0.0225 | गरधारा सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र बुध सिंह वासी सिवन माजरा । |
| | | | 15 | 13 | निजी | कृषि | 0.1619 | श्रीमति वीरां सपुत्री खजान सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस वा सुवेग सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस । |
| | | | 15 | 14 | निजी | कृषि | 0.1450 | श्रीमति वीरां सपुत्री खजान सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस वा सुवेग सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस । |
| | | | 15 | 16 | निजी | कृषि | 0.1366 | श्रीमति वीरां सपुत्री खजान सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस वा सुवेग सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 निफस । |
| | | | 15 | 17/1 | निजी | कृषि | 0.0076 | सुवेग सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र फकीर सिंह । |
| | | | 15 | 15/2 | निजी | कृषि | 0.0405 | सतपाल सिंह, दलजीत सिंह, पुत्रान करतार सिंह पुत्र हरनाम सिंह हर दो समभाग वासी बराडा । |
| | | (3) सिवन माजरा | 10 | 20/2 | निजी | कृषि | 0.0759 | इन्द्रजीत सिंह पुत्र भगत सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/4 भाग गुरचरण सिंह, परमजीत सिंह, कवलजीत सिंह पुत्रान अवतार सिंह पुत्र भगत सिंह 1/4 भाग राजिन्द्र सिंह 1/4 भाग मनजीत सिंह 1/8 भाग पुत्रान सर्व सिंह पुत्र अर्जन सिंह वा इकबाल सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र देबी दितामल 1/8 भाग वासीदेह । |
| | | | 10 | 21 | निजी | कृषि | 0.3416 | इन्द्रजीत सिंह पुत्र भगत सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/4 भाग गुरचरण सिंह, परमजीत सिंह, कवलजीत सिंह पुत्रान अवतार सिंह पुत्र भगत सिंह 1/4 भाग राजिन्द्र सिंह 1/4 भाग मनजीत सिंह 1/8 भाग पुत्रान सर्व सिंह पुत्र अर्जन सिंह वा इकबाल सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र देबी दितामल 1/8 भाग वासीदेह । |

[illegible]

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 12 | 7 | निजी | कृषि | 0.0112 | हरबंस सिंह पुत्र 1/3 भाग वा श्रीमती दलजीत कौर सपुत्री 1/6 भाग खुशहाल सिंह पुत्र गण्डा सिंह वा कवरजीत सिंह पुत्र गुरबखश सिंह पुत्र खुशहाल सिंह 1/3 भाग वा धनविन्द्र सिंह पुत्र हरबन्स सिंह पुत्र खुशहाल सिंह 1/6 भाग |
| | | | 12 | 4/1 | निजी | कृषि | 0.0202 | मदनलाल, तिलक राज, रमेश चन्द पुत्रान व श्रीमती कृष्णा अमृत सपुत्रियांन व श्रीमती कोशित्या वन्ती विधवा देसराज पुत्र ईशवरदास हर (6)समभाग |
| | | | 12 | 4/2 | निजी | कृषि | 0.1889 | मदनलाल, तिलक राज, रमेश चन्द पुत्रान व श्रीमती कृष्णा अमृत सपुत्रियांन व श्रीमती कोशित्या वन्ती विधवा देसराज पुत्र ईशवरदास हर (6)समभाग |
| | | | 9 | 9/2 | निजी | कृषि | 0.0278 | कृष्णलाल पुत्र बुटामल पुत्र चन्दुमल |
| | | | 9 | 12 | निजी | कृषि | 0.1796 | कृष्णलाल पुत्र बुटामल पुत्र चन्दुमल |
| | | | 9 | 13 | निजी | कृषि | 0.2249 | कृष्णलाल पुत्र बुटामल पुत्र चन्दुमल |
| | | | 9 | 18/2 | निजी | कृषि | 0.0177 | कृष्णलाल पुत्र बुटामल पुत्र चन्दुमल |
| | | | 9 | 18/1 | निजी | कृषि | 0.1012 | कृष्णलाल पुत्र बुटामल पुत्र चन्दुमल |
| | | | 9 | 18/3 | निजी | कृषि | 0.0025 | कृष्णलाल पुत्र बुटामल पुत्र चन्दुमल |
| | | | 9 | 19 | निजी | कृषि | 0.0025 | कृष्णलाल पुत्र बुटामल पुत्र चन्दुमल |
| | | | 9 | 10 | निजी | कृषि | 0.1237 | औतार सिंह पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र ठाकर सिंह |
| | | | 9 | 11 | निजी | कृषि | 0.0025 | औतार सिंह पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र ठाकर सिंह |
| | | | 9 | 14/1 | निजी | कृषि | 0.0455 | श्रीमती जानकी रानी पत्नी कृष्ण लाल पुत्र बुटाराम |
| | | | 9 | 17 | निजी | कृषि | 0.3011 | श्रीमती जानकी रानी पत्नी कृष्ण लाल पुत्र बुटाराम |
| | | | 9 | 25/3 | निजी | कृषि | 0.0152 | करतार सिंह पुत्र बिन्दा सिंह पुत्र जस्सा सिंह |
| | | | 9 | 25/4 | निजी | कृषि | 0.0582 | करतार सिंह पुत्र बिन्दा सिंह पुत्र जस्सा सिंह |
| | | | 9 | 24 | निजी | कृषि | 0.0025 | करतार सिंह पुत्र बिन्दा सिंह पुत्र जस्सा सिंह । खजान सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र ज्वाला सिंह |
| | | | 9 | 25/1 | निजी | कृषि | 0.0118 | रवेल सिंह पुत्र कर्म सिंह पुत्र गुलाब सिंह |
| | | | 9 | 25/2 | निजी | कृषि | 0.0025 | रवेल सिंह पुत्र कर्म सिंह पुत्र गुलाब सिंह |
| | | | 9 | 16/1 | निजी | कृषि | 0.0551 | गुरचरण सिंह, परमजीत सिंह, कन्वल जीत सिंह पुत्रान व श्रीमती बसंत कौर विधवा व श्रीमती ईशर कौर माता अवतार सिंह पुत्र भगत सिंह समभाग |
| | | | 9 | 16/2 | निजी | कृषि | 0.0582 | गुरचरण सिंह, परमजीत सिंह, कन्वल जीत सिंह पुत्रान व श्रीमती राजिन्द्र कौर पुत्री व श्रीमती बसंत कौर विधवा व श्रीमती ईशर कौर माता अवतार सिंह पुत्र भगत सिंह समभाग |
| | | | 9 | 16/3 | निजी | कृषि | 0.1577 | गुरचरण सिंह, परमजीत सिंह, कन्वल जीत सिंह पुत्रान व श्रीमती राजिन्द्र कौर पुत्री व श्रीमती बसंत कौर विधवा व श्रीमती ईशर कौर माता अवतार सिंह पुत्र भगत सिंह समभाग |
| | | | 8 | 3 | निजी | कृषि | 0.1181 | वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह पुत्र भीहा सिंह (165) भाग श्रीमती जोगिन्द्र कौर पत्नी सूरत सिंह पुत्र वरयाम सिंह (40) भाग सूरत सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह (85) भाग कुल (290) भाग |

| क्रम संख्या | तहसील | मौज का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 8 | 4 | निजी | कृषि | 0.0984 | प्रकाश सिंह, सतविन्द सिंह, अमरजीत सिंह पुत्रान जगत सिंह पुत्र मलसिंह समभाग |
| | | | 8 | 6/1 | निजी | कृषि | 0.0987 | प्रकाश सिंह, सतविन्द सिंह, अमरजीत सिंह पुत्रान जगत सिंह पुत्र मलसिंह समभाग |
| | | | 8 | 7 | निजी | कृषि | 0.0025 | प्रकाश सिंह, सतविन्द सिंह, अमरजीत सिंह पुत्रान जगत सिंह पुत्र मलसिंह समभाग |
| | | | 8 | 6/2/1 | निजी | कृषि | 0.0025 | प्रकाश सिंह, सतविन्द सिंह, अमरजीत सिंह पुत्रान जगत सिंह पुत्र मलसिंह समभाग |
| | | | 8 | 2 | निजी | कृषि | 0.0051 | सतनाम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र भुल्ला सिंह |
| | | | 5 | 25/3 | निजी | कृषि | 0.0127 | सतनाम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र भुल्ला सिंह |
| | | | 4 | 21 | निजी | कृषि | 0.1164 | सतनाम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र भुल्ला सिंह |
| | | | 4 | 22 | निजी | कृषि | 0.1237 | सतनाम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र भुल्ला सिंह |
| | | | 5 | 16/1 | निजी | कृषि | 0.0238 | गुरनाम सिंह, स्वर्ण सिंह, महिन्द्र सिंह, लखविन्द सिंह पुत्रान व श्रीमती जगिन्द्र कौर, महिन्द्र कौर, प्रसिन कौर सपुत्रियां नन्द सिंह पुत्र उत्तम सिंह (7) भाग सरजीत सिंह, गुरमीत सिंह पुत्रान श्रीमती स्वर्ण कौर सपुत्री नन्द सिंह समभाग (1) एक भाग कुल (8) भाग। |
| | | | 5 | 16/2 | निजी | कृषि | 0.0860 | गुरनाम सिंह, स्वर्ण सिंह, महिन्द्र सिंह, लखविन्द सिंह पुत्रान व श्रीमती जगिन्द्र कौर, महिन्द्र कौर, प्रसिन कौर सपुत्रियां नन्द सिंह पुत्र उत्तम सिंह (7) भाग सरजीत सिंह, गुरमीत सिंह पुत्रान श्रीमती स्वर्ण कौर सपुत्री नन्द सिंह समभाग (1) एक भाग कुल (8) भाग। |
| | | | 5 | 17 | निजी | कृषि | 0.0253 | गुरनाम सिंह, स्वर्ण सिंह, महिन्द्र सिंह, लखविन्द सिंह पुत्रान व श्रीमती जगिन्द्र कौर, महिन्द्र कौर, प्रसिन कौर सपुत्रियां नन्द सिंह पुत्र उत्तम सिंह (7) भाग सरजीत सिंह, गुरमीत सिंह पुत्रान श्रीमती स्वर्ण कौर सपुत्री नन्द सिंह समभाग (1) एक भाग कुल (8) भाग। |
| | | | 5 | 25/2 | निजी | कृषि | 0.0025 | बाबू सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र उत्तम सिंह 1/2 भाग सतनाम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र प्यारा सिंह 1/2 भाग। |
| | | | 42 | | ग्राम पंचायत | गैरकृषि | 0.0141 | ग्राम पंचायत |
| | | (4) बराडा | 141 | 12 | निजी | कृषि | 0.1181 | उदेराज सिंह, घनशाम सिंह, राज कुमार, राम पाल पुत्रान केहर सिंह पुत्र मालेड सिंह समभाग |
| | | | 141 | 13/1 | निजी | कृषि | 0.0759 | उदेराज सिंह, घनशाम सिंह, राज कुमार, राम पाल पुत्रान केहर सिंह पुत्र मालेड सिंह समभाग |
| | | | 141 | 17 | निजी | कृषि | 0.1037 | उदेराज सिंह, घनशाम सिंह, राज कुमार, राम पाल पुत्रान केहर सिंह पुत्र मालेड सिंह समभाग |
| | | | 141 | 18 | निजी | कृषि | 0.0430 | उदेराज सिंह, घनशाम सिंह, राज कुमार, राम पाल पुत्रान केहर सिंह पुत्र मालेड सिंह समभाग |
| | | | 141 | 10/2 | निजी | कृषि | 0.0562 | मखमूल सिंह पुत्र लेहना सिंह पुत्र काला सिंह। |
| | | | 141 | 11 | निजी | कृषि | 0.0675 | मखमूल सिंह पुत्र लेहना सिंह पुत्र काला सिंह। |
| | | | 140 | 4/1 | निजी | कृषि | 0.0506 | मखमूल सिंह पुत्र लेहना सिंह पुत्र काला सिंह। |
| | | | 140 | 6/1 | निजी | कृषि | 0.0177 | मखमूल सिंह पुत्र लेहना सिंह पुत्र काला सिंह। |
| | | | 140 | 7/2 | निजी | कृषि | 0.0101 | मखमूल सिंह पुत्र लेहना सिंह पुत्र काला सिंह। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्टील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 140 | 194 | निजी | गैर कृषि | 0.0152 | साधू राम, माधो राम, पुत्रान मुला राम पुत्र मथरा दास समभाग (1) पवन कुमार, पदम कुमार पुत्रान शाम सुन्दर, पुत्र लक्ष्मन दास, समभाग (2) 2 भाग दर 1/2 निरुफ सतीश कुमार, कमल किशोर पुत्रान बाबूराम, पुत्र मंगत राम समभाग 1 भाग बाबूराम, राम गोपाल, सतपाल, रमेश चन्द पुत्रान मंगतराम पुत्र कन्हैया लाल समभाग 7 भाग कश्मीरी लाल पुत्र कन्हैया लाल पुत्र कालु (8) भागदर 1/2 भाग । |
| | | | 140 | 2/2 | निजी | कृषि | 0.0329 | जयपाल सिंह पुत्र मखमूल सिंह पुत्र लेहना सिंह वासीदेह |
| | | | 140 | 3 | निजी | कृषि | 0.0759 | श्रीमति राज बाला 110/601 विधवा व ब्रह्म पाल, मनोज समभाग 401/601 भाग पिसरान किरन पाल पुत्र मखमूल सिंह व सतेया जीत पुत्र जय पाल पुत्र मखमूल सिंह 90/601 भाग । |
| | | | 140 | 6/3 | निजी | कृषि | 0.0380 | श्रीमति राज बाला 110/601 विधवा व ब्रह्म पाल, मनोज समभाग 401/601 भाग पिसरान किरन पाल पुत्र मखमूल सिंह व सतेया जीत पुत्र जय पाल पुत्र मखमूल सिंह 90/601 भाग । |
| | | | 140 | 7/1 | निजी | कृषि | 0.0784 | श्रीमति राज बाला 110/601 विधवा व ब्रह्म पाल, मनोज समभाग 401/601 भाग पिसरान किरन पाल पुत्र मखमूल सिंह व सतेया जीत पुत्र जय पाल पुत्र मखमूल सिंह 90/601 भाग । |
| | | | 140 | 8 | निजी | कृषि | 0.0025 | श्रीमति राज बाला 110/601 विधवा व ब्रह्म पाल, मनोज समभाग 401/601 भाग पिसरान किरन पाल पुत्र मखमूल सिंह व सतेया जीत पुत्र जय पाल पुत्र मखमूल सिंह 90/601 भाग । |
| | | | 140 | 6/2 | निजी | कृषि | 0.0630 | सतपाल सिंह पुत्र मखमूल सिंह पुत्र लेहना सिंह |
| | | | 140 | 1 | निजी | कृषि | 0.0025 | नन्द किशोर पुत्र लछमन दास पुत्र फगू 1/3 भाग महन्त राम पुत्र कश्मीरी पुत्र मुसददी 1/3 भाग मदन लाल पुत्र बशेशर पुत्र कुन्दन लाल 1/3 भाग वासीदेह |
| | | | 130 | 21 | निजी | गैरकृषि | 0.0860 | नन्द किशोर पुत्र लछमन दास पुत्र फगू 1/3 भाग महन्त राम पुत्र कश्मीरी पुत्र मुसददी 1/3 भाग मदन लाल पुत्र बशेशर पुत्र कुन्दन लाल 1/3 भाग वासीदेह |
| | | | 131 | 25 | निजी | गैरकृषि | 0.0877 | नन्द किशोर पुत्र लछमन दास पुत्र फगू 1/3 भाग महन्त राम पुत्र कश्मीरी पुत्र मुसददी 1/3 भाग मदन लाल पुत्र बशेशर पुत्र कुन्दन लाल 1/3 भाग वासीदेह |
| | | | 131 | 17 | निजी | कृषि | 0.0708 | महन्त राम पुत्र कश्मीरी लाल पुत्र मसददी लाल राम कुमार पुत्र नन्द किशोर पुत्र लछमन दास, मदन लाल पुत्र बशेशर दास पुत्र कुन्दन हर तीन समभाग । |
| | | | 131 | 18 | निजी | कृषि | 0.0472 | महन्त राम पुत्र कश्मीरी लाल पुत्र मसददी लाल राम कुमार पुत्र नन्द किशोर पुत्र लछमन दास, मदन लाल पुत्र बशेशर दास पुत्र कुन्दन हर तीन समभाग । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | मूखामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 131 | 24 | निजी | कृषि | 0.0025 | महन्त राम पुत्र कशमीरी लाल पुत्र मसददी लाल राम कुमार पुत्र नन्द किशोर पुत्र लछमन दास, मदन लाल पुत्र बशेशर दास पुत्र कुन्दन हर तीन समभाग। |
| | | | 131 | 12/1 | निजी | कृषि | 0.0725 | सुनील कुमार पुत्र ब्रज भुषण पुत्र साधू राम, तारा चन्द्र पुत्र राम प्रसाद पुत्र रामसरन समभाग। |
| | | | 131 | 19 | निजी | कृषि | 0.0025 | सुनील कुमार पुत्र ब्रज भुषण पुत्र साधू राम 55/110 भाग तारा चन्द्र पुत्र राम प्रसाद पुत्र रामसरन 54/110 भाग, गुरचरन सिंह पुत्र रंजीत सिंह पुत्र केशर सिंह 1/110 भाग |
| | | | 131 | 11 | निजी | कृषि | 0.0506 | अमी सिंह पुत्र मानसिंह पुत्र चमेला वासीदेह |
| | | | 132 | 6 | निजी | कृषि | 0.0337 | अमी सिंह पुत्र मानसिंह पुत्र चमेला वासीदेह |
| | | | 132 | 15 | निजी | कृषि | 0.0287 | अमी सिंह पुत्र मानसिंह पुत्र चमेला वासीदेह |
| | | | 132 | 7 | निजी | कृषि | 0.0495 | श्रीमति पुष्पा रानी पत्नी ओम प्रकाश पुत्र आया राम 1/2 भाग श्रीमति सरोज पत्नी सीताराम पुत्र आया राम 1/2 भाग। |
| | | | 140 | 2/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0228 | प्रदेस सरकार। |
| | | | | 193 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0354 | प्रदेस सरकार। |
| | | (5) मौजगढ़ | 26 | 1 | निजी | कृषि | 0.0886 | हरविजय पाल सिंह, मनिन्द्रपाल सिंह पुत्रान महिन्दर सिंह पुत्र ईशर सिंह समभाग वासीदेह |
| | | | 25 | 5 | निजी | कृषि | 0.0936 | हरविजय पाल सिंह, मनिन्द्रपाल सिंह पुत्रान महिन्दर सिंह पुत्र ईशर सिंह समभाग वासीदेह |
| | | | 25 | 4 | निजी | कृषि | 0.0025 | गुरदीप सिंह, इन्द्रजीत सिंह, जसपाल सिंह पुत्रान रवैल सिंह पुत्र मघर सिंह पुत्र जोध सिंह 40/503 भाग मोहन लाल पुत्र तारा चन्द पुत्र बारू राम 40/503 भाग वासीदेह |
| | | | 22 | 24/1 | निजी | गैर कृषि | 0.1012 | गुरदीप सिंह, इन्द्रजीत सिंह, जसपाल सिंह पुत्रान रवैल सिंह पुत्र मघर सिंह पुत्र जोध सिंह 40/503 भाग मोहन लाल पुत्र तारा चन्द पुत्र बारू राम 40/503 भाग वासीदेह |
| | | | 22 | 23/2 | निजी | कृषि | 0.0961 | गुरदीप सिंह, इन्द्रजीत सिंह, जसपाल सिंह पुत्रान रवैल सिंह पुत्र मघर सिंह पुत्र जोध सिंह 40/503 भाग मोहन लाल पुत्र तारा चन्द पुत्र बारू राम 40/503 भाग वासीदेह |
| | | | 22 | 19/2/2 | निजी | कृषि | 0.0633 | गुरदीप सिंह, इन्द्रजीत सिंह, जसपाल सिंह पुत्रान रवैल सिंह पुत्र मघर सिंह हर तीन समभाग 4/5 भाग बुध सिंह पुत्र गुरदित सिंह पुत्र रवैल सिंह 1/5 भाग वासीदेह। |
| | | | 22 | 22/1 | निजी | कृषि | 0.0101 | गुरदीप सिंह, इन्द्रजीत सिंह, जसपाल सिंह पुत्रान रवैल सिंह पुत्र मघर सिंह हर तीन समभाग 4/5 भाग बुध सिंह पुत्र गुरदित सिंह पुत्र रवैल सिंह 1/5 भाग वासीदेह। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 22 | 19/2/1 | निजी | कृषि | 0.0051 | दलीप सिंह पुत्र सन्त सिंह पुत्र गुरदित सिंह वासीदेह |
| | | | 22 | 20 | निजी | कृषि | 0.0911 | दलीप सिंह पुत्र सन्त सिंह पुत्र गुरदित सिंह वासीदेह |
| | | | 23 | 8/2 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0531 | पंचायत देह वासीदेह |
| | | | 23 | 9 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0810 | पंचायत देह वासीदेह |
| | | | 23 | 13 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0495 | पंचायत देह वासीदेह |
| | | | 23 | 14 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0961 | पंचायत देह वासीदेह |
| | | | 23 | 15/2 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0708 | पंचायत देह वासीदेह |
| | | | 23 | 16 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0278 | पंचायत देह वासीदेह |
| | | (6) सज्जन माजरी | 20 | 9 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0135 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 20 | 10 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0135 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 19 | 4 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0127 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 19 | 5 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0242 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 19 | 3 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0025 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 11 | 20 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0455 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 11 | 21 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0025 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 11 | 22 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0354 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 11 | 23 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0127 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 12 | 13 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0380 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 12 | 14 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0388 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 12 | 16 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0483 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 12 | 17 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0101 | मुशत्रका मालकान कुल (2033) दो हजार तैतीस हिस्से। पंचायत देह। |
| | | | 12 | 9/2 | निजी | कृषि | 0.0202 | कल्याण सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र खुशहाल सिंह |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 12 | 12 | निजी | कृषि | 0.0177 | हरबंस सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र खुशहाल सिंह । कन्धारा सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र खुशहाल सिंह । |
| | | | 12 | 10 | निजी | कृषि | 0.0380 | प्यारा सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र खुशहाल सिंह |
| | | | 33 | 17 | निजी | कृषि | 0.0557 | श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी कुलवन्त सिंह पुत्र प्यारा सिंह वासी चहल माजरा । |
| | | | 33 | 16/2 | निजी | कृषि | 0.0684 | श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी कुलवन्त सिंह पुत्र प्यारा सिंह वासी चहल माजरा । |
| | | | 33 | 25 | निजी | गैर कृषि | 0.0675 | श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी कुलवन्त सिंह पुत्र प्यारा सिंह वासी चहल माजरा । |
| | | | 34 | 21 | निजी | कृषि | 0.0810 | श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी कुलवन्त सिंह पुत्र प्यारा सिंह वासी चहल माजरा । |
| | | (7) दादपुर | 8 | 10/2 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0911 | पंचायत देह वासीदेह । |
| | | | 8 | 9/2 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0076 | पंचायत देह वासीदेह । |
| | | | 8 | 11 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0343 | पंचायत देह वासीदेह । |
| | | | 8 | 12 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.3314 | पंचायत देह वासीदेह । |
| | | | 8 | 17 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0180 | पंचायत देह वासीदेह । |
| | | | 8 | 18 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.3188 | पंचायत देह वासीदेह । |
| | | | 8 | 19 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.2530 | पंचायत देह वासीदेह । |
| | | | 8 | 13/1 | निजी | कृषि | 0.1686 | गरधरा सिंह, मुख्त्यारा सिंह पुत्रान बघावा सिंह पुत्र जवाला सिंह हर दो समभाग वासी रजौली |
| | | | 8 | 14/1 | निजी | कृषि | 0.0225 | जरनैल सिंह, हरभजन सिंह पुत्रान दर्शन सिंह पुत्र वीर सिंह हर दो समभाग 1/4 भाग महिन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र वीर सिंह 3/16 भाग सुरेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र वीर सिंह 1/16 भाग दर्शन सिंह पुत्र वीर सिंह पुत्र रूलदा 1/2 भाग वासीदेह |
| | | | 8 | 23 | निजी | कृषि | 0.1720 | चरण सिंह पुत्र सोहनलाल पुत्र गंगा राम वासीदेह |
| | | | 8 | 21 | निजी | कृषि | 0.0076 | चरण सिंह पुत्र सोहनलाल पुत्र गंगा राम वासीदेह |
| | | | 14 | 3 | निजी | कृषि | 0.0157 | चरण सिंह पुत्र सोहनलाल पुत्र गंगा राम वासीदेह |
| | | | 8 | 22 | निजी | कृषि | 0.3598 | रोशन लाल, अमरनाथ पुत्रान उत्तम चन्द पुत्र गंगा राम हर दो समभाग वासीदेह |
| | | | 14 | 2 | निजी | कृषि | 0.0177 | रोशन लाल, अमरनाथ पुत्रान उत्तम चन्द पुत्र गंगा राम हर दो समभाग वासीदेह |

| क्र. संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 9 | 2 | निजी | कृषि | 0.0202 | हरभजन सिंह, बलजीत सिंह, कुलजिन्द सिंह पुत्रान हरचरण सिंह पुत्र मदन सिंह समभाग 3/5 भाग वा हरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह पुत्रान व श्रीमती दमनप्रीत कौर, रमनप्रीत कौर पुत्रियां व श्रीमती जसविन्दर कौर विधवा जसवीर सिंह पुत्र हरचरण सिंह हर पांच समभाग 1/5 भाग श्रीमती रविन्दर कौर विधवा व तेजपाल सिंह, सर्वप्रीत सिंह पुत्रान भुपिन्दर सिंह पुत्र हरचरण समभाग 1/5 भाग वासीदेह। |
| | | | 9 | 3 | निजी | कृषि | 0.0989 | हरभजन सिंह, बलजीत सिंह, कुलजिन्द सिंह पुत्रान हरचरण सिंह पुत्र मदन सिंह समभाग 3/5 भाग वा हरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह पुत्रान व श्रीमती दमनप्रीत कौर, रमनप्रीत कौर पुत्रियां व श्रीमती जसविन्दर कौर विधवा जसवीर सिंह पुत्र हरचरण सिंह हर पांच समभाग 1/5 भाग श्रीमती रविन्दर कौर विधवा व तेजपाल सिंह, सर्वप्रीत सिंह पुत्रान भुपिन्दर सिंह पुत्र हरचरण समभाग 1/5 भाग वासीदेह। |
| | | | 4 | 22/2 | निजी | कृषि | 0.0742 | हरभजन सिंह, बलजीत सिंह, कुलजिन्द सिंह पुत्रान हरचरण सिंह पुत्र मदन सिंह समभाग 3/5 भाग वा हरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह पुत्रान व श्रीमती दमनप्रीत कौर, रमनप्रीत कौर पुत्रियां व श्रीमती जसविन्दर कौर विधवा जसवीर सिंह पुत्र हरचरण सिंह हर पांच समभाग 1/5 भाग श्रीमती रविन्दर कौर विधवा व तेजपाल सिंह, सर्वप्रीत सिंह पुत्रान भुपिन्दर सिंह पुत्र हरचरण समभाग 1/5 भाग वासीदेह। |
| | | | 9 | 4/2 | निजी | कृषि | 0.0835 | श्रीमती गुरचरण कौर पत्नी हरभजन सिंह पुत्र हरचरण सिंह वासी बराहा |
| | | | 9 | 7/1 | निजी | कृषि | 0.0076 | श्रीमती गुरचरण कौर पत्नी हरभजन सिंह पुत्र हरचरण सिंह वासी बराहा |
| | | | 9 | 65 | निजी | कृषि | 0.0090 | जगीरचन्द, बलदेव राज पाला राम पैमचन्द बलदेव चन्द पुत्रान बचना राम पुत्र झानू हर पांच समभाग वासीदेह |
| | (8) चहल माजरा | | 14 | 10/2 | निजी | गैर कृषि | 0.0987 | कबीर सिंह कशमीरा सिंह गुरदीप सिंह अमरीक सिंह पुत्रान व श्रीमती हरबन्हा कौर, राजवन्त कौर, प्रकाश कौर रसुचिण लछमन सिंह पुत्र मिहा सिंह हर सात समभाग 7/9 भाग श्रीमती स्वर्ण कौर विधवा व परमजीत सिंह कर्नल सिंह पुत्रान व श्रीमती जयरजीत कौर, सतविन्द कौर रसुचिण बखशीश सिंह पुत्र लछमन सिंह हर 5 समभाग 5/9 भाग नरिन्द कौर विधवा व पलविन्द सिंह दविन्द सिंह जतिन्द सिंह पुत्रान व श्रीमती रुपिन्दर कौर सतविन्द कौर रसुचिण हरबन्हा सिंह पुत्र लछमन सिंह हर 6 समभाग 6/9 भाग । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 14 | 11 | निजी | कृषि | 0.0304 | कशमीरा सिंह, बक्शीश सिंह, हरवन्स सिंह, गुरदीप सिंह, अमरीक सिंह पुत्रान लक्ष्मण सिंह पुत्र मिहा सिंह हर 5 समभाग । |
| | | | 14 | 12 | निजी | कृषि | 0.1265 | कशमीरा सिंह, बक्शीश सिंह, हरवन्स सिंह, गुरदीप सिंह, अमरीक सिंह पुत्रान लक्ष्मण सिंह पुत्र मिहा सिंह हर 5 समभाग । |
| | | | 14 | 13/2 | निजी | कृषि | 0.0658 | कशमीरा सिंह, बक्शीश सिंह, हरवन्स सिंह, गुरदीप सिंह, अमरीक सिंह पुत्रान लक्ष्मण सिंह पुत्र मिहा सिंह हर 5 समभाग । |
| | | | 14 | 17 | निजी | कृषि | 0.0886 | कशमीरा सिंह, बक्शीश सिंह, हरवन्स सिंह, गुरदीप सिंह, अमरीक सिंह पुत्रान लक्ष्मण सिंह पुत्र मिहा सिंह हर 5 समभाग । |
| | | | 14 | 18 | निजी | कृषि | 0.0708 | अमरीक सिंह पुत्र लक्ष्मण पुत्र मिहा सिंह । |
| | | | 15 | 3 | निजी | कृषि | 0.0928 | बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग कुलदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग । |
| | | | 15 | 4/2 | निजी | कृषि | 0.0582 | बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग कुलदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग । |
| | | | 15 | 4/3 | निजी | कृषि | 0.0337 | बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग कुलदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग । |
| | | | 15 | 5/3 | निजी | कृषि | 0.0067 | बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग कुलदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग । |
| | | | 15 | 6 | निजी | कृषि | 0.1293 | बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग कुलदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग । |
| | | | 15 | 7/1 | निजी | कृषि | 0.0127 | बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग कुलदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग । |
| | | | 9 | 22 | निजी | कृषि | 0.1189 | बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग कुलदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग । |
| | | | 9 | 23/1 | निजी | कृषि | 0.0380 | बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग कुलदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र चमेला 1/2 भाग । |
| | | | 9 | 20/2 | निजी | कृषि | 0.0810 | औमप्रकाश, दिनेश कुमार शमप्रसाद उर्फ शाम लाल पुत्रान शिवप्रसाद पुत्र साधू राम हर 3 समभाग 3/8 प्रवीन कुमार पुत्र या श्रीमति सुदेश बाला पत्नी पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद समभाग 1/12 भाग श्रीमति सरोजबाला विधवा या साहिल कुमार, मोहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाग 1/24 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रूलिया राम 1/2 भाग । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 9 | 21 | निजी | कृषि | 0.0202 | औमप्रकाश, दिनेश कुमार शमप्रसाद उर्फ शाम लाल पुत्रान शिवप्रसाद पुत्र साधू राम हर 3 समभाग 3/8 प्रवीन कुमार पुत्र वा श्रीमति सुदेश बाला पत्नी पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद समभाग 1/12 भाग श्रीमति सरोजबाला विधवा वा साहिल कुमार, मोहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाक 1/24 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग । |
| | | | 8 | 13 | निजी | कृषि | 0.0197 | औमप्रकाश, दिनेश कुमार शमप्रसाद उर्फ शाम लाल पुत्रान शिवप्रसाद पुत्र साधू राम हर 3 समभाग 3/8 प्रवीन कुमार पुत्र वा श्रीमति सुदेश बाला पत्नी पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद समभाग 1/12 भाग श्रीमति सरोजबाला विधवा वा साहिल कुमार, मोहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाक 1/24 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग । |
| | | | 8 | 14 | निजी | कृषि | 0.1037 | औमप्रकाश, दिनेश कुमार शमप्रसाद उर्फ शाम लाल पुत्रान शिवप्रसाद पुत्र साधू राम हर 3 समभाग 3/8 प्रवीन कुमार पुत्र वा श्रीमति सुदेश बाला पत्नी पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद समभाग 1/12 भाग श्रीमति सरोजबाला विधवा वा साहिल कुमार, मोहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाक 1/24 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग । |
| | | | 8 | 15/1 | निजी | कृषि | 0.0354 | औमप्रकाश, दिनेश कुमार शमप्रसाद उर्फ शाम लाल पुत्रान शिवप्रसाद पुत्र साधू राम हर 3 समभाग 3/8 प्रवीन कुमार पुत्र वा श्रीमति सुदेश बाला पत्नी पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद समभाग 1/12 भाग श्रीमति सरोजबाला विधवा वा साहिल कुमार, मोहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाक 1/24 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग । |
| | | | 8 | 16 | निजी | कृषि | 0.0759 | औमप्रकाश, दिनेश कुमार शमप्रसाद उर्फ शाम लाल पुत्रान शिवप्रसाद पुत्र साधू राम हर 3 समभाग 3/8 प्रवीन कुमार पुत्र वा श्रीमति सुदेश बाला पत्नी पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद समभाग 1/12 भाग श्रीमति सरोजबाला विधवा वा साहिल कुमार, मोहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाक 1/24 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग । |
| | | | 8 | 8/2 | निजी | कृषि | 0.0854 | औमप्रकाश, दिनेश कुमार शमप्रसाद उर्फ शाम लाल पुत्रान शिवप्रसाद पुत्र साधू राम हर 3 समभाग 3/8 प्रवीन कुमार पुत्र वा श्रीमति सुदेश बाला पत्नी पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद समभाग 1/12 भाग श्रीमति सरोजबाला विधवा वा साहिल कुमार, मोहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाक 1/24 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 8 | 9 | ग्राम पंचायत | गैर कृषि | 0.0708 | पंचायत देह |
| | | | | 32 | निजी | कृषि | 0.0127 | प्रेमचन्द मन्दाज खेवट नं० 3/1249 भाग तिलकराज मन्दाज खेवट नं० 7/1249 भाग श्रीमति चमनदेवी खेवट नं० 261/1249 तीर्थ सिंह पुत्र घन्दा सिंह 26/1249 भाग मोहन लाल, सोहन लाल पुत्रान वा श्रीमति सीतावन्ती, सुमित्रा, इन्द्रा सपुत्रियान वा श्रीमति जीवन देवी विधवा सुन्दरदास पुत्र लछमीदास 17/1249 भाग हरनाम सिंह वगैरा मन्दाज खेवट नं० 2/1249 भाग चरन सिंह पन्ना लाल, अतर सिंह पुत्रान गण्डा मल 8/1249 भाग लछमनदास, रामसरन, किशनलाल पुत्रान काशी राम पुत्र देवीदयाल 5/1249 भाग कुलदीप सिंह, हरबन्स सिंह पुत्रान सन्ता सिंह 5/1249 भाग कर्नल महिन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र शेर सिंह 227/1249 भाग सन्तोख सिंह वगैरा मुन्दाज खेवट नं० 2/1249 भाग केन्द्रीय सरकार 35/1249 भाग सोहन सिंह पुत्र ठाकर सिंह पुत्र आसा सिंह 11/1249 भाग कुलदीप सिंह पुत्र सन्त सिंह पुत्र गोधल सिंह 7/1249 भाग शिवराम, प्रेम चन्द पुत्रान सुन्दर पुत्र वीरा समभाग 27/1249 जी राम पुत्र वीरु पुत्र दौला 27/1249 भाग शामसुन्दर पुत्र नारायण 1/1249 भाग राजिन्द्र कुमार वगैरा मन्दाज खेवट नं० 1/1249 भाग बाबू राम पुत्र रामचन्द्र पुत्र शिवराम 2/1249 भाग जगनाथ पुत्र कृपा राम पुत्र हीरा 4/1249 भाग जोगिन्द्र सिंह वगैरा 105/1249 भाग बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र चमेला सिंह 139/2498 भाग कुलदीप सिंह पुत्र करनेल सिंह चमेला सिंह 139/2498 भाग रामजीलाल वगैरा मन्दाज |
| | | | | 1393 | निजी | कृषि | 0.0586 | श्याम लाल पुत्र शिवप्रसाद पुत्र साधूराम 243/1152 भाग प्रवीन कुमार पुत्रान पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद 333/2304 भाग श्रीमति सरोजवाला विधवा वा साहिल कुमार, मेहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाग 333/2304 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग। |
| | | | | 1396 | निजी | कृषि | 0.0676 | श्याम लाल पुत्र शिवप्रसाद पुत्र साधूराम 243/1152 भाग प्रवीन कुमार पुत्रान पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद 333/2304 भाग श्रीमति सरोजवाला विधवा वा साहिल कुमार, मेहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाग 333/2304 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग। |
| | | | | 1389 | निजी | कृषि | 0.0151 | श्याम लाल पुत्र शिवप्रसाद पुत्र साधूराम 243/1152 भाग प्रवीन कुमार पुत्रान पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद 333/2304 भाग श्रीमति सरोजवाला विधवा वा साहिल कुमार, मेहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाग 333/2304 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग। |
| | | | | 1390 | निजी | कृषि | 0.0441 | श्याम लाल पुत्र शिवप्रसाद पुत्र साधूराम 243/1152 भाग प्रवीन कुमार पुत्रान पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद 333/2304 भाग श्रीमति सरोजवाला विधवा वा साहिल कुमार, मेहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाग 333/2304 भाग वैणीप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग। |

| क्रम संख्या | तहसील | गोंव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिश्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | | 1405 | निजी | कृषि | 0.0596 | श्याम लाल पुत्र शिवप्रसाद पुत्र साधूराम 243/1152 भाग . प्रवीन कुमार पुत्रान पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद 333/2304 भाग श्रीमति सरोजवाला विधवा वा साहिल कुमार, मेहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाग 333/2304 भाग वैष्णुप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग। |
| | | | | 1427 | निजी | कृषि | 0.0028 | ईशम सिंह, समे सिंह, राजकुमार, राजपाल सिंह, साहब सिंह, बलराम सिंह, पुत्रान साधूराम पुत्र बीजाराम समभाग 1/2 निरफ श्रीमति चम्पा देवी विधवा वा मेहर सिंह, किरणपाल सिंह पुत्रान हुक्म सिंह पुत्र अमर सिंह समभाग 3/8 भाग अजैब सिंह जगीर सिंह पुत्रान कुन्दन सिंह पुत्र नत्था सिंह समभाग 1/8 भाग । |
| | | | | 1406 | निजी | कृषि | 0.0328 | बाबू राम, आत्मा राम पुत्रान बारू राम समभाग 2/3 भाग वा साधू राम पुत्र द्वारका 1/3 भाग वासीदेह । |
| | | | | 1407 | निजी | कृषि | 0.0567 | देवराज पुत्र पुन्ना राम पुत्र नाथू राम वासीदेह केसरी |
| | | | | | | | | खेवट नं0 28/1249 भाग सुन्दर लाल रत्ती राम ऊर्फ रतन लाल ज्ञान चन्द, पूर्णचन्द पुत्रान नोराता राम गंगा राम समभाग 75/4996 भाग बाबू राम पुत्र गंगा राम पुत्र शंकर 25/4996 नानक सिंह वगैरा मन्दाज खेवट नं0 33/1249 भाग सोमदत्त वगैरा मन्दाज खेवट नं0 21/1249 भाग जगदीश पुत्र कुन्दन पुत्र भूला 2/3747 भाग सिरीनिवास पुत्र वैजनाथ पुत्र कुन्दन 1/3747 भाग विष्णु दत्त पुत्र आतमा राम पुत्र कुन्दन 2/3747 भाग श्रीमति शान्ति विधवा बनारसी दास पुत्र वैजनाथ 1/3747 भाग विष्णु दत्त पुत्र आतमा राम पुत्र कुन्दन 2/3747 भाग मीहां, अमरनाथ लछमन, प्रकाश पुत्रान रुर पुत्र साखी समभाग 1/2498 भाग श्रीमति भगीरथी विधवा खडकू पुत्र साखी 1/2498 भाग पूरन वगैरा मन्दाज खेवट नं0 1/1249 भाग भगता पुत्र उदमी पुत्र हमीरा 1/1249 भाग जरनैल सिंह मन्दाज खेवट नं0 15/1249 भाग शिवप्रसाद वगैरा मन्दाज खेवट नं0 31/1249 भाग अमराव सिंह पुत्र जंग्गा सिंह पुत्र तेजा सिंह 1/1249 भाग राजिन्द्र सिंह पुत्र कुलराज सिंह 7/1249 भाग मंगता पुत्र बारू पुत्र सुरजा 9/1249 भाग। |
| | | (9) तन्दवाल | | 1392 | निजी | कृषि | 0.0687 | श्याम लाल पुत्र शिवप्रसाद पुत्र साधूराम 243/1152 भाग प्रवीन कुमार पुत्रान पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद 333/2304 भाग श्रीमति सरोजवाला विधवा वा साहिल कुमार, मेहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाग 333/2304 भाग वैष्णुप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग। |
| | | | | 1387 | निजी | कृषि | 0.0019 | श्याम लाल पुत्र शिवप्रसाद पुत्र साधूराम 243/1152 भाग प्रवीन कुमार पुत्रान पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद 333/2304 भाग श्रीमति सरोजवाला विधवा वा साहिल कुमार, मेहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाग 333/2304 भाग वैष्णुप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | | 1395 | निजी | कृषि | 0.0050 | श्याम लाल पुत्र शिवप्रसाद पुत्र साधूराम 243/1152 भाग प्रवीन कुमार पुत्रान पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद 333/2304 भाग श्रीमति सरोजवाला विधवा वा साहिल कुमार, मेहुल कुमार पुत्रान विजय कुमार पुत्र पदम कुमार हर 3 समभाग 333/2304 भाग वैष्णुप्रसाद पुत्र साधू राम पुत्र रुलिया राम 1/2 भाग। |
| | | | | 1408/2 | निजी | कृषि | 0.0321 | राजेश पुत्र साधू राम पुत्र नत्थू वासीदेह |
| | | | | 1410 | निजी | कृषि | 0.0851 | राजेश पुत्र साधू राम पुत्र नत्थू वासीदेह |
| | | | | 1411 | निजी | कृषि | 0.0029 | राजेश पुत्र साधू राम पुत्र नत्थू वासीदेह |
| | | | | 1412 | निजी | कृषि | 0.0671 | ईशम सिंह, समे सिंह, राजकुमार, राजपाल सिंह, साहब सिंह, बलराम सिंह, पुत्रान साधुराम पुत्र बीजाराम समभाग 1/2 भाग श्रीमति चम्पा देवी विधवा वा हेम सिंह, किरणपाल सिंह पुत्रान हुक्म सिंह पुत्र अमर सिंह 3/8 भाग वा मेहर सिंह पुत्र हुक्म सिंह पुत्र अमर सिंह 85/4008 भाग जगीर सिंह पुत्र कुन्दन सिंह पुत्र नत्था सिंह 52/501 भाग। |
| | | | | 1414 | निजी | कृषि | 0.0053 | ईशम सिंह, समे सिंह, राजकुमार, राजपाल सिंह, साहब सिंह, बलराम सिंह, पुत्रान साधुराम पुत्र बीजाराम समभाग 1/2 भाग श्रीमति चम्पा देवी विधवा वा हेम सिंह, किरणपाल सिंह पुत्रान हुक्म सिंह पुत्र अमर सिंह 3/8 भाग वा मेहर सिंह पुत्र हुक्म सिंह पुत्र अमर सिंह 85/4008 भाग जगीर सिंह पुत्र कुन्दन सिंह पुत्र नत्था सिंह 52/501 भाग। |
| | | | | 1413 | निजी | कृषि | 0.1342 | ईशम सिंह समे सिंह, राजकुमार राजपाल सिंह साहब सिंह बलराम सिंह पुत्रान साधुराम पुत्र बीजा राम समभाग 1/2 भाग, श्रीमति चम्पा देवी विधवा वा मेहर सिंह, हेम सिंह, किरणपाल सिंह पुत्रान हुक्म सिंह समभाग 1/2 भाग। |
| | | | | 1454 | सरकारी | कृषि | 0.1493 | नगर पंचायत |
| | | | | 1455 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0691 | नगर पंचायत |
| | | | | 1457 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0869 | नगर पंचायत |
| | | | | 1458 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0964 | नगर पंचायत |
| | | | | 1358 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0134 | नगर पंचायत |
| | | | | 1403 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0798 | नगर पंचायत |
| | | | | 1388 | निजी | कृषि | 0.0067 | श्याम लाल पुत्र शिवप्रसाद पुत्र साधूराम 1/5 भाग प्रवीन कुमार पुत्र पदम कुमार पुत्र शिवप्रसाद 3/20 भाग मोहुल कुमार वा सरोजवाला विधवा वा साहिल कुमार पुत्रान, विजय कुमार पुत्र पदम कुमार समभाग 3/20 भाग वैष्णुप्रसाद पुत्र रुलिया राम, 1/2 निस्फ। |
| | | | | 655 | निजी | गैर कृषि | 0.0063 | फूल सिंह पुत्र ठाकर सिंह, पुत्र लाल सिंह 1/3 तिहाई हरिचन्द, जयचन्द पुत्रान बल सिंह पुत्र ठाकर सिंह समभाग 1/3 तिहाई वा श्रीमति द्रोपती देवी विधवा व नत्था सिंह, सतपाल सिंह, रामकंवर, बालकृष्ण, र्वन कुमार पुत्रान व श्रीमती सिमला देवी स्नुत्री बीर सिंह पुत्र ठाकर सिंह हर समभाग 1/3 तिहाई। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | | 659 | निजी | कृषि | 0.0771 | फूल सिंह पुत्र ठाकर सिंह, पुत्र लाल सिंह 1/3 तिहाई हरिचन्द, जयचन्द पुत्रान बल सिंह पुत्र ठाकर सिंह समभाग 1/3 तिहाई या श्रीमति द्रोपती देवी विधवा व नत्था सिंह, सतपाल सिंह, रामकंवर, बालकृष्ण, र्वन कुमार पुत्रान व श्रीमती सिमला देवी स्पुत्री बीर सिंह पुत्र ठाकर सिंह हर समभाग 1/3 तिहाई । |
| | | | | 671 | निजी | कृषि | 0.0738 | फूल सिंह पुत्र ठाकर सिंह, पुत्र लाल सिंह 1/3 तिहाई हरिचन्द, जयचन्द पुत्रान बल सिंह पुत्र ठाकर सिंह समभाग 1/3 तिहाई या श्रीमति द्रोपती देवी विधवा व नत्था सिंह, सतपाल सिंह, रामकंवर, बालकृष्ण, र्वन कुमार पुत्रान व श्रीमती सिमला देवी स्पुत्री बीर सिंह पुत्र ठाकर सिंह हर समभाग 1/3 तिहाई । |
| | | | | 658 | निजी | कृषि | 0.0880 | फूल सिंह पुत्र ठाकर सिंह, पुत्र लाल सिंह 1/3 तिहाई हरिचन्द, जयचन्द पुत्रान बल सिंह पुत्र ठाकर सिंह समभाग 1/3 तिहाई या श्रीमति द्रोपती देवी विधवा व नत्था सिंह, सतपाल सिंह, रामकंवर, बालकृष्ण, र्वन कुमार पुत्रान व श्रीमती सिमला देवी स्पुत्री बीर सिंह पुत्र ठाकर सिंह हर समभाग 1/3 तिहाई । |
| | | | | 672 | निजी | कृषि | 0.0268 | फूल सिंह पुत्र ठाकर सिंह, पुत्र लाल सिंह 1/3 तिहाई हरिचन्द, जयचन्द पुत्रान बल सिंह पुत्र ठाकर सिंह समभाग 1/3 तिहाई या श्रीमति द्रोपती देवी विधवा व नत्था सिंह, सतपाल सिंह, रामकंवर, बालकृष्ण, र्वन कुमार पुत्रान व श्रीमती सिमला देवी स्पुत्री बीर सिंह पुत्र ठाकर सिंह हर समभाग 1/3 तिहाई । |
| | | | | 677 | निजी | कृषि | 0.0860 | फूल सिंह पुत्र ठाकर सिंह, पुत्र लाल सिंह 1/3 तिहाई हरिचन्द, जयचन्द पुत्रान बल सिंह पुत्र ठाकर सिंह समभाग 1/3 तिहाई या श्रीमति द्रोपती देवी विधवा व नत्था सिंह, सतपाल सिंह, रामकंवर, बालकृष्ण, र्वन कुमार पुत्रान व श्रीमती सिमला देवी स्पुत्री बीर सिंह पुत्र ठाकर सिंह हर समभाग 1/3 तिहाई । |
| | | | | 654 | निजी | कृषि | 0.1418 | फूल सिंह वगैरा मजकूरान |
| | | | | 657 | निजी | कृषि | 0.0034 | फूल सिंह वगैरा मजकूरान |
| | | | | 675 | निजी | कृषि | 0.1308 | फूल सिंह वगैरा मजकूरान |
| | | | | 676 | निजी | कृषि | 0.0019 | फूल सिंह वगैरा मजकूरान |
| | | | | 688 | निजी | कृषि | 0.0246 | विशुन पुरी, प्रेमपुरी, जयपाल पुरी पुत्रान बालक पुरी पुत्र कन्हैया पुरी समभाग 3/4 भाग कैलाश पुरी, कर्णपुरी कान्ति मोहनपुरी पुत्रान शान्ति पुरी पुत्र कन्हैया पुरी समभाग 1/4 भाग वासीदेह |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | मूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | | 694 | निजी | कृषि | 0.0893 | सोमदत्त, राजेश्वर दत्त पुत्रान जीवनराम पुत्र कुन्दन समभाग 32/75 भाग वा इन्द्रजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह पुत्रान गुरचरण सिंह पुत्र प्रेम सिंह समभाग साकनान अधोया (M) 43/75 भाग । |
| | | | | 708 | निजी | कृषि | 0.0654 | मोलड सिंह, मदन सिंह, सुखबीर सिंह, पुत्रान हन्सराज पुत्र बीजा राम समभाग 3/4 भाग सुरेश कुमार ,ओमप्रकाश पुत्रान व श्रीमती शान्ती देवी विधवा महीपाल सिंह पुत्र हन्सराज समभाग 1/4 भाग यासीदेह। |
| | | (10) हरयोली | | 747 | निजी | कृषि | 0.1409 | कुल (5) पाँच भाग सीसपालसिंह , रिच्छपाल, यशपाल, पुत्रान टिक्का सिंह पुत्र नसीब सिंह हर तीन समभाग (1) एक भाग देवराज पुत्र व श्रीमति शुन्ताला देवी विधवा बाबू सिंह पुत्र नसीब सिंह हर दो समभाग (1) भाग महावीर सिंह, अशोक कुमार राजेश कुमार पुत्र हरकेश सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग (1) एक भाग सुदेश कुमार प्रदीप कुमार रणदीप सिंह पुत्रान केहर सिंह पुत्र नसीब सिंह हर तीन समभाग (1) एक भाग कुलवन्त सिंह, अवदेश कुमार नरेन्द्र कुमार पुत्रान रुप सिंह पुत्र नसीब सिंह हर तीन समभाग (1) एक भाग । |
| | | | | 748 | निजी | कृषि | 0.0969 | कुल (5) पाँच भाग सीसपालसिंह , रिच्छपाल, यशपाल, पुत्रान टिक्का सिंह पुत्र नसीब सिंह हर तीन समभाग (1) एक भाग देवराज पुत्र व श्रीमति शुन्ताला देवी विधवा बाबू सिंह पुत्र नसीब सिंह हर दो समभाग (1) भाग महावीर सिंह, अशोक कुमार राजेश कुमार पुत्र हरकेश सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग (1) एक भाग सुदेश कुमार प्रदीप कुमार रणदीप सिंह पुत्रान केहर सिंह पुत्र नसीब सिंह हर तीन समभाग (1) एक भाग कुलवन्त सिंह, अवदेश कुमार नरेन्द्र कुमार पुत्रान रुप सिंह पुत्र नसीब सिंह हर तीन समभाग (1) एक भाग । |
| | | | | 503 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0105 | शामलात देह मजकूर |
| | | | | 502 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0019 | शामलात देह मजकूर |
| | | | | 740 | सरकारी | कृषि | 0.0019 | शामलात देह मजकूर |
| | | | | 741 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0205 | शामलात देह मजकूर |
| | | | | 102/2 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0327 | शामलात देह मजकूर |
| | | | | 105/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0019 | राज्य सरकार। |
| | | | | 104/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0243 | राज्य सरकार। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मसौदा नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | (11) नगला | | 104/2 | निजी | गेर कृषि | 0.0084 | सीसपाल, रिच्छपाल, यशपाल, पुत्रान टिक्का सिंह पुत्र नशीब सिंह समभाग। |
| | | | | 46 | निजी | कृषि | 0.0830 | फूलसिंह पुत्र तारा सिंह पुत्रान जवाहिर सिंह व सतपाल, जगपाल, सुरेन्द्रपाल पुत्रान फूल सिंह पुत्र तारा सिंह समभाग |
| | | | 19 | 20/2 | निजी | कृषि | 0.0557 | प्रिथी सिंह, लाभ सिंह, गुरनाम सिंह, ईशर सिंह पुत्रान सुरजन सिंह पुत्र चमेला हर चार भाग 1/2 भाग वा अंग्रेज सिंह, बलवीर सिंह, पिसरान सरवन सिंह पुत्र चमेला समभाग 1/3 भाग वा मोहित पुत्र रणधीर सिंह पुत्र सरवन सिंह 1/6 भाग। |
| | | | 19 | 21/2 | निजी | कृषि | 0.0866 | प्रिथी सिंह, लाभ सिंह, गुरनाम सिंह, ईशर सिंह पुत्रान सुरजन सिंह पुत्र चमेला हर चार भाग 1/2 भाग वा अंग्रेज सिंह, बलवीर सिंह, पिसरान सरवन सिंह पुत्र चमेला समभाग 1/3 भाग वा मोहित पुत्र रणधीर सिंह पुत्र सरवन सिंह 1/6 भाग। |
| | | | 18 | 14/2/2 | निजी | कृषि | 0.0382 | प्रिथी सिंह, लाभ सिंह, गुरनाम सिंह, ईशर सिंह पुत्रान सुरजन सिंह पुत्र चमेला हर चार भाग 1/2 भाग वा अंग्रेज सिंह, बलवीर सिंह, पिसरान सरवन सिंह पुत्र चमेला समभाग 1/3 भाग वा मोहित पुत्र रणधीर सिंह पुत्र सरवन सिंह 1/6 भाग। |
| | | | 18 | 14/3 | निजी | कृषि | 0.0025 | प्रिथी सिंह, लाभ सिंह, गुरनाम सिंह, ईशर सिंह पुत्रान सुरजन सिंह पुत्र चमेला हर चार भाग 1/2 भाग वा अंग्रेज सिंह, बलवीर सिंह, पिसरान सरवन सिंह पुत्र चमेला समभाग 1/3 भाग वा मोहित पुत्र रणधीर सिंह पुत्र सरवन सिंह 1/6 भाग। |
| | | | 18 | 15/2 | निजी | कृषि | 0.0888 | प्रिथी सिंह, लाभ सिंह, गुरनाम सिंह, ईशर सिंह पुत्रान सुरजन सिंह पुत्र चमेला हर चार भाग 1/2 भाग वा अंग्रेज सिंह, बलवीर सिंह, पिसरान सरवन सिंह पुत्र चमेला समभाग 1/3 भाग वा मोहित पुत्र रणधीर सिंह पुत्र सरवन सिंह 1/6 भाग। |
| | | | 18 | 16/2 | निजी | कृषि | 0.2024 | प्रिथी सिंह, लाभ सिंह, गुरनाम सिंह, ईशर सिंह पुत्रान सुरजन सिंह पुत्र चमेला हर चार भाग 1/2 भाग वा अंग्रेज सिंह, बलवीर सिंह, पिसरान सरवन सिंह पुत्र चमेला समभाग 1/3 भाग वा मोहित पुत्र रणधीर सिंह पुत्र सरवन सिंह 1/6 भाग। |
| | | | 18 | 17 | निजी | कृषि | 0.0112 | प्रिथी सिंह, लाभ सिंह, गुरनाम सिंह, ईशर सिंह पुत्रान सुरजन सिंह पुत्र चमेला हर चार भाग 1/2 भाग वा अंग्रेज सिंह, बलवीर सिंह, पिसरान सरवन सिंह पुत्र चमेला समभाग 1/3 भाग वा मोहित पुत्र रणधीर सिंह पुत्र सरवन सिंह 1/6 भाग। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | नस्तील नम्बर | खसत संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 18 | 25 | निजी | कृषि | 0.0025 | प्रिथी सिंह, लाभ सिंह, गुरनाम सिंह, ईशर सिंह पुत्ररान सुरजन सिंह पुत्र चमेला हर चार भाग 1/2 भाग वा अंग्रेज सिंह, बलवीर सिंह, पिसरान सरवन सिंह पुत्र चमेला समभाग 1/3 भाग वा मोहित पुत्र रणवीर सिंह पुत्र सरवन सिंह 1/8 भाग । |
| | | | 19 | 20/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0472 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 19 | 21/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0051 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 8 | 21/2 | निजी | कृषि | 0.1214 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग । |
| | | | 18 | 1/1 | निजी | कृषि | 0.1816 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग । |
| | | | 18 | 1/2 | निजी | कृषि | 0.0025 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | मूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 18 | 2/2 | निजी | कृषि | 0.2361 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग। |
| | | | 18 | 8/2 | निजी | कृषि | 0.2361 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग। |
| | | | 18 | 9 | निजी | कृषि | 0.1389 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग। |
| | | | 18 | 10 | निजी | कृषि | 0.0025 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 18 | 13 | निजी | कृषि | 0.0731 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग। |
| | | | 18 | 14/1/2 | निजी | कृषि | 0.1001 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग। |
| | | | 18 | 27 | निजी | कृषि | 0.0928 | गुरदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह पिसरान गुरदित सिंह 313/1892 भाग हर्षदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 946/1892 भाग श्रीमती कुसम पत्नी स्वरूपलाल पुत्र बी०डी० अग्रवाल व आर्दश पुत्र आनन्द पुत्र उमराव सिंह वासीयान राये मार्किट अम्बाला छावनी समभाग 194/1892 भाग श्रीमती राजरानी पुत्री बी०डी० पुत्र राधाकृष्ण निवासी 144- बी० सी० बाजार अम्बाला छावनी 70/1892 भाग श्रीमती इन्दु पत्नी इन्द्रदेव पुत्र जगदीश चन्द्र वासी 860 अर्बन स्टेट अम्बाला शहर व श्रीमती मीना पत्नी विनय पुत्र सतप्रकाश वासी 195 सैनिक बिहार - प्रीतम पुरा नई दिल्ली समभाग 369/1892 भाग। |
| | | | 18 | 3/2 | निजी | कृषि | 0.0067 | देवीन्द्र पाल सिंह, इकबाल सिंह पुत्रान भगवान सिंह पुत्र पूरन सिंह । |
| | | | 18 | 15/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0382 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 18 | 16/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0090 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 18 | 2/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0065 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 18 | 8/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0214 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 18 | 14/2/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0079 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 18 | 7/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0394 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 18 | 56 | ग्राम पंचायत | गैर कृषि | 0.0292 | पंचायत |
| | | | 17 | 5/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0157 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 9 | 25/1/1 | सरकारी | कृषि | 0.1574 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 9 | 56/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.4441 | प्रदेस सरकार । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 9 | 25/2 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0585 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 9 | 56/2 | सरकारी | गैर कृषि | 0.4452 | प्रदेस सरकार । |
| | | | 9 | 17 | निजी | कृषि | 0.1102 | गुरदेव सिंह (3) भाग गुरमेल सिंह (1) पुत्रान व श्रीमती गुरदेव कौर, नछत्र कौर, आकी स्पुत्रीयान देशराज पुत्र रुलिया हर तीन वहिस्सा बराबर (6) भाग कुल भाग (10) भाग । |
| | | | 9 | 24 | निजी | कृषि | 0.0337 | गुरदेव सिंह (3) भाग गुरमेल सिंह (1) पुत्रान व श्रीमती गुरदेव कौर, नछत्र कौर, आकी स्पुत्रीयान देशराज पुत्र रुलिया हर तीन वहिस्सा बराबर (6) भाग कुल भाग (10) भाग । |
| | | | 9 | 25/1/2 | निजी | कृषि | 0.1417 | गुरदेव सिंह (3) भाग गुरमेल सिंह (1) पुत्रान व श्रीमती गुरदेव कौर, नछत्र कौर, आकी स्पुत्रीयान देशराज पुत्र रुलिया हर तीन वहिस्सा बराबर (6) भाग कुल भाग (10) भाग । |
| | | | 9 | 9 | निजी | कृषि | 0.0922 | रनजोध सिंह पुत्र नौराता पुत्र मुन्शी |
| | | | 9 | 13 | निजी | कृषि | 0.0925 | रनजोध सिंह पुत्र नौराता पुत्र मुन्शी |
| | | | 9 | 18 | निजी | कृषि | 0.0025 | रनजोध सिंह पुत्र नौराता पुत्र मुन्शी |
| | | | 9 | 10 | निजी | कृषि | 0.1102 | हरनेक सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र नौराता 27/1014 भाग नायब सिंह पुत्र सरजीत सिंह पुत्र नौराता 507/1014 भाग नाराता राम, रामकरन पुत्रान गिरधारी लाल पुत्र जीवन राम समभाग 2/3 भाग अमरदीप पुत्र बलदेव राज पुत्र जीवनराम 1/3 भाग दर 500/1014 भाग । |
| | | | 9 | 12 | निजी | कृषि | 0.0146 | हरनेक सिंह, नायब सिंह पिसरान सुरजीत सिंह पुत्र नौराता सिंह बाहिस्सा बराबर रनजोध सिंह पुत्र नौराता पुत्र मुन्शी । |
| | | | 10 | 4 | निजी | कृषि | 0.0025 | मुशत्रका मालकान हसब रसद रकबा खेवट वार । |
| | | | 10 | 5 | निजी | वाटर सप्लाई | 0.1079 | मुशत्रका मालकान हसब रसद रकबा खेवट वार । |
| | | | | 236 | निजी | कृषि | 0.0084 | मुशत्रका मालकान हसब रसद रकबा खेवट वार । |
| | | | 2 | 24 | निजी | कृषि | 0.1214 | मुशत्रका मालकान हसब रसद रकबा खेवट वार । |
| | | | 2 | 11 | निजी | कृषि | 0.0025 | श्रीमती पूरनी स्पुत्री राम किशन निवासा श्रीमती निहाली । |
| | | | 2 | 18/2 | निजी | कृषि | 0.0394 | श्रीमती पूरनी स्पुत्री राम किशन निवासा श्रीमती निहाली । |
| | | | 2 | 19/1 | निजी | कृषि | 0.0534 | श्रीमती पूरनी स्पुत्री राम किशन निवासा श्रीमती निहाली । |
| | | | 2 | 19/2 | निजी | कृषि | 0.0843 | श्रीमती पूरनी स्पुत्री राम किशन निवासा श्रीमती निहाली । |
| | | | 2 | 18/1 | निजी | कृषि | 0.0562 | जयपाल सिंह, विनोद कुमार, प्रीतपाल सिंह पुत्र राजिन्द सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर तीन समभाग 756/6760 भाग संजय सिंह, सोहन सिंह पुत्रान नरायण सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह समभाग 252/6760 भाग तेजवीर सिंह पुत्र सतपाल सिंह वासी घसीटपुर 252/6760 भाग बृज भुषन जंग बहादुर साहब सिंह पुत्रान वा श्रीमति मूर्ति देवी विधवा महीपाल सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर चार समभाग 275/1352 भाग धन शयाम सिंह, शीशपाल सिंह वहिस्सा बराबर 68/1352 भाग पिसरान बसन्त सिंह पुत्र पंजाब सिंह वा विजय सिंह पुत्र जगमाल सिंह पिसर छत्र सिंह वा श्रीमति रीता स्पुत्री जगदीश पुत्र छत्र सिंह वहिस्सा बराबर 482/1352 भाग समभाग साकनान घसीटपुर वा गुरनाम सिंह कृष्ण लाल, बरखा राम, रविन्द्र कुमार पिसरान कांशी राम पुत्र जमना रामतूर चार वहिस्सा बराबर 275/1352 भाग साकनान हल्दरी । |

| क्रम संख्या | तहसील | गोंद का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|--------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 2 | 23 | निजी | कृषि | 0.0067 | जयपाल सिंह, विनोद कुमार, प्रीतपाल सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर तीन समभाग 756/6760 भाग संजय सिंह, सोहन सिंह पुत्रान नरायण सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह समभाग 252/6760 भाग तेजवीर सिंह पुत्र सतपाल सिंह वासी घसीटपुर 252/6760 भाग बृज भुषन जंग बहादुर साहब सिंह पुत्रान वा श्रीमति मूर्ति देवी विधवा महीपाल सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर चार समभाग 275/1352 भाग घन श्याम सिंह, शीशपाल सिंह बहिस्सा बराबर 68/1352 भाग पिसरान बसन्त सिंह पुत्र पंजाब सिंह वा विजय सिंह पुत्र जगमाल सिंह पिसर छत्र सिंह वा श्रीमति रीता स्फुत्री जगदीश पुत्र छत्र सिंह बहिस्सा बराबर 482/1352 भाग समभाग साकनान घसीटपुर वा गुरनाम सिंह कृष्ण लाल, बरखा राम, रविन्द्र कुमार पिसरान कांशी राम पुत्र जमना रामतूर चार बहिस्सा बराबर 275/1352 भाग साकनान हल्दरी, श्रीमती पूरनी स्फुत्री राम किशन निवासा श्रीमती निहाली । |
| | | (12) घसीटपुर | 21 | 3 | निजी | कृषि | 0.0540 | मनफूल सिंह पुत्र हरकेश सिंह पुत्र चनन सिंह । |
| | | | 21 | 4 | निजी | कृषि | 0.1181 | मनफूल सिंह पुत्र हरकेश सिंह पुत्र चनन सिंह । |
| | | | 21 | 5/2 | निजी | कृषि | 0.0084 | मनफूल सिंह पुत्र हरकेश सिंह पुत्र चनन सिंह । |
| | | | 21 | 6 | निजी | कृषि | 0.1417 | मनफूल सिंह पुत्र हरकेश सिंह पुत्र चनन सिंह । |
| | | | 21 | 7 | निजी | कृषि | 0.0112 | मनफूल सिंह पुत्र हरकेश सिंह पुत्र चनन सिंह । |
| | | | 13 | 22 | निजी | कृषि | 0.0809 | मनफूल सिंह पुत्र हरकेश सिंह पुत्र चनन सिंह । |
| | | | 13 | 23/1 | निजी | कृषि | 0.0899 | मनफूल सिंह पुत्र हरकेश सिंह पुत्र चनन सिंह । |
| | | | 13 | 19/2 | निजी | गैर कृषि | 0.0405 | शिवकुमार पुत्र वा श्रीमती शरफी देवी वा श्रीमती सरोज बाला सुपुत्रीयान प्रीतम सिंह पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग वा जगपाल सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान वा श्रीमती नावलदेह विधवा गेन्दा पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग गेन्दी सुपुत्री केहर सिंह पुत्र राम सिंह 1/3 भाग दर 1/5 भाग, कुलवन्त सिंह, फूल सिंह पुत्रान वा श्रीमती लीलावती सुपुत्री हंसराज पुत्र राम सिंह वा श्रीमती केलावती विधवा शमशेर सिंह पुत्र हंसराज समभाग 1/5 भाग, करेशन पुत्र वा श्रीमती करेशनी, उषा सुपुत्रीयान सुरजन सिंह पुत्र रामसिंह समभाग 1/5 भाग राज कुमार पुत्र छोटा सिंह पुत्र राम सिंह 1/5 भाग -मदन सिंह पुत्र रणजोर सिंह पुत्र राम सिंह 300 भाग विनोद कुमार पुत्र राहन 36 भाग विला राहन 41 भाग श्रीमती रेनू व श्रीमती गीता देवी समभाग 76 भाग रहनान विकास 77 भाग पुत्रान महावीर सिंह पुत्र रनजोर सिंह दर 1/5 भाग करम चन्द पुत्र पाला राम पुत्र यसाखीराम मूर्तिहिन । |
| | | | 13 | 11/1 | निजी | कृषि | 0.0112 | शिवकुमार पुत्र वा श्रीमती शरफी देवी वा श्रीमती सरोज बाला सुपुत्रीयान प्रीतम सिंह पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग वा जगपाल सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान वा श्रीमती नावलदेह विधवा गेन्दा पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग गेन्दी सुपुत्री केहर सिंह पुत्र राम सिंह 1/3 भाग दर 1/5 भाग, कुलवन्त सिंह, फूल सिंह पुत्रान वा श्रीमती लीलावती सुपुत्री हंसराज पुत्र राम सिंह वा श्रीमती केलावती विधवा शमशेर सिंह पुत्र हंसराज समभाग 1/5 भाग, करेशन पुत्र वा श्रीमती करेशनी, उषा सुपुत्रीयान सुरजन सिंह पुत्र |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | रामसिंह समभाग 1/5 भाग राज कुमार पुत्र छोटा सिंह पुत्र राम सिंह 1/5 भाग -मदन सिंह पुत्र रणजोर सिंह पुत्र राम सिंह 300 भाग विनोद कुमार पुत्र राहन 36 भाग विला राहन 41 भाग श्रीमती रेनू व श्रीमती गीता देवी समभाग 76 भाग रहनान विकास 77 भाग पुत्रान महावीर सिंह पुत्र रनजोर सिंह दर 1/5 भाग करम चन्द पुत्र पाला राम पुत्र वसाखीराम मुर्तहिन। |
| | | | 13 | 20 | निजी | कृषि | 0.0708 | शिवकुमार पुत्र वा श्रीमती शरफी देवी वा श्रीमती सरोज बाला सुपुत्रीयान प्रीतम सिंह पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग वा जगपाल सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान वा श्रीमती नावलदेह विधवा गेन्दा पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग गेन्दी सुपुत्री केहर सिंह पुत्र राम सिंह 1/3 भाग दर 1/5 भाग, कुलवन्त सिंह, फूल सिंह पुत्रान वा श्रीमती लीलावती सपुत्री हंसराज पुत्र राम सिंह वा श्रीमती केलावती विधवा शमशेर सिंह पुत्र हंसराज समभाग 1/5 भाग, करेशन पुत्र वा श्रीमती करेशनी, उषा सपुत्रीयान सुरजन सिंह पुत्र रामसिंह समभाग 1/5 भाग राज कुमार पुत्र छोटा सिंह पुत्र राम सिंह 1/5 भाग -मदन सिंह पुत्र रणजोर सिंह पुत्र राम सिंह 300 भाग विनोद कुमार पुत्र राहन 36 भाग विला राहन 41 भाग श्रीमती रेनू व श्रीमती गीता देवी समभाग 76 भाग रहनान विकास 77 भाग पुत्रान महावीर सिंह पुत्र रनजोर सिंह दर 1/5 भाग करम चन्द पुत्र पाला राम पुत्र वसाखीराम मुर्तहिन। |
| | | | 12 | 14 | निजी | कृषि | 0.0090 | शिवकुमार पुत्र वा श्रीमती शरफी देवी वा श्रीमती सरोज बाला सुपुत्रीयान प्रीतम सिंह पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग वा जगपाल सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान वा श्रीमती नावलदेह विधवा गेन्दा पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग गेन्दी सुपुत्री केहर सिंह पुत्र राम सिंह 1/3 भाग दर 1/5 भाग, कुलवन्त सिंह, फूल सिंह पुत्रान वा श्रीमती लीलावती सपुत्री हंसराज पुत्र राम सिंह वा श्रीमती केलावती विधवा शमशेर सिंह पुत्र हंसराज समभाग 1/5 भाग, करेशन पुत्र वा श्रीमती करेशनी, उषा सपुत्रीयान सुरजन सिंह पुत्र रामसिंह समभाग 1/5 भाग राज कुमार पुत्र छोटा सिंह पुत्र राम सिंह 1/5 भाग -मदन सिंह पुत्र रणजोर सिंह पुत्र राम सिंह 300 भाग विनोद कुमार पुत्र राहन 36 भाग विला राहन 41 भाग श्रीमती रेनू व श्रीमती गीता देवी समभाग 76 भाग रहनान विकास 77 भाग पुत्रान महावीर सिंह पुत्र रनजोर सिंह दर 1/5 भाग करम चन्द पुत्र पाला राम पुत्र वसाखीराम मुर्तहिन। |
| | | | 12 | 15 | निजी | कृषि | 0.0540 | शिवकुमार पुत्र वा श्रीमती शरफी देवी वा श्रीमती सरोज बाला सुपुत्रीयान प्रीतम सिंह पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग वा जगपाल सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान वा श्रीमती नावलदेह विधवा गेन्दा पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग गेन्दी सुपुत्री केहर सिंह पुत्र राम सिंह 1/3 भाग दर 1/5 भाग, कुलवन्त सिंह, फूल सिंह पुत्रान वा श्रीमती लीलावती सपुत्री हंसराज पुत्र राम सिंह वा श्रीमती केलावती विधवा शमशेर सिंह पुत्र हंसराज समभाग 1/5 भाग, करेशन पुत्र वा श्रीमती करेशनी, उषा सपुत्रीयान सुरजन सिंह पुत्र रामसिंह समभाग 1/5 भाग राज कुमार पुत्र छोटा सिंह पुत्र राम सिंह 1/5 भाग -मदन सिंह पुत्र रणजोर सिंह पुत्र राम सिंह 300 भाग विनोद कुमार पुत्र राहन 36 भाग विला राहन |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | 41 भाग श्रीमती रेनू व श्रीमती गीता देवी समभाग 76 भाग रहनान विकास 77 भाग पुत्रान महाबीर सिंह पुत्र रनजोर सिंह दर 1/5 भाग करम चन्द पुत्र पाला राम पुत्र वसाखीराम मूर्तहिन। |
| | | | 12 | 16 | निजी | कृषि | 0.0025 | शिवकुमार पुत्र वा श्रीमती शरफी देवी वा श्रीमती सरोज बाला सुपुत्रीयान प्रीतम सिंह पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग वा जगपाल सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान वा श्रीमती नावलदेह विधवा गेन्दा पुत्र केहर सिंह समभाग 1/3 भाग गेन्दी सुपुत्री केहर सिंह पुत्र राम सिंह 1/3 भाग दर 1/5 भाग, कुलवन्त सिंह, फूल सिंह पुत्रान वा श्रीमती लीलावती सपुत्री हंसराज पुत्र राम सिंह वा श्रीमती केलावती विधवा शमशेर सिंह पुत्र हंसराज समभाग 1/5 भाग, करेशन पुत्र वा श्रीमती करेशनी, उषा सपुत्रीयान सुरजन सिंह पुत्र रामसिंह समभाग 1/5 भाग राज कुमार पुत्र छोटा सिंह पुत्र राम सिंह 1/5 भाग -मदन सिंह पुत्र रणजोर सिंह पुत्र राम सिंह 300 भाग विनोद कुमार पुत्र राहन 36 भाग विला राहन 41 भाग श्रीमती रेनू व श्रीमती गीता देवी समभाग 76 भाग रहनान विकास 77 भाग पुत्रान महाबीर सिंह पुत्र रनजोर सिंह दर 1/5 भाग करम चन्द पुत्र पाला राम पुत्र वसाखीराम मूर्तहिन। |
| | | | 12 | 2 | निजी | कृषि | 0.0275 | उदे सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र गजे सिंह 1/5 भाग हरबीर सिंह पुत्र करनबीर सिंह 1/5 भाग हेमराज पुत्र सुभाष चन्द्र पुत्र रूप सिंह 1/5 भाग प्रताप सिंह, शक्ति सिंह पुत्रान सतबीर सिंह समभाग सिंह, 1/5 भाग रवीन्द्र पाल सिंह, विजय सिंह पुत्रान जसबीर सिंह समभाग 1/5 भाग |
| | | | 12 | 3/1 | निजी | कृषि | 0.0202 | उदे सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र गजे सिंह 1/5 भाग हरबीर सिंह पुत्र करनबीर सिंह 1/5 भाग हेमराज पुत्र सुभाष चन्द्र पुत्र रूप सिंह 1/5 भाग प्रताप सिंह, शक्ति सिंह पुत्रान सतबीर सिंह समभाग सिंह, 1/5 भाग रवीन्द्र पाल सिंह, विजय सिंह पुत्रान जसबीर सिंह समभाग 1/5 भाग |
| | | | 12 | 7/2 | निजी | कृषि | 0.0450 | उदे सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र गजे सिंह 1/5 भाग हरबीर सिंह पुत्र करनबीर सिंह 1/5 भाग हेमराज पुत्र सुभाष चन्द्र पुत्र रूप सिंह 1/5 भाग प्रताप सिंह, शक्ति सिंह पुत्रान सतबीर सिंह समभाग सिंह, 1/5 भाग रवीन्द्र पाल सिंह, विजय सिंह पुत्रान जसबीर सिंह समभाग 1/5 भाग |
| | | | 12 | 8 | निजी | कृषि | 0.0270 | उदे सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र गजे सिंह 1/5 भाग हरबीर सिंह पुत्र करनबीर सिंह 1/5 भाग हेमराज पुत्र सुभाष चन्द्र पुत्र रूप सिंह 1/5 भाग प्रताप सिंह, शक्ति सिंह पुत्रान सतबीर सिंह समभाग सिंह, 1/5 भाग रवीन्द्र पाल सिंह, विजय सिंह पुत्रान जसबीर सिंह समभाग 1/5 भाग |
| | | | 13 | 44 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.4216 | ग्राम पंचायत |
| 2 | सब-तहसील साहा | (1) बीहटा | | रास्ता | सरकारी | कृषि | 0.0064 | केन्द्रीय सरकार |
| | | | | 3269 | निजी | कृषि | 0.0025 | ललित कुमार, प्रभात कुमार पुत्रान सोहन लाल पुत्र मुकन्दी लाल समभाग वासी नगला मालकान कब्जा छतर सिंह आदि हकदार शामिल। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | | 3270/2 | निजी | कृषि | 0.0039 | ललित कुमार, प्रभात कुमार पुत्रान सोहन लाल पुत्र मुकन्दी लाल समभाग वासी नगला मालकान कब्जा छतर सिंह आदि हकदार शामिल। |
| | | | | 3272 | निजी | कृषि | 0.0244 | ललित कुमार, प्रभात कुमार पुत्रान सोहन लाल पुत्र मुकन्दी लाल समभाग वासी नगला मालकान कब्जा छतर सिंह आदि हकदार शामिल। |
| | | | | 3274/2 | निजी | कृषि | 0.0384 | पंचायत देह |
| | | | | 3265/2/1 | निजी | कृषि | 0.0352 | प्रीतम सिंह, राजपाल सिंह, हेम सिंह पुत्रान कदम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह समभाग। |
| | | | | 3271/2 | निजी | कृषि | 0.0113 | प्रीतम सिंह, राजपाल सिंह, हेम सिंह पुत्रान कदम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह समभाग। |
| | | | | 3271/3 | निजी | कृषि | 0.0093 | प्रीतम सिंह, राजपाल सिंह, हेम सिंह पुत्रान कदम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह समभाग। |
| | | | | 3271/1 | सरकारी | रास्ता | 0.0123 | प्रदेश सरकार। |
| | | | | 3263 | निजी | कृषि | 0.0181 | शीशपाल, जसपाल पुत्रान शेर सिंह पुत्र हीरा सिंह 1/2 भाग मालकान कामल व मोहन लाल पुत्र जीवन दास पुत्र निर्मल दास 1/6 भाग राव दविन्द्र सिंह पुत्र मनी राम पुत्र तुलसी राम 1/3 भाग मालकान कब्जा श्रीमति चन्द्रवती विधवा धनपाल सिंह पुत्र बलबीर सिंह व श्रीमति विद्या वती विधवा रहत सिंह पुत्र बलबीर सिंह वा विष्णुपाल सिंह हर समभाग 1/2 भाग हकदार प्रेम सिंह बलबीर सिंह पुत्र हीरा सिंह। |
| | | | | 3261 | निजी | कृषि | 0.0028 | रोशन लाल, रामसरूप, जयपाल, बलजीत, जरावीर पुत्र पुर्ण चन्द पुत्र अलतुराम मालकान कब्जा अजसरे पत्नी बदन। |
| | | (2) हलदारी | 2 | 25/1 | सरकारी | कृषि | 0.0025 | केन्द्रीय सरकार |
| | | (3) धुराला | | 93 | सरकारी | कृषि | 0.0051 | प्रदेश सरकार। |
| | | | | 75 | निजी | कृषि | 0.0254 | मुशत्रका 36900 भाग जैल श्रीमति दलीपो विधवा वगैरा। |
| | | | | 79 | निजी | कृषि | 0.0622 | मुशत्रका 36900 भाग जैल श्रीमति दलीपो विधवा वगैरा। |
| | | | 37 | 18 | निजी | कृषि | 0.0726 | सुरेन्द्र सिंह पुत्र पाल सिंह पुत्र अनोखा सिंह 1/2 निरफ साहिब जीत सिंह पुत्र तथा श्रीमति मनजीत कौर विधवा व अपर्णजीत कौर स्पुत्री गुरमिन्द सिंह पुत्र पाल सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 37 | 12 | निजी | कृषि | 0.0705 | श्रीमति तेज कौर 1/4 भाग विधवा वा प्रीतम सिंह, कुलदीप सिंह समभाग 1/4 भाग पुत्रान नसीब सिंह पुत्र बख्शीराम व जगीर सिंह गुरनाम सिंह पुत्रान देसराज पुत्र माया राम समभाग 1/3 भाग अमरजीत सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान व श्रीमति कौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह पुत्र देसराज हर तीन समभाग 1/6 भाग। |
| | | | 37 | 11 | निजी | कृषि | 0.0025 | श्रीमति तेज कौर 1/4 भाग विधवा वा प्रीतम सिंह, कुलदीप सिंह समभाग 1/4 भाग पुत्रान नसीब सिंह पुत्र बख्शीराम व जगीर सिंह गुरनाम सिंह पुत्रान देसराज पुत्र माया राम समभाग 1/3 भाग अमरजीत सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान व श्रीमति कौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह पुत्र देसराज हर तीन समभाग 1/6 भाग। |
| | | | 37 | 10 | निजी | कृषि | 0.0877 | श्रीमति तेज कौर 1/4 भाग विधवा वा प्रीतम सिंह, कुलदीप सिंह समभाग 1/4 भाग पुत्रान नसीब सिंह पुत्र बख्शीराम व जगीर सिंह गुरनाम सिंह पुत्रान देसराज पुत्र माया राम समभाग 1/3 भाग अमरजीत सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान व श्रीमति कौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह पुत्र देसराज हर तीन समभाग 1/6 भाग। |
| | | | 38 | 5/1 | निजी | कृषि | 0.0696 | श्रीमति तेज कौर 1/4 भाग विधवा वा प्रीतम सिंह, कुलदीप सिंह समभाग 1/4 भाग पुत्रान नसीब सिंह पुत्र बख्शीराम व जगीर सिंह गुरनाम सिंह पुत्रान देसराज पुत्र माया राम समभाग 1/3 भाग अमरजीत सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान व श्रीमति कौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह पुत्र देसराज हर तीन समभाग 1/6 भाग। |
| | | | 38 | 6 | निजी | कृषि | 0.0175 | श्रीमति तेज कौर 1/4 भाग विधवा वा प्रीतम सिंह, कुलदीप सिंह समभाग 1/4 भाग पुत्रान नसीब सिंह पुत्र बख्शीराम व जगीर सिंह गुरनाम सिंह पुत्रान देसराज पुत्र माया राम समभाग 1/3 भाग अमरजीत सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान व श्रीमति कौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह पुत्र देसराज हर तीन समभाग 1/6 भाग। |
| | | | 38 | 4 | निजी | कृषि | 0.0391 | गुरदित सिंह पुत्र सपपुरन सिंह पुत्र वीर सिंह, मालक कब्जा 1/6 भाग बलबिन्द सिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र अजमेर सिंह तथा रविन्द सिंह पुत्र अजमेर सिंह पुत्र रतन सिंह समभाग 5/6 भाग। |
| | | | 28 | 24/1 | निजी | कृषि | 0.0392 | गुरदित सिंह पुत्र सपपुरन सिंह पुत्र वीर सिंह, मालक कब्जा 1/6 भाग बलबिन्द सिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र अजमेर सिंह तथा रविन्द सिंह पुत्र अजमेर सिंह पुत्र रतन सिंह समभाग 5/6 भाग। |
| | | | 28 | 11 | निजी | कृषि | 0.0521 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 28 | 19 | निजी | कृषि | 0.0658 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | मूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 28 | 20 | निजी | कृषि | 0.0117 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 28 | 23 | निजी | कृषि | 0.0711 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 27 | 15 | निजी | कृषि | 0.0302 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 27 | 6 | निजी | कृषि | 0.0393 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 27 | 7/1 | निजी | कृषि | 0.0483 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 23 | 14 | निजी | कृषि | 0.0941 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 23 | 13/2 | निजी | कृषि | 0.0025 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 23 | 8 | निजी | कृषि | 0.1117 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 23 | 9 | निजी | कृषि | 0.0136 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 23 | 2 | निजी | कृषि | 0.0288 | चन्दा सिंह, प्ररीतम सिंह, जीत सिंह, पाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग। |
| | | | 27 | 7/2 | निजी | कृषि | 0.0324 | बहादुर सिंह पुत्र ईशवर सिंह हर चार समभाग 1/4 भाग शिव चरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशवर सिंह 1/4 भाग दयाल सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र ईशवर सिंह पुत्र तुलसी समभाग 1/2 भाग। |
| | | | 27 | 3 | निजी | कृषि | 0.0845 | बहादुर सिंह पुत्र ईशवर सिंह हर चार समभाग 1/4 भाग शिव चरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशवर सिंह 1/4 भाग दयाल सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र ईशवर सिंह पुत्र तुलसी समभाग 1/2 भाग। |
| | | | 27 | 2 | निजी | कृषि | 0.0025 | बहादुर सिंह पुत्र ईशवर सिंह हर चार समभाग 1/4 भाग शिव चरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशवर सिंह 1/4 भाग दयाल सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र ईशवर सिंह पुत्र तुलसी समभाग 1/2 भाग। |
| | | | 22 | 22/1 | निजी | कृषि | 0.0087 | बहादुर सिंह आदि मजकुरान रहनान श्रीमति सायो पुत्री श्रीमति किशनी विधवा बुधा मुरतहिना विला भाग शामिल। |
| | | | 22 | 20 | निजी | कृषि | 0.0651 | बहादुर सिंह, गुरचरन सिंह, सुरेन्द्र सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान हरी सिंह पुत्र ईशवर सिंह हर चार समभाग 1/4 भाग शिव चरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशवर सिंह 1/4 भाग दयाल सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र ईशवर सिंह पुत्र तुलसी समभाग 1/2 भाग। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | नस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 22 | 21 | निजी | कृषि | 0.0281 | बहादुर सिंह, गुरचरन सिंह, सुरेन्द्र सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान हरी सिंह पुत्र ईशवर सिंह हर चार समभाग 1/4 भाग शिव चरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशवर सिंह 1/4 भाग दयाल सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र ईशवर सिंह पुत्र तुलसी समभाग 1/2 भाग। |
| | | | 22 | 22/2 | निजी | कृषि | 0.0858 | बहादुर सिंह, गुरचरन सिंह, सुरेन्द्र सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान हरी सिंह पुत्र ईशवर सिंह हर चार समभाग 1/4 भाग शिव चरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशवर सिंह 1/4 भाग दयाल सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र ईशवर सिंह पुत्र तुलसी समभाग 1/2 भाग। |
| | | | 23 | 16 | निजी | कृषि | 0.0636 | बहादुर सिंह, गुरचरन सिंह, सुरेन्द्र सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान हरी सिंह पुत्र ईशवर सिंह हर चार समभाग 1/4 भाग शिव चरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशवर सिंह 1/4 भाग दयाल सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र ईशवर सिंह पुत्र तुलसी समभाग 1/2 भाग। |
| | | | | 15/1 | निजी | कृषि | 0.0388 | बहादुर सिंह, गुरचरन सिंह, सुरेन्द्र सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान हरी सिंह पुत्र ईशवर सिंह हर चार समभाग 1/4 भाग शिव चरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशवर सिंह 1/4 भाग दयाल सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र ईशवर सिंह पुत्र तुलसी समभाग 1/2 भाग। |
| | | | (4) 112 | 2/1 | निजी | कृषि | 0.0702 | करनैल सिंह, हरपाल सिंह पुत्रान गुरचरन सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह समभाग मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मु0 खेवट नं0 179 हकदारान शामिलतात। |
| | | | 104 | 16/2 | निजी | कृषि | 0.0101 | करनैल सिंह, हरपाल सिंह पुत्रान गुरचरन सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह समभाग मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मु0 खेवट नं0 179 हकदारान शामिलतात। |
| | | | 112 | 1/2 | निजी | कृषि | 0.0706 | गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह पुत्र रणधीर सिंह मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मुदाजा खेवट नं0 363 हकदार शामिलतात। |
| | | | 112 | 1/1 | निजी | कृषि | 0.0028 | श्रीमति सवित्री देवी विधवा वा रनवीर सिंह पुत्र बलवीर सिंह पुत्रान गुरचरन सिंह, चहराम करनैल सिंह, हरपाल सिंह पुत्रान गुरचरन सिंह, पुत्र गुरबख्श सिंह, समभाग 1/3 तिहाई मालकान कामल व प्रीतपाल सिंह, रसपाल सिंह, जसवीर सिंह पुत्रान गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह हर तीन समभाग 5/12 भाग मालकान कब्जा वा शमशेर सिंह पुत्र फुम्मन सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह 1/12 भाग गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह पुत्र रन्धीर सिंह 1/3 तिहाई हकदार शामिलतात। |
| | | | 103 | 21/1 | निजी | कृषि | 0.0498 | गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह पुत्र रणधीर सिंह मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मजकुरान हकदार शामिलतात। |
| | | | 104 | 13/1/2 | निजी | कृषि | 0.0468 | गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह पुत्र रणधीर सिंह मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मजकुरान हकदार शामिलतात। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 104 | 25 | निजी | कृषि | 0.0837 | गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह पुत्र रणधीर सिंह मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मजकुरान हकदार शामिल। |
| | | | 104 | 17 | निजी | कृषि | 0.0845 | मुशतरका 414 भाग जैल करनैल सिंह 47 भाग हरपाल सिंह 207 भाग पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह तथा प्रीतपाल सिंह रशमाल सिंह जसबीर सिंह पुत्रान गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह हर तीन समभाग 160 भाग मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मुदारजा खेवट नं0 179 हकदार शामिल। |
| | | | 104 | 18 | निजी | कृषि | 0.0161 | मुशतरका 414 भाग जैल करनैल सिंह 47 भाग हरपाल सिंह 207 भाग पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह तथा प्रीतपाल सिंह रशमाल सिंह जसबीर सिंह पुत्रान गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह हर तीन समभाग 160 भाग मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मुदारजा खेवट नं0 179 हकदार शामिल। |
| | | | 104 | 13/1/1 | निजी | कृषि | 0.0096 | प्रीतपाल सिंह, रछपाल सिंह जसबीर सिंह पुत्रान गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह हर तीन समभाग मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मुन्द्राज खेवट नं0 179 हकदार शामिल। |
| | | | 104 | 9/2 | निजी | कृषि | 0.0271 | राम कुमार पुत्र रामचन्द्र पुत्र छज्जू। |
| | | | 104 | 10/1 | निजी | कृषि | 0.0231 | राम कुमार पुत्र रामचन्द्र पुत्र छज्जू। |
| | | | 104 | 12 | निजी | कृषि | 0.0314 | राम कुमार पुत्र रामचन्द्र पुत्र छज्जू। |
| | | | 104 | 24 | निजी | कृषि | 0.0028 | श्रीमति सावित्री देवी विधवा वा रनवीर सिंह, बलबीर सिंह पुत्रान फुम्मन सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह हर तीन समभाग 3/4 भाग वा प्रीतपाल सिंह, रछपाल सिंह जसबीर सिंह पुत्रान गुरदेव सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग मालकान कब्जा जगदीश सिंह आदि मुन्द्राज खेवट नं0 165 निस्फ 1/2 तथा तरसेम सिंह पुत्र प्रकाश सिंह पुत्र टिक्का 1/6 भाग श्रीमति जीवनी स्पुत्री टिक्का पुत्र राजा राम 1/12 भाग जनक सिंह सतविन्द सिंह पुत्रान मंगु पुत्र राजा राम समभाग 1/4 हकदार शामिल। |
| | | | 104 | 1/1 | निजी | कृषि | 0.0056 | निरभय सिंह पुत्र राम चन्द्र पुत्र छज्जू। |
| | | | 104 | 10/2 | निजी | कृषि | 0.0144 | गजे सिंह पुत्र चन्द्र पुत्र छज्जू। |
| | | | 105 | 5 | निजी | कृषि | 0.0346 | गजे सिंह पुत्र चन्द्र पुत्र छज्जू। |
| | | | 105 | 4 | निजी | कृषि | 0.0054 | सुभाश, रोहताश पुत्रान लाभ सिंह पुत्र सुरजन सिंह समभाग मालकान कब्जा लाभ सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र रामचन्द्र पुत्र छज्जू हकदार शामिल। |
| | | | 97 | 24/1 | निजी | कृषि | 0.0176 | सुभाश, रोहताश पुत्रान लाभ सिंह पुत्र सुरजन सिंह समभाग मालकान कब्जा लाभ सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र रामचन्द्र पुत्र छज्जू हकदार शामिल। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 97 | 23/2 | निजी | कृषि | 0.0175 | सुभाश, रोहताश पुत्रान लाभ सिंह पुत्र सुरजन सिंह समभाग मालकान कब्जा लाभ सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र रामचन्द्र पुत्र छज्जू हकदार शामिल। |
| | | | 97 | 11 | निजी | कृषि | 0.0106 | संजीव, बलराम पुत्रान ठाठ सिंह पुत्र सुरजन सिंह समभाग। |
| | | | 97 | 12/1 | निजी | कृषि | 0.0025 | संजीव, बलराम पुत्रान ठाठ सिंह पुत्र सुरजन सिंह समभाग। |
| | | | 97 | 18/2 | निजी | कृषि | 0.0120 | संजीव, बलराम पुत्रान ठाठ सिंह पुत्र सुरजन सिंह समभाग। |
| | | | 97 | 19 | निजी | कृषि | 0.0236 | संजीव, बलराम पुत्रान ठाठ सिंह पुत्र सुरजन सिंह समभाग। |
| | | | 96 | 15 | निजी | कृषि | 0.0028 | संजीव, बलराम पुत्रान ठाठ सिंह पुत्र सुरजन सिंह समभाग। |
| | | | 96 | 7 | निजी | कृषि | 0.0033 | शेरजंग सिंह, सतपाल सिंह, कंवरपाल सिंह हर तीन 3 समभाग मालकान कामल 1/2 भाग वा मालकान कब्जा 1/2 निस्फ पुत्रान श्रीमति दर्शनी देवी, रमा देवी रूकमेश हर 3 समभाग सपुत्रियान रघुवीर ऊर्फ रूलहा पुत्र बीजा। |
| | | | 96 | 4/1 | निजी | कृषि | 0.0025 | शेरजंग सिंह, सतपाल सिंह, कंवरपाल सिंह हर तीन 3 समभाग मालकान कामल 1/2 भाग वा मालकान कब्जा 1/2 निस्फ पुत्रान श्रीमति दर्शनी देवी, रमा देवी रूकमेश हर 3 समभाग सपुत्रियान रघुवीर ऊर्फ रूलहा पुत्र बीजा। |
| | | | 96 | 3 | निजी | कृषि | 0.0073 | शेरजंग सिंह, सतपाल सिंह, कंवरपाल सिंह हर तीन 3 समभाग मालकान कामल 1/2 भाग वा मालकान कब्जा 1/2 निस्फ पुत्रान श्रीमति दर्शनी देवी, रमा देवी रूकमेश हर 3 समभाग सपुत्रियान रघुवीर ऊर्फ रूलहा पुत्र बीजा। |
| | | | 96 | 6/2 | निजी | कृषि | 0.0029 | शेरजंग सिंह, सतपाल सिंह, कंवरपाल सिंह हर तीन 3 समभाग मालकान कामल 1/2 भाग वा मालकान कब्जा 1/2 निस्फ पुत्रान श्रीमति दर्शनी देवी, रमा देवी रूकमेश हर 3 समभाग सपुत्रियान रघुवीर ऊर्फ रूलहा पुत्र बीजा। |
| | | | 87 | 22 | निजी | कृषि | 0.0055 | शेरजंग सिंह, सतपाल सिंह, कंवरपाल सिंह पुत्रान व दर्शनी देवी, रमा देवी, रूकमेश सपुत्रियान रघुवीर ऊर्फ रूलहा पुत्र बीजा हर 6 समभाग राहिनान पुरन सिंह पुत्र व श्रीमति पारवती विद्या सपुत्रियान गन्गा राम पुत्र करताश हर तीन समभाग गुरतहिनान गिला हिरसा शामिल। |
| | | | 72 | 25 | निजी | कृषि | 0.0918 | माहीपाल सिंह पुत्र 3/8 तथा श्रीमति विद्या देवी 1/8 भाग पत्नी फकिरीया पुत्र छज्जू राम मालकान कब्जा फकिरीया पुत्र छज्जू राम पुत्र अतरू हकदार शामिल तथा धर्मपाल पुत्र निर्मल पुत्र छज्जू मालक कामल 1/4 चाहराम तथा नीज हकदार शामिल श्रीमति कोशलया देवी पत्नी धर्मपाल पुत्र निर्मल मालक कब्जा 1/4 चाहराम। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 72 | 24/2 | निजी | कृषि | 0.0607 | माहीपाल सिंह पुत्र 3/8 तथा श्रीमति विद्या देवी 1/8 भाग पत्नी फकिरीया पुत्र छज्जू राम मालकान कब्जा फकिरीया पुत्र छज्जू राम पुत्र अतरु हकदार शामलात तथा धर्मपाल पुत्र निर्मल पुत्र छज्जू मालक 1/4 चाहराम तथा नीज हकदार शामलात श्रीमति कोशला देवी पत्नी धर्मपाल पुत्र निर्मल मालक कब्जा 1/4 चाहराम। |
| | | | 71 | 5/3 | निजी | कृषि | 0.0035 | गुरदेव सिंह, हरदेव सिंह पुत्र गुरदीप सिंह पुत्रान प्रीतम सिंह समभाग 1/3 भाग बलकार सिंह, चरनजीत सिंह, पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र नगीना सिंह समभाग 2/3 भाग मालकान कब्जा मुला सिंह मुन्द्राज खेवट नं० 219 हकदार शामलात। |
| | | | 71 | 5/2 | निजी | कृषि | 0.0094 | जीत राम फकीर चन्द पुत्रान फगु पुत्र मातु समभाग मालकान कब्जा मुला सिंह मुन्द्राज खेवट नं० 219 हकदार शामलात। |
| | | | 71 | 5/1 | निजी | कृषि | 0.0125 | सोहन सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र आत्मा सिंह मालकान कब्जा मुला सिंह, मुन्द्राज खेवट नं० 219 हकदार शामलात। |
| | | | 71 | 4 | निजी | कृषि | 0.0025 | मुशत्रका 10 भाग राम कुमार, कृष्ण चन्द, संजीव कुमार पुत्रान जसपाल सिंह पुत्र सुखराज सिंह हरतीन समभाग भाग 1 भाग जयपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह, पुत्र किशन सिंह 1 भाग धर्म सिंह उर्फ कानु पुत्र हंसराज पुत्र किशन 2 भाग मालकान कामल सोहन सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र आतम सिंह व मनदीप सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र सन्त सिंह समभाग 1 भाग गुरदेव सिंह, हरदेव सिंह पुत्रान गुरदीप सिंह 1/6 बलकार सिंह चरनजीत सिंह पुत्रान प्रीतम सिंह पुत्र नगीना सिंह समभाग 1/3 भाग मालकान कब्जा समासिंह फूल सिंह नीर सिंह सतपाल सिंह पुत्रान व श्रीमति कोशनी विधवा व केला सपुत्री मामराज पुत्र किशन समभाग हकदारान शामलात बाबत हिस्सा सोहन सिंह आदि मफलात व पुत्र शिवसरन पुत्र भागवान हकदार शामलात बाबत हिस्सा गुरदीप सिंह आदि। |
| | | | 69 | 24 | निजी | कृषि | 0.0025 | समासिंह फूल सिंह वीर सिंह सतपाल सिंह पुत्रान व श्रीमति करेशनी विधवा मेला सपुत्री मामराज पुत्र किशन हर 6 समभाग मालकान कामल 4 भाग व नीज हकदारान शामलात जगपाल सिंह इलम सिंह पुत्रान मुलखान सिंह पुत्र जामादार सिंह समभाग 249 भाग मालकान कब्जा हर 1/10 भाग राम कुमार कृष्ण चन्द, संजीव कुमार पुत्रान जयपाल पुत्र मलखान सिंह समभाग 1/10 भाग जयपाल सिंह पुत्र किशन सिंह 1/10 भाग धर्म सिंह उर्फ कालू पुत्र हंसराज पुत्र किशना 1/5 भाग अफलातुन पुत्र शिवसरन पुत्र भागवान 1/2 निरफ मालकान कामल समां सिंह आदि मजकूरान। |
| | | | 69 | 25 | निजी | कृषि | 0.0051 | बलवन्त सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह पुत्र आत्मा सिंह 1/3 भाग बघन सिंह पुत्र आत्मा सिंह पुत्र उत्तम सिंह 1/3 भाग जगिन्द सिंह, जगदीश सिंह सोहन सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र आत्मा सिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग मनदीप सिंह पुत्र संत सिंह 1/12 भाग मालकान कब्जा मुला सिंह खेवट नं० 219 हकदार शामलात। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिपहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------------|--|
| 3 | अम्बाला | (4) दुखेडी | 39 | 24 | निजी | कृषि | 0.0609 | जसवन्त सिंह मालकान कबजा 3/8 भाग वा हंसराज मालकान कामल 3/16 भाग वा हकदार शामलात पुत्रान झण्डू पुत्र तुला व वजिन्द्र सिंह, विजय सिंह पुत्रान वा श्रीमती जगवन्ती पत्नी जसवन्त सिंह पुत्र झण्डू हर छह समभाग 1/8 भाग मालकान कामल वा रविपाल सिंह पुत्र वा श्रीमती रामवती पत्नी हंसराज पुत्र झण्डू समभाग 1/8 भाग मालकान कामल वा मालकान कबजा 3/16 भाग । |
| | | | 39 | 23 | निजी | कृषि | 0.0084 | जसवन्त सिंह मालकान कबजा 3/8 भाग वा हंसराज मालकान कामल 3/16 भाग वा हकदार शामलात पुत्रान झण्डू पुत्र तुला व वजिन्द्र सिंह, विजय सिंह पुत्रान वा श्रीमती जगवन्ती पत्नी जसवन्त सिंह पुत्र झण्डू हर छह समभाग 1/8 भाग मालकान कामल वा रविपाल सिंह पुत्र वा श्रीमती रामवती पत्नी हंसराज पुत्र झण्डू समभाग 1/8 भाग मालकान कामल वा मालकान कबजा 3/16 भाग । |
| | | | 39 | 18/2 | निजी | कृषि | 0.0531 | जसवन्त सिंह हकदार शामलात 3/8 भाग वा हंसराज मालकान कामल 3/16 भाग निज हकदार शामलात पुत्रान झण्डू पुत्र तुनाल व विजाय सिंह, विजेन्द्र सिंह समभाग 11/24 भाग पुत्रान वा श्रीमती जगवन्ती 1/24 भाग पत्नी जसवन्त सिंह पुत्र झण्डू मालकान कामल वा निज मालकान कबजा रविपाल सिंह पुत्र वा श्रीमती रामवती पत्नी हंसराज पुत्र झण्डू समभाग 1/8 मालकान कामल कबजा । |
| | | | 39 | 19 | निजी | कृषि | 0.0216 | जसवन्त सिंह हकदार शामलात 3/8 भाग वा हंसराज मालकान कामल 3/16 भाग निज हकदार शामलात पुत्रान झण्डू पुत्र तुनाल व विजाय सिंह, विजेन्द्र सिंह समभाग 11/24 भाग पुत्रान वा श्रीमती जगवन्ती 1/24 भाग पत्नी जसवन्त सिंह पुत्र झण्डू मालकान कामल वा निज मालकान कबजा रविपाल सिंह पुत्र वा श्रीमती रामवती पत्नी हंसराज पुत्र झण्डू समभाग 1/8 मालकान कामल कबजा । |
| | | | 39 | 12/1 | निजी | कृषि | 0.0223 | जसवन्त सिंह हकदार शामलात 3/8 भाग वा हंसराज मालकान कामल 3/16 भाग निज हकदार शामलात पुत्रान झण्डू पुत्र तुनाल व विजाय सिंह, विजेन्द्र सिंह समभाग 11/24 भाग पुत्रान वा श्रीमती जगवन्ती 1/24 भाग पत्नी जसवन्त सिंह पुत्र झण्डू मालकान कामल वा निज मालकान कबजा रविपाल सिंह पुत्र वा श्रीमती रामवती पत्नी हंसराज पुत्र झण्डू समभाग 1/8 मालकान कामल कबजा । |
| | | | 24 | 15/1 | ग्राम पंचायत | गैर कृषि | 0.0114 | शामलात देह हस्बरसद जर खेवट |
| | | | 24 | 163 | ग्राम पंचायत | गैर कृषि | 0.0033 | शामलात देह मालकान कबजा अनसरे पति |
| | | | 24 | 506 | ग्राम पंचायत | गैर कृषि | 0.0531 | पंचायत देह मालकान कबजा अनसरे देह |
| | | | 24 | 1 | निजी | कृषि | 0.0027 | कुलदीप सिंह बलदेव सिंह पुत्रान नरिन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह समभाग मालकान कबजा अनसरे पति |
| | | | 24 | 2 | निजी | कृषि | 0.1151 | कुलदीप सिंह बलदेव सिंह पुत्रान नरिन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह समभाग मालकान कबजा अनसरे पति |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 24 | 14/1 | निजी | कृषि | 0.0114 | दयाराम, ईमान सिंह पुत्र मुखतियार सिंह पुत्र दाखु समभाग 2/3 भाग तरसेम सिंह पुत्र करीशन लाल पुत्र मुखतियार समभाग 1/6 भाग सन्दीप, विजय पुत्रान राज सिंह पुत्र करेशन लाल समभाग 1/6 भाग मन्जीत सिंह पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र निरेन्द्र सिंह हर समभाग 9/10 भाग मालकान कब्जा महिन्द्र सिंह आदि मुन्द्राज खेवट नं० 59 हकदार शामिल। |
| | | | 24 | 7/2 | निजी | कृषि | 0.9669 | दयाराम, ईमान सिंह पुत्र मुखतियार सिंह पुत्र दाखु समभाग 2/3 भाग तरसेम सिंह पुत्र करीशन लाल पुत्र मुखतियार समभाग 1/6 भाग सन्दीप, विजय पुत्रान राज सिंह पुत्र करेशन लाल समभाग 1/6 भाग मन्जीत सिंह पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र निरेन्द्र सिंह हर समभाग 9/10 भाग मालकान कब्जा महिन्द्र सिंह आदि मुन्द्राज खेवट नं० 59 हकदार शामिल। |
| | | | 24 | 8 | निजी | कृषि | 0.0563 | दयाराम, ईमान सिंह पुत्र मुखतियार सिंह पुत्र दाखु समभाग 2/3 भाग तरसेम सिंह पुत्र करीशन लाल पुत्र मुखतियार समभाग 1/6 भाग सन्दीप, विजय पुत्रान राज सिंह पुत्र करेशन लाल समभाग 1/6 भाग मन्जीत सिंह पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र निरेन्द्र सिंह हर समभाग 9/10 भाग मालकान कब्जा महिन्द्र सिंह आदि मुन्द्राज खेवट नं० 59 हकदार शामिल। |
| | | | 24 | 3/1 | निजी | कृषि | 0.0342 | दयाराम, ईमान सिंह पुत्र मुखतियार सिंह पुत्र दाखु समभाग 2/3 भाग तरसेम सिंह पुत्र करीशन लाल पुत्र मुखतियार समभाग 1/6 भाग सन्दीप, विजय पुत्रान राज सिंह पुत्र करेशन लाल समभाग 1/6 भाग मन्जीत सिंह पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र निरेन्द्र सिंह हर समभाग 9/10 भाग मालकान कब्जा महिन्द्र सिंह आदि मुन्द्राज खेवट नं० 59 हकदार शामिल। |
| | | | 18 | 22/1 | निजी | कृषि | 0.0101 | कुलदीप सिंह बलदेव सिंह पुत्रान नरिन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह हर दो समभाग मालकान कब्जा अजसरे पति वासीदेह हकदार शामिल। |
| | | | 18 | 21 | निजी | कृषि | 0.1123 | कुलदीप सिंह बलदेव सिंह पुत्रान नरिन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह हर दो समभाग मालकान कब्जा अजसरे पति वासीदेह हकदार शामिल। |
| | | | 17 | 17 | निजी | कृषि | 0.0948 | श्रीमती गुरवचन कौर 1/10 भाग विधवा वा बलदेव सिंह भूपिन्द्र सिंह जगजीत सिंह समभाग 3 भाग पुत्रान नरिन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह वा सर्वजिन्द्र सिंह साहिब सिंह, मनजीत सिंह पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र नरिन्द्र सिंह समभाग (1) एक भाग कुल चार भाग दर 9/10 । |
| | | | 17 | 25 | निजी | कृषि | 0.0329 | श्रीमती गुरवचन कौर 1/10 भाग विधवा वा बलदेव सिंह भूपिन्द्र सिंह जगजीत सिंह समभाग 3 भाग पुत्रान नरिन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह वा सर्वजिन्द्र सिंह साहिब सिंह, मनजीत सिंह पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र नरिन्द्र सिंह समभाग (1) एक भाग कुल चार भाग दर 9/10 । |
| | | | 17 | 14/1 | निजी | कृषि | 0.0681 | श्रीमती गुरवचन कौर 1/10 भाग विधवा वा बलदेव सिंह भूपिन्द्र सिंह जगजीत सिंह पुत्रान नरिन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह समभाग 27/40 भाग वा सर्वजिन्द्र सिंह साहिब सिंह, मनजीत सिंह पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र नरिन्द्र सिंह समभाग 9/40 भाग चंदन सिंह, जसवंत सिंह पुत्र जीवन सिंह पुत्र हीरा सिंह हर दो समभाग वासी देह मुरतनान । |

[illegible]

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 16 | 4 | निजी | कृषि | 0.1212 | रामकरन, रामचरन, राजकुमार, प्रीतम सिंह, जसबीर सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चढत सिंह समभाग 270 भाग हरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह बलबीर सिंह, करम सिंह, सुरिन्द सिंह पुत्रान मेहर सिंह पुत्र चढत सिंह समभाग 10 भाग। |
| | | | 16 | 6 | निजी | कृषि | 0.0501 | खुदकाश्त राम करन, रामचरन, प्रीतम सिंह, राज कुमार हर चार समभाग हिस्सेदारान। |
| | | | 16 | 1/1 | inajal | kRiYa | 0.1359 | श्रीमति गुरचरन कौर विधवा नरिन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह 1/10 भाग बलदेव सिंह, भुपेन्द्र सिंह, जगजीत सिंह पुत्र नरिन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह हर तीन समभाग 27/40 भाग सर्वजिन्द्र सिंह, साहब सिंह, मनजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह पुत्र नरिन्द्र सिंह हर तीन समभाग 9/40 भाग मालकान कब्जा सुरजीत सिंह पुत्र धनवत सिंह पुत्र भागवान सिंह 1/3 भाग रनवीर सिंह पुत्र भागवान सिंह पुत्र नरायण सिंह 1/3 भाग गुरमेल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह समभाग 1/6 भाग सतविन्द्र सिंह कुलविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र रघुवीर सिंह हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह हकदार शामिल। |
| | | | 8 | 24 | निजी | कृषि | 0.3647 | रामकरन, रामचरन, प्रीतम सिंह राजकुमार, जसबीर सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चढता राम समभाग 357 भाग हरजीत सिंह बलवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह 58 भाग बलबीर सिंह, कर्म सिंह सुरिन्द्र सिंह पुत्रान मेहर सिंह पुत्र चढता सिंह समभाग 13 भाग साकनान घसीटपुर मालकान कब्जा। |
| | | | 8 | 17/1 | निजी | कृषि | 0.1265 | श्रीमति प्रेम वती रघुनी देसराज पुत्र लछमन मालकान कब्जा देसराज मजकुरान हकदार शामिल। |
| | | | 8 | 23 | निजी | कृषि | 0.2245 | रामवीर सिंह, विनोद कुमार, पुत्र करेसन पुत्र रसाल समभाग 1/8 भाग रामकली रघुनी रसाल पुत्र सरूप 1/4 भाग श्रीमति कृष्णा देवी विधवा व करेशन पुत्र रसाल 1/8 भाग लाभ सिंह 77 भाग राजकुमार 633 भाग कुल पुत्रान तेज सिंह पुत्र आत्माराम पुत्र 710 भाग दर 1/6 भाग व दया राम, मोहन सिंह पुत्र आत्मा राम पुत्र जवाहर समभाग 1/3 भाग। |
| | | | 8 | 18 | निजी | कृषि | 0.2302 | रामवीर सिंह, विनोद कुमार, पुत्र करेसन पुत्र रसाल समभाग 1/8 भाग रामकली रघुनी रसाल पुत्र सरूप 1/4 भाग श्रीमति कृष्णा देवी विधवा व करेशन पुत्र रसाल 1/8 भाग लाभ सिंह 77 भाग राजकुमार 633 भाग कुल पुत्रान तेज सिंह पुत्र आत्माराम पुत्र 710 भाग दर 1/6 भाग व दया राम, मोहन सिंह पुत्र आत्मा राम पुत्र जवाहर समभाग 1/3 भाग। |

| क्रम संख्या | सदस्यता | नाम का नाम | मस्तील नम्बर | संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | नृत्तानियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|---------|------------|--------------|--------|----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | 8 | 22 | निजी | कृषि | 0.0089 | रामवीर सिंह, विनोद कुमार, पुत्र करेशन पुत्र रसाल समभाग 1/8 भाग रामकली स्मृती रसाल पुत्र सरूप 1/4 भाग श्रीमति कृष्णा देवी विधवा व करेशन पुत्र रसाल 1/8 भाग लाभ सिंह 77 भाग राजकुमार 633 भाग कुल पुत्रान तेज सिंह पुत्र आत्माराम पुत्र 710 भाग दर 1/6 भाग व दया राम, मोहन सिंह पुत्र आत्मा राम पुत्र जवाहर समभाग 1/3 भाग। |
| | | | 8 | 12 | निजी | कृषि | 0.0986 | रामवीर सिंह, विनोद कुमार, पुत्र करेशन पुत्र रसाल समभाग 1/8 भाग रामकली स्मृती रसाल पुत्र सरूप 1/4 भाग श्रीमति कृष्णा देवी विधवा व करेशन पुत्र रसाल 1/8 भाग लाभ सिंह 77 भाग राजकुमार 633 भाग कुल पुत्रान तेज सिंह पुत्र आत्माराम पुत्र 710 भाग दर 1/6 भाग व दया राम, मोहन सिंह पुत्र आत्मा राम पुत्र जवाहर समभाग 1/3 भाग। |
| | | | 8 | 20 | निजी | कृषि | 0.0283 | रामवीर सिंह, विनोद कुमार, पुत्र करेशन पुत्र रसाल समभाग 1/8 भाग रामकली स्मृती रसाल पुत्र सरूप 1/4 भाग श्रीमति कृष्णा देवी विधवा व करेशन पुत्र रसाल 1/8 भाग लाभ सिंह 77 भाग राजकुमार 633 भाग कुल पुत्रान तेज सिंह पुत्र आत्माराम पुत्र 710 भाग दर 1/6 भाग व दया राम, मोहन सिंह पुत्र आत्मा राम पुत्र जवाहर समभाग 1/3 भाग। |
| | | | 8 | 11 | निजी | कृषि | 0.1622 | रामवीर सिंह, विनोद कुमार, पुत्र करेशन पुत्र रसाल समभाग 1/8 भाग रामकली स्मृती रसाल पुत्र सरूप 1/4 भाग श्रीमति कृष्णा देवी विधवा व करेशन पुत्र रसाल 1/8 भाग लाभ सिंह 77 भाग राजकुमार 633 भाग कुल पुत्रान तेज सिंह पुत्र आत्माराम पुत्र 710 भाग दर 1/6 भाग व दया राम, मोहन सिंह पुत्र आत्मा राम पुत्र जवाहर समभाग 1/3 भाग। |
| | | | 8 | 19 | निजी व सरकारी | कृषि | 0.3024 | रामवीर सिंह, विनोद कुमार पुत्रान करेशन पुत्र रसाल समभाग 1/8 भाग श्रीमति रामकली स्मृती रसाल पुत्र सरूप 1/4 भाग-लाभा सिंह 16 भाग राजकुमार 125 भाग कुल 141 भाग पुत्रान टैग सिंह पुत्र आत्मा राम दर 1/6 भाग दया राम-मोहन लाल पुत्रान आत्मा राम पुत्र जवाहर समभाग 1/3 भाग श्रीमति कृष्णा देवी विधवा करेशन पुत्र रसाल 1/8 भाग मालकान कब्जा या गजिन्द्र पाल सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र शमशेर सिंह 1/3 भाग श्रीमति गुरबधन कौर विधवा 1/3 भाग वा बलदेव सिंह भूमिन्द्र सिंह-जगजीत सिंह समभाग 3 भाग पुत्रान नरेन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह व सर्वजिन्द्र सिंह साहब सिंह-मन्जीत सिंह पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र रनेन्द्र सिंह हर 6 समभाग 1 भाग कुल 4 भाग दर 3/10 भाग वा गुरप्रीत सिंह 5/24 भाग पुत्र वा श्रीमति राजप्रीत कौर समभाग 1/8 भाग स्मृत्रियान नरन्जन सिंह पुत्र शमशेर सिंह हकदार शामिल। केन्द्रीय सरकार मालकान कब्जा गजिन्द्र सिंह आदि मजकुरान हकदार शामिल। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 9 | 15 | निजी | कृषि | 0.0292 | मेहर सिंह, केहर सिंह, पुत्रान चढ़ता पुत्र झगडू समभाग 84 भाग रामकरण, रामचरण राजकुमार, प्रीतम सिंह, जसबीर सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चढ़ता सिंह हर पांच समभाग 35 भाग हरजीत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह 36 भाग बलबीर सिंह कर्म सिंह सुरिन्दर सिंह पुत्रान मेहर सिंह पुत्र चढ़ता समभाग 66 भाग कुल 101 भाग दर 6 भाग कुल 126 भाग मालकान कब्जा साकान घसीटपुर पदम सिंह आदि मु0खे0न0 (192) हकदार शामिलता । |
| | | | 9 | 6 | निजी | कृषि | 0.0205 | मेहर सिंह, केहर सिंह, पुत्रान चढ़ता पुत्र झगडू समभाग 84 भाग रामकरण, रामचरण राजकुमार, प्रीतम सिंह, जसबीर सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चढ़ता सिंह हर पांच समभाग 35 भाग हरजीत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह 36 भाग बलबीर सिंह कर्म सिंह सुरिन्दर सिंह पुत्रान मेहर सिंह पुत्र चढ़ता समभाग 66 भाग कुल 101 भाग दर 6 भाग कुल 126 भाग मालकान कब्जा साकान घसीटपुर पदम सिंह आदि मु0खे0न0 (192) हकदार शामिलता । |
| | | | 9 | 7 | निजी | कृषि | 0.0246 | मेहर सिंह, केहर सिंह, पुत्रान चढ़ता पुत्र झगडू समभाग 84 भाग रामकरण, रामचरण राजकुमार, प्रीतम सिंह, जसबीर सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चढ़ता सिंह हर पांच समभाग 35 भाग हरजीत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह 36 भाग बलबीर सिंह कर्म सिंह सुरिन्दर सिंह पुत्रान मेहर सिंह पुत्र चढ़ता समभाग 66 भाग कुल 101 भाग दर 6 भाग कुल 126 भाग मालकान कब्जा साकान घसीटपुर पदम सिंह आदि मु0खे0न0 (192) हकदार शामिलता । |
| | | | 9 | 4 | निजी | कृषि | 0.0497 | मेहर सिंह, केहर सिंह, पुत्रान चढ़ता पुत्र झगडू समभाग 84 भाग रामकरण, रामचरण राजकुमार, प्रीतम सिंह, जसबीर सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चढ़ता सिंह हर पांच समभाग 35 भाग हरजीत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह 36 भाग बलबीर सिंह कर्म सिंह सुरिन्दर सिंह पुत्रान मेहर सिंह पुत्र चढ़ता समभाग 66 भाग कुल 101 भाग दर 6 भाग कुल 126 भाग मालकान कब्जा साकान घसीटपुर पदम सिंह आदि मु0खे0न0 (192) हकदार शामिलता । |
| | | | 9 | 3/2 | निजी | कृषि | 0.0064 | मेहर सिंह, केहर सिंह, पुत्रान चढ़ता पुत्र झगडू समभाग 84 भाग रामकरण, रामचरण राजकुमार, प्रीतम सिंह, जसबीर सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चढ़ता सिंह हर पांच समभाग 35 भाग हरजीत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह 36 भाग बलबीर सिंह कर्म सिंह सुरिन्दर सिंह पुत्रान मेहर सिंह पुत्र चढ़ता समभाग 66 भाग कुल 101 भाग दर 6 भाग कुल 126 भाग मालकान कब्जा साकान घसीटपुर पदम सिंह आदि मु0खे0न0 (192) हकदार शामिलता । |
| | | | 9 | 157 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0804 | हरियाणा सरकार बिजली बोर्ड खम्बा । |
| | | | 9 | 3/1 | निजी | कृषि | 0.0271 | कुल 1829 भाग जैल0 रामकरण, रामचरण, प्रीतम सिंह, राजकुमार, जसबीर सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र चढ़ता समभाग 508 भाग हरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह 47 भाग मेहर सिंह, केहर सिंह, चढ़ता पुत्र झगडू समभाग 1219 भाग बलबीर सिंह कर्म सिंह सुरेन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र चढ़ता हर समभाग 55 भाग साकान देह घसीटपुर मालकान कब्जा शान सिंह आदि मजकुरान हकदार शामिलता । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 9 | 2 | निजी | कृषि | 0.0058 | कुल 1829 भाग जैल0 रामकरन, रामचरन, प्रीतम सिंह, राजकुमार, जसवीर सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र चढ़ता समभाग 508 भाग हरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह 47 भाग मेहर सिंह, केहर सिंह, चढ़ता पुत्र झगडु समभाग 1219 भाग बलवीर सिंह करम सिंह सुरेन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र चढ़ता हर समभाग 55 भाग साकनान देह घसीटपुर मालकान कब्जा शान सिंह आदि मजकुरान हकदार शामिल। |
| | | | 1 | 23 | निजी | कृषि | 0.0911 | कुल 1829 भाग जैल0 रामकरन, रामचरन, प्रीतम सिंह, राजकुमार, जसवीर सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र चढ़ता समभाग 508 भाग हरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह 47 भाग मेहर सिंह, केहर सिंह, चढ़ता पुत्र झगडु समभाग 1219 भाग बलवीर सिंह करम सिंह सुरेन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र चढ़ता हर समभाग 55 भाग साकनान देह घसीटपुर मालकान कब्जा शान सिंह आदि मजकुरान हकदार शामिल। |
| | | | 1 | 22 | निजी व सरकारी | कृषि | 0.1999 | रामकरन, रामचरन, प्रीतम सिंह राजमुमर। हरियाणा बिजली बोर्ड। |
| | | (2) ब्राह्मण माजरा | 32 | 22 | निजी | कृषि | 0.0278 | करतार सिंह (1) एक भाग मेहर सिंह, केहर सिंह समभाग 14 भाग पृत्रान चड़त सिंह, रामकरन, राज कुमार, प्रीतम सिंह जसवीर सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चड़त सिंह समभाग (6) भाग वासीयान घसीटपुर मालकान कब्जा। |
| | | | 32 | 19/2 | निजी | कृषि | 0.0228 | करतार सिंह (1) एक भाग मेहर सिंह, केहर सिंह समभाग 14 भाग पृत्रान चड़त सिंह, रामकरन, राज कुमार, प्रीतम सिंह जसवीर सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चड़त सिंह समभाग (6) भाग वासीयान घसीटपुर मालकान कब्जा। |
| | | | 32 | 21 | निजी | कृषि | 0.0487 | करतार सिंह (1) एक भाग मेहर सिंह, केहर सिंह समभाग 14 भाग पृत्रान चड़त सिंह, रामकरन, राज कुमार, प्रीतम सिंह जसवीर सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चड़त सिंह समभाग (6) भाग वासीयान घसीटपुर मालकान कब्जा। |
| | | | 32 | 20 | निजी | कृषि | 0.2435 | करतार सिंह (1) एक भाग मेहर सिंह, केहर सिंह समभाग 14 भाग पृत्रान चड़त सिंह, रामकरन, राज कुमार, प्रीतम सिंह जसवीर सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चड़त सिंह समभाग (6) भाग वासीयान घसीटपुर मालकान कब्जा। |
| | | | 33 | 15 | निजी | कृषि | 0.1341 | करतार सिंह (1) एक भाग मेहर सिंह, केहर सिंह समभाग 14 भाग पृत्रान चड़त सिंह, रामकरन, राज कुमार, प्रीतम सिंह जसवीर सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चड़त सिंह समभाग (6) भाग वासीयान घसीटपुर मालकान कब्जा। |
| | | | 33 | 16 | निजी | कृषि | 0.1469 | करतार सिंह (1) एक भाग मेहर सिंह, केहर सिंह समभाग 14 भाग पृत्रान चड़त सिंह, रामकरन, राज कुमार, प्रीतम सिंह जसवीर सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र चड़त सिंह समभाग (6) भाग वासीयान घसीटपुर मालकान कब्जा। |

| क्रम संख्या | तहसील | गोंव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | | | 33 | 14/2 | निजी | कृषि | 0.1964 | मेहा सिंह पुत्र चढता राम झगडु सिंह मालिक कब्जा रविन्द्र नाथ आदि हकदार शामिल। |
| | | | 33 | 17 | निजी | कृषि | 0.0025 | सोमनाथ पुत्र मुन्शी पुत्र शंकर 1/4 भाग व साधु राम पुत्र गुर पुत्र नाथू 1/4 भाग कश्मीरी लाल, विशना पुत्र मातू पुत्र रामा समभाग 1/8 भाग मामराज, जनारधन, सोहन लाल पुत्रान ठाकुर पुत्र रामा समभाग 1/8 भाग। |
| | | | 33 | 7 | निजी | कृषि | 0.0430 | टेक चंद पुत्र तथा श्रीमति जयपाल कौर, सतपाल कौर, विजय लक्ष्मी स्त्रीयान तथा श्रीमति जगीर कौर विधवा रामदिया ऊर्फ निक्का पुत्र समभाग मालकान कब्जा अजसरे देह। |
| | | | 33 | 13 | निजी | कृषि | 0.0195 | टेक चंद पुत्र तथा श्रीमति जयपाल कौर, सतपाल कौर, विजय लक्ष्मी स्त्रीयान तथा श्रीमति जगीर कौर विधवा रामदिया ऊर्फ निक्का पुत्र समभाग मालकान कब्जा अजसरे देह। |
| | | | 33 | 8 | निजी | कृषि | 0.1391 | टेक चंद पुत्र तथा श्रीमति जयपाल कौर, सतपाल कौर, विजय लक्ष्मी स्त्रीयान तथा श्रीमति जगीर कौर विधवा रामदिया ऊर्फ निक्का पुत्र समभाग मालकान कब्जा अजसरे देह। |
| | | | 33 | 14/1 | निजी | कृषि व गैर मुमकिन | 0.0481 | टेक चंद पुत्र तथा श्रीमति जयपाल कौर, सतपाल कौर, विजय लक्ष्मी स्त्रीयान तथा श्रीमति जगीर कौर विधवा रामदिया ऊर्फ निक्का पुत्र समभाग मालकान कब्जा अजसरे देह। |
| | | (3) घसीटपुर | 22 | 2 | निजी | कृषि | 0.1467 | राजकुमार, जसबीर, प्रीतम सिंह रामकरन रामचरन पुत्र करतार सिंह पुत्र चढता हर 5 समभाग 5/18 भाग हरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह 1/18 भाग मेहर सिंह केहर, सिंह पुत्रान चढता पुत्र झगडु समभाग 2/3 भाग। |
| | | | 22 | 9 | निजी | कृषि | 0.1003 | राजकुमार, जसबीर, प्रीतम सिंह रामकरन रामचरन पुत्र करतार सिंह पुत्र चढता हर 5 समभाग 5/18 भाग हरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह 1/18 भाग मेहर सिंह केहर, सिंह पुत्रान चढता पुत्र झगडु समभाग 2/3 भाग। |
| | | | 22 | 1/2 | निजी | कृषि | 0.0575 | राजकुमार, जसबीर, प्रीतम सिंह रामकरन रामचरन पुत्र करतार सिंह पुत्र चढता हर 5 समभाग 5/18 भाग हरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह 1/18 भाग मेहर सिंह केहर, सिंह पुत्रान चढता पुत्र झगडु समभाग 2/3 भाग। |
| | | | 22 | 1/1 | निजी | कृषि | 0.2280 | राजकुमार, जसबीर, प्रीतम सिंह रामकरन रामचरन पुत्र करतार सिंह पुत्र चढता हर 5 समभाग 5/18 भाग हरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह 1/18 भाग मेहर सिंह केहर, सिंह पुत्रान चढता पुत्र झगडु समभाग 2/3 भाग। |
| | | | 22 | 13 | निजी | कृषि | 0.0025 | श्रीमति चमेली देवी विधवा व तरसेम सिंह पुत्र नरन्जन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह हर दो समभाग वासीदेह। |
| | | | 22 | 8 | निजी | कृषि | 0.1213 | श्रीमति चमेली देवी विधवा व तरसेम सिंह पुत्र नरन्जन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह हर दो समभाग वासीदेह। |

| क्रम संख्या | सहस्रील | गौब का नाम | मस्तील नम्बर | खसस संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अविग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|---------|------------|--------------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 22 | 3 | निजी | कृषि | 0.0049 | श्रीमति चमेली देवी विधवा व तरसेम सिंह पुत्र नरन्जन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह हर दो समभाग वासीदेह। |
| | | | 13 | 21 | निजी | कृषि | 0.0188 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 21 | 5/1 | निजी | कृषि | 0.0877 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 24 | निजी | कृषि | 0.2607 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 25 | निजी | कृषि | 0.2364 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 11/2 | निजी | कृषि | 0.0145 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 12 | निजी | कृषि | 0.1518 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 13 | निजी | कृषि | 0.0061 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 17 | निजी | कृषि | 0.0885 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 23 | निजी | कृषि | 0.0334 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 20/1 | निजी | कृषि | 0.0025 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 18 | निजी | कृषि | 0.3153 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 19 | निजी व ग्राम पंचायत | कृषि | 0.1597 | बचन सिंह, अमर सिंह, जगतार सिंह अंग्रेज सिंह पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र नसीब सिंह समभाग 1/2 भाग शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 12 भाग। ग्राम पंचायत। |
| | | | 14 | 43 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.5559 | शामलात देह रसद आदि देह। |
| | | | 21 | 5/2 | निजी | कृषि | 0.0025 | शेर सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र ध्यान सिंह 1/2 भाग बचन सिंह, अमर सिंह पुत्रान प्रेम सिंह नसीब सिंह हर दो समभाग 1/2 भाग वासी देह। |
| | | | 11 | 22/2 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.1707 | ग्राम पंचायत देह। |
| | | | 11 | 23 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0860 | ग्राम पंचायत देह। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 11 | 19 | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.1543 | ग्राम पंचायत देह। |
| | | | 10 | 15 | ग्राम पंचायत | गैर कृषि | 0.0664 | ग्राम पंचायत देह। |
| | | | | 35 | ग्राम पंचायत व सरकारी | गैर कृषि | 0.0856 | ग्राम पंचायत व प्रदेश सरकार |
| | | | 10 | 29 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0411 | प्रदेश सरकार |
| | | | | 34 | सरकारी | प्लाट | 0.0073 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व प्रदेश सरकार। |
| | | | | 31 | सरकारी | प्लाट | 0.2093 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व प्रदेश सरकार। |
| | | | | 144 | सरकारी | प्लाट | 0.0035 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व प्रदेश सरकार। |
| | | | 7 | 11 | निजी व सरकारी | कृषि | 0.0202 | श्रीमति अंग्रेज कौर विधवा तथा जसवीर कौर पत्नी तथा जसवंत सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र हरनेक सिंह तथा गुरमेल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर भाग समभाग। प्रदेश सरकार |
| | | | 8 | 15 | निजी व सरकारी | कृषि | 0.1232 | श्रीमति अंग्रेज कौर विधवा तथा जसवीर कौर पत्नी तथा जसवंत सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र हरनेक सिंह तथा गुरमेल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर भाग समभाग। प्रदेश सरकार |
| | | | 8 | 16 | निजी व सरकारी | कृषि | 0.0025 | श्रीमति अंग्रेज कौर विधवा तथा जसवीर कौर पत्नी तथा जसवंत सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र हरनेक सिंह तथा गुरमेल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर भाग समभाग। प्रदेश सरकार |
| | | | 7 | 20 | निजी व सरकारी | गैर कृषि | 0.1835 | श्रीमति अंग्रेज कौर विधवा तथा जसवीर कौर पत्नी तथा जसवंत सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र हरनेक सिंह तथा गुरमेल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर भाग समभाग। प्रदेश सरकार |
| | | (4) शाहपुर | | 157 | पंचायत | पेड़ | 0.0228 | सिविल पंचायत देह वासी देह। |
| | | | 12 | 7 | निजी | कृषि | 0.2351 | गुलजार सिंह पुत्र वीर सिंह पुत्र अतर सिंह, तारा सिंह पुत्र सन्तोख सिंह पुत्र वीर सिंह समभाग मालकान कब्जा आत्मा सिंह आदि मुन्द्रजा खेवअ नं: 1313 हकदारान शामिल। |
| | | | 12 | 14/2 | निजी | कृषि | 0.0381 | गुलजार सिंह पुत्र वीर सिंह पुत्र अतर सिंह मालक कामल 1/2 निस्फ तारा सिंह पुत्र सन्तोख सिंह पुत्र वीर सिंह मालक कब्जा सन्तोख सिंह पुत्र वीर सिंह पुत्र अतर सिंह हकदार शामिल। 1/2 निस्फ। |
| | | | | 155 | पंचायत | पेड़ | 0.5434 | सिविल पंचायत देह वासी देह। |
| | | | 12 | 2 | निजी | कृषि | 0.0411 | श्रीमती चरनजीत कौर विधवा वा कुलदीप सिंह, सरबजीत सिंह पुत्रान वा श्रीमति गुरजीत कौर सपुत्री गुरलाभ सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर चार समभाग 1/3 मनजीत सिंह दलजीत सिंह पुत्र बसन्त सिंह पुत्र करम सिंह समभाग 2/3 तिहाई मालकान कब्जा बघन सिंह पुत्र अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह वा निमल सिंह पुत्र बदन सिंह हकदारान शामिल। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिशृङ्खल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 12 | 3 | निजी | कृषि | 0.0672 | श्रीमती चरनजीत कौर विधवा वा कुलदीप सिंह, सरबजीत सिंह पुत्रान वा श्रीमति गुरजीत कौर सपुत्री गुरलाम सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर चार समभाग 1/3 मनजीत सिंह दलजीत सिंह पुत्र बसन्त सिंह पुत्र करम सिंह समभाग 2/3 तिहाई मालकान कब्जा बचन सिंह पुत्र अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह वा निमल सिंह पुत्र बदन सिंह हकदारान शामिल । |
| | | | 12 | 8/1 | निजी | कृषि | 0.0073 | श्रीमती चरनजीत कौर विधवा वा कुलदीप सिंह, सरबजीत सिंह पुत्रान वा श्रीमति गुरजीत कौर सपुत्री गुरलाम सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर चार समभाग 1/3 मनजीत सिंह दलजीत सिंह पुत्र बसन्त सिंह पुत्र करम सिंह समभाग 2/3 तिहाई मालकान कब्जा बचन सिंह पुत्र अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह वा निमल सिंह पुत्र बदन सिंह हकदारान शामिल । |
| | | | 9 | 20 | निजी | कृषि | 0.1419 | श्रीमती चरनजीत कौर विधवा वा कुलदीप सिंह, सरबजीत सिंह पुत्रान वा श्रीमति गुरजीत कौर सपुत्री गुरलाम सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर चार समभाग 1/3 मनजीत सिंह दलजीत सिंह पुत्र बसन्त सिंह पुत्र करम सिंह समभाग 2/3 तिहाई मालकान कब्जा बचन सिंह पुत्र अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह वा निमल सिंह पुत्र बदन सिंह हकदारान शामिल । |
| | | | 9 | 21 | निजी | कृषि | 0.0438 | श्रीमती चरनजीत कौर विधवा वा कुलदीप सिंह, सरबजीत सिंह पुत्रान वा श्रीमति गुरजीत कौर सपुत्री गुरलाम सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर चार समभाग 1/3 मनजीत सिंह दलजीत सिंह पुत्र बसन्त सिंह पुत्र करम सिंह समभाग 2/3 तिहाई मालकान कब्जा बचन सिंह पुत्र अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह वा निमल सिंह पुत्र बदन सिंह हकदारान शामिल । |
| | | | 9 | 22 | निजी | कृषि | 0.1026 | श्रीमती चरनजीत कौर विधवा वा कुलदीप सिंह, सरबजीत सिंह पुत्रान वा श्रीमति गुरजीत कौर सपुत्री गुरलाम सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर चार समभाग 1/3 मनजीत सिंह दलजीत सिंह पुत्र बसन्त सिंह पुत्र करम सिंह समभाग 2/3 तिहाई मालकान कब्जा बचन सिंह पुत्र अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह वा निमल सिंह पुत्र बदन सिंह हकदारान शामिल । |
| | | | 8 | 16 | निजी | कृषि | 0.0312 | श्रीमती चरनजीत कौर विधवा वा कुलदीप सिंह, सरबजीत सिंह पुत्रान वा श्रीमति गुरजीत कौर सपुत्री गुरलाम सिंह पुत्र बसन्त सिंह हर चार समभाग 1/3 मनजीत सिंह दलजीत सिंह पुत्र बसन्त सिंह पुत्र करम सिंह समभाग 2/3 तिहाई मालकान कब्जा बचन सिंह पुत्र अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह वा निमल सिंह पुत्र बदन सिंह हकदारान शामिल । रनजीत सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह मालकान कामल 1/2 निष्क व नीज हकदार शामिल 1/4 चहारम सतपसल सिंह पुत्र रनजीत सिंह पुत्र बाबू सिंह समभाग मालक कब्जा 1/2 निष्क दिलवाग सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह 1/4 चहारम हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 14 | निजी | कृषि | 0.0193 | रनजीत सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह सतपाल सिंह पुत्र रनजीत सिंह पुत्र बाबू सिंह मालकान कब्जा तारा सिंह मुन्द्रजा खेवट नं: 2267 हकदार शामिल । दलवाग सिंह |

| क्रम संख्या | तहसील | नांव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | पुत्र बाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, जसवीर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह पुत्र बाबू सिंह समभाग मालकान कब्जा तारा सिंह मुन्कजा खेवट नं: 2267 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 15 | निजी | कृषि व गैर कृषि | 0.1478 | रनजीत सिंह पुत्र नाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह सतपाल सिंह पुत्र रनजीत सिंह पुत्र नाबू सिंह मालकान कब्जा तारा सिंह मुन्कजा खेवट नं: 2267 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 3 | निजी | कृषि | 0.0791 | दिलवाग सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, जसवीर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह पुत्र बाबू सिंह समभाग मालकान कब्जा तारा सिंह मुन्कजा खेवट नं: 2267 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 7 | निजी | कृषि | 0.1481 | दिलवाग सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, जसवीर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह पुत्र बाबू सिंह समभाग मालकान कब्जा तारा सिंह मुन्कजा खेवट नं: 2267 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 8 | निजी | कृषि | 0.0034 | दिलवाग सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, जसवीर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह पुत्र बाबू सिंह समभाग मालकान कब्जा तारा सिंह मुन्कजा खेवट नं: 2267 हकदार शामिल । |
| | | | 4 | 23 | निजी | कृषि | 0.0378 | दिलवाग सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, जसवीर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह पुत्र बाबू सिंह समभाग मालकान कब्जा तारा सिंह मुन्कजा खेवट नं: 2267 हकदार शामिल । |
| | | (5) ननहेरा | 6 | 22/1 | निजी | पलाट | 0.0432 | भरपूर सिंह पुत्र नछत्र सिंह पुत्र मेहर सिंह वासी तेपला 23 भाग श्रीमति सुदेश पत्नी अरविंद कोशल पुत्र रामकिशन वासी अम्बाल छावनी 8 श्रीमति सयतंत्र गर्ग पत्नी पवन कुमार वासी अम्बाला छावनी 25 भाग इन्द्रजीत पुत्र नन्दलाल पुत्र कृपा राम वासी संगरूर 7 भाग श्रीमति राजरानी पत्नी शामलाल पुत्र हंसराज वासी लुधियाना 7 भाग राजेश कुमार प्रदीप कुमार पुत्र विजय कुमार पुत्र इन्द्रराम समभाग 7 भाग श्रीमति दर्शना पत्नी भूशन कुमार श्रीमति सन्तोष पत्नी सोहन लाल समभाग पुत्र कसतुरी लाल समभाग 7 भाग श्रीमति दीना रानी पत्नी शिव कुमार पुत्र जीत राम 7 भाग केवल कृष्ण पुत्र चिरनजी लाल पुत्र नत्थू राम 7/136 भाग वासी भवानीगढ़ मदन लाल पुत्र रामचन्द्र पुत्र बालक राम वासी संगरूर 7 भाग श्रीमति सन्तोष रानी पत्नी सुभाष चन्द्र पुत्र चमन लाल वासी अम्बाला छावनी 7 भाग 7 भाग श्रीमति कमलेश रानी पत्नी भूषण कुपार पुत्र कर्म चन्द श्रीमति मीरा रानी पत्नी भूषण कुमार पुत्र कर्म चन्द श्रीमति मीना रानी पत्नी सुरिन्द्र कुमार पुत्र कर्म चन्द समभाग वासी वरनाला 7 भाग राजेश कुमार पुत्र श्याम लाल पुत्र हंसराज वासी लुधियाना 7 भाग कुल 136 भाग । |
| | | | 6 | 19/2 | निजी | अबादी | 0.0262 | मोहन सिंह, सुरजीत सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र तथा श्रीमति सरवन कौर पत्नी आत्मा सिंह पुत्र प्रेम सिंह हर चार समभाग 48/1160 भाग वासीदेह श्रीमति इन्द्रा पत्नी विशवनाथ पुत्र कुन्दन लाल भाग 160/1160 भाग वासी नसारी गैदान फरिदाबाद सतनाम सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र जगदीश चन्द पुत्र सरदारा राम वासी नारायणगढ़ 140/1160 भाग परमजीत सिंह पुत्र देसराज पुत्र चमेला राम 160/1160 भाग तरसेम लाल पुत्र जगनाथ पुत्र कालू राम 160/1160 रकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र मंगल सेन 20/1160 भाग श्रीमति नरायन देवी पत्नी बाली राम पुत्र भैरू राम 60/1160 भाग वाली राम पुत्र मोलु राम पुत्र सुखदेव 80/1160 भाग सुरजीत सिंह पुत्र बरकत सिंह पुत्र जय सिंह भाग श्रीमति जसवंत कौर विधवा सुरजीत सिंह पुत्र बरकत सिंह समभाग 160/1160 भाग । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मसौदा नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिपतित क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितवह व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------------|--|
| | | | 6 | 23/1 | निजी | पलाट | 0.0076 | श्रीमति सवतंत्र गर्ग पत्नी पवन कुमार वासी अम्बाला छावनी। |
| | | | 6 | 23/2 | निजी | पलाट | 0.0084 | श्रीमति सवतंत्र गर्ग पत्नी पवन कुमार वासी अम्बाला छावनी। |
| | | | 6 | 11/2 | निजी | रास्ता | 0.0027 | भाग सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र कर्म सिंह पुत्र सरूप सिंह समभाग 1/10 भाग पूरन सिंह, सम्पूर्ण सिंह सरवन सिंह पुत्रान सरूप सिंह हिम्मत सिंह हर तीन समभाग 3/10 भाग जोगिन्द सिंह, महेन्द्र सिंह, हरभजन सिंह, हरनेक सिंह, हरपाल सिंह पुत्रान वा श्रीमति पंजाब कौर विधवा मेहर सिंह पुत्र सरूप सिंह हर 6 समभाग 1/10 भाग गुरदयाल सिंह पुत्र अनूप सिंह पुत्र हिम्मत सिंह 1/6 भाग अजीब सिंह लखमीर सिंह हरजिन्द सिंह पुत्रान हरी सिंह पुत्र अनूप सिंह हर तीन समभाग 1/6 भाग। |
| | | | 6 | 19/1/2 | निजी | कृषि | 0.0061 | भाग सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र कर्म सिंह पुत्र सरूप सिंह समभाग 1/10 भाग पूरन सिंह, सम्पूर्ण सिंह सरवन सिंह पुत्रान सरूप सिंह हिम्मत सिंह हर तीन समभाग 3/10 भाग जोगिन्द सिंह, महेन्द्र सिंह, हरभजन सिंह, हरनेक सिंह, हरपाल सिंह पुत्रान वा श्रीमति पंजाब कौर विधवा मेहर सिंह पुत्र सरूप सिंह हर 6 समभाग 1/10 भाग गुरदयाल सिंह पुत्र अनूप सिंह पुत्र हिम्मत सिंह 1/6 भाग अजीब सिंह लखमीर सिंह हरजिन्द सिंह पुत्रान हरी सिंह पुत्र अनूप सिंह हर तीन समभाग 1/6 भाग। |
| | | | | 60 | ग्राम पंचायत | रास्ता | 0.1591 | ग्राम पंचायत देह। |
| | | | | 74 | ग्राम पंचायत | रास्ता | 0.0025 | ग्राम पंचायत देह। |
| | | | | 28 | आबादी | आबादी | 0.0299 | आबादी देह। |
| | | (6) अम्बाला केन्ट | 443/E | मिल्द्री | | | 0.0796 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 443/B | मिल्द्री | | | 0.2441 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 437 | मिल्द्री | | | 2.7917 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 436 | मिल्द्री | | | 2.4677 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 433 | मिल्द्री | | | 0.7051 | नैशनल हाईवे |
| | | | 428 | मिल्द्री | | | 0.3469 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 426 | मिल्द्री | | | 0.2026 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 425 | मिल्द्री | | | 0.3737 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 421 | मिल्द्री | | | 6.6342 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 419 | मिल्द्री | | | 0.1895 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 414 | मिल्द्री | | | 4.0981 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 393 | मिल्द्री | | | 0.6613 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | रास्ता | मिल्द्री | | | 0.0237 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 392 | मिल्द्री | | | 0.3437 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 385 | मिल्द्री | | | 0.1088 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 384 | मिल्द्री | | | 0.5405 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 383A | मिल्द्री | | | 0.4131 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |
| | | | 383 | मिल्द्री | | | 0.6151 | अंडर मिल्द्री कन्ट्रोल |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | (7) जण्डली | | 80 | निजी | गैर कृषि | 0.0728 | भगवान दास 1/82 भाग फकीर चन्द पुत्र शादी राम पुत्र गोविन्दराम 6/41 भाग सुरजन सिंह पुत्र सारण राम पुत्र महाराम 7/82 भाग शीशपाल पुत्र सुरत राम पुत्र तेलू राम 5/41 भाग वासीदेह प्यारे लाल पुत्र माता दीन पुत्र राम रतन 11/164 भाग वासी 27-28 लक्ष्मी नगर जण्डली जिला अम्बाला गुरमीत सिंह पुत्र सन्त राम पुत्र कन्हैया राम रहन हिरसा 10/82 भाग वासी ललाना जिला अम्बाला श्रीमति सविता पुत्री हंसराज पुत्री रामचन्द्र 5/41 भाग मुरतहन श्रीमति गुरदियाल कौर पतनी प्रदमन सिंह पुत्र निहाल चन्द 1/41 भाग श्रीमति त्रिलोचन कौर विधवा व हरदीप कौर जगजीत कौर हरप्रीत कौर स्पुत्रियान व गुरदीप सिंह पुत्र जसवन्त सिंह पुत्र निहाल सिंह हर 5 समभाग 1/141 भाग वासीदेह गुरनाम सिंह पुत्र चरन सिंह पुत्र आत्मा सिंह 9/82 भाग वासी फैण्डज कालोनी अम्बाला शहर श्रीमति अनीता देवी पत्नी महेन्द्र प्रकाश पुत्र दाता राम 1/41 भाग वासी 573/17 गिरीश कुमार पुत्र नत्थी राम पुत्र मनशेर सिंह 3/82 भाग वासी 44 न्यू अफसर कालोनी अम्बाला शहर लखपत सिंह पुत्र हकुमत सिंह 7/82 भाग धर्मो देवी पत्नी देव सिंह 3/82 भाग माया देवी पत्नी ज्ञान चन्द 9/164 भाग देवराज, देसराज, लेखराज पुत्रान लखपत सिंह हर तीन समभाग 2/41 भाग वासी देह। |
| | | | | 81 | निजी | गैर कृषि | 0.0025 | बलजीत सिंह, करनैल सिंह पुत्र हजारा सिंह पुत्रान राम किशन हर दो समभाग 5/26 भाग वासीदेह शेर सिंह पुत्र रामकिशन पुत्र नाथू 7/52 भाग वासी नाभा सुरजन सिंह पुत्र सोरन राम पुत्र महाराम 7/52 भाग वासी हंगोली नारायणगढ़ श्रीमति प्रेम पत्नी रामचन्द्र पुत्र बनधर राम 3/13 भाग वासी 8 पैरी होटल अम्बाला छावनी कैदार नाथ पुत्र सरदारी लाल अम्बाला शहर 5/26 भाग श्रीमति परमजीत कौर पत्नी जागर 3/26 भाग वासीदेह। |
| | | | | 59 | सरकारी | सड़क | 0.0506 | प्रदेस सरकार |
| | | (8) पत्नी मेहर | 7 | 19 | सरकारी | अबादी | 0.0882 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिलता । |
| | | | 7 | 20/1 | सरकारी | पलाट | 0.1086 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिलता । |
| | | | 7 | 11/2 | सरकारी | पलाट | 0.1644 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिलता । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | नक्सील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 7 | 11/1 | सरकारी | पलाट | 0.1392 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 15 | सरकारी | पलाट | 0.1939 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 14 | सरकारी | पलाट | 0.0027 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 6 | सरकारी | पलाट | 0.1163 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 7 | सरकारी | पलाट | 0.2935 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 8/1 | सरकारी | पलाट | 0.0189 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 8/2 | सरकारी | पलाट | 0.0025 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 3/3 | सरकारी | पलाट | 0.0391 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 3/1 | सरकारी | पलाट | 0.1695 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | | 1097 | सरकारी | पलाट | 0.0101 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | | 1095 | सरकारी | पलाट | 0.0113 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 2/2 | सरकारी | पलाट | 0.0051 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | 8 | 2/1 | सरकारी | पलाट | 0.0294 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल । |
| | | | | 96 | सरकारी | पलाट | 0.2153 | केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | नस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 8 | 3/2 | निजी | पलाट | 0.0414 | सरदार सिंह गरजा पुत्र सुंदरा पुत्र नत्थू हर दो समभाग 2/9 भाग वासी जंडली जागीर सिंह पुत्र सुन्दर पुत्र नत्थू 4/9 भाग वासी जंडली जागीर, सीतो, अमरजीत कौर पुत्री सुन्दर पुत्र नत्थू हर तीन समभाग 1/3 भाग वासी जंडली। |
| | | | 6 | 22/2 | सरकारी | पलाट | 0.1161 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मालक कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल। |
| | | | 6 | 22/1 | सरकारी | पलाट | 0.0033 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण |
| | | | 850 | | सरकारी | मंन्डी | 0.0033 | हरियाणा प्रदेश सरकार |
| | | | 855 | | सरकारी | मंन्डी | 0.0025 | हरियाणा प्रदेश सरकार |
| | | | 854 | | सरकारी | मंन्डी | 0.0077 | केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी |
| | | | 861 | | निजी व सरकारी | मंन्डी | 0.0187 | महेश दास पुत्र जगननाथ पुत्र महावीर चन्द 11/32 भाग रमन कुमार, दयिन्द्र कुमार, कृष्ण लाल मोहन लाल पुत्रान लाल चन्द पुत्र राम चन्द हर चार समभाग 21/32 भाग मालकान कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्राटी मु0 खेवट नं0 402 हकदार शामिल। हरियाणा प्रदेश सरकार |
| | | | 862/1 | | निजी व सरकारी | समाधी व रास्ता | 0.0150 | हरियाणा प्रदेश सरकार मालकान कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी। मुशत्रका 64 भाग जैल लाजपत राये पुत्र देसराज 1/72 भाग, श्रीमति शरदा रानी पत्नी सतपाल 1/72 भाग श्रीमति रमा रानी पत्नी व दिनेश कुमार पुत्र अनिल प्रकाश पुत्र बनारसी दास समभाग 15 भाग सुरेश कुमार पुत्र 11 भाग व श्रीमति साहनी रानी 3 भाग पत्नी औमप्रकाश पुत्र दूनी चन्द जै सिंह पुत्र चनन सिंह पुत्र बसन्त सिंह 4 भाग शामिल पुत्र रामकिशन पुत्र मईया दास 4 भाग सतीश कुमार दर्शन कुमार पुत्र लछमन दास 8 भाग श्रीमति शोभा रानी पत्नी नरेन्द्र पाल पुत्र बरखराम जिला पटियाला 4 भाग मालकान कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी। |
| | | | 924 | | निजी | सड़क | 0.0291 | मुशत्रका 12451 भाग जैल0 परमजीत पुत्र बदरीनाथ 2/5 भाग, हरमन्दि 1/5 भाग पुत्र व श्रीमति रमा 1/5 भाग पत्नी परमजीत पुत्र बदरीनाथ साकनान 934/7 पंचकुला व श्रीमति जयोती पत्नी विकास वासी जलालाबाद जिला फिरोजपुर 1/5 भाग दर 9 भाग श्रीमति रितु पुत्री सुरेश कुमार शर्मा 29/4 पंचकुला 7/20 भाग, जतिन्द्र पुत्र परमजीत वासी 934/7 पंचकुला 7/20 भाग विकास पुत्र बनारसीदास वासी 603/8 पंचकुला 3/10 भाग दर 9 भाग श्रीमति लता पत्नी अशोक पुत्र मदन लाल वासी अम्बाला रोड कैथल 9 भाग अशोक पुत्र मदनलाल पुत्र रामशरण दास वासी अम्बाला रोड कैथल 9 भाग अशीश कुमार पुत्र नन्हा राम वासी मन्गंगा मोहल्ला कैथल 9 भाग औमप्रकाश एन्ड सन्ज, अनिल कुमार पुत्र औमप्रकाश वासी डी 257, अशोक विहार, नई दिल्ली 9 भाग विक्रम सिंह पुत्र, भुपिन्द्र सिंह वासी डेरा फतेह सिंह पहेवा जिला कुरुक्षेत्र 9 भाग कमलजीत सिंह पुत्र छज्जा सिंह पुत्र केहर सिंह वासी जिरकपुर जिला पटियाला 9 भाग अरूण कुमार पुत्र औमप्रकाश व राजकुमार पुत्र प्रेम चन्द समभाग साकनान अनाजमण्डी अम्बाला छावनी 9 भाग भुपिन्द्र सिंह पुत्र चरन सिंह वर्मा सलेम पुर |

| क्रम संख्या | तहसील | नौब का नाम | नस्लील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितवाह व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | <p>जाटा तहो व जिला पटियाला 9 भाग गुरधरन सिंह पुत्र जंग सिंह वर्मा आलगे वाला तहो नामा जिला पटियाला 9 भाग महेश पुत्र रामलुमाया यासी 1126 सैक्टर 7 पंचकुला 9 भाग श्रीमति रीटा पत्नी निर्मल सिंह पुत्र रिखी राम 3/5 भाग कुलदीप कुमार रनजीत सिंह पुत्र रिखी राम पुत्र निराना राम समभाग 2/5 भाग साकनान अनान्दपुर जलबेड़ा दर 9 भाग जगमोहन पुत्र जय चन्द प्रकाश, गणेशी लाल शर्मा जगाधरी व अन्तराम पुत्र रघुन्धन लाल पुत्र मुलचन्द वर्मा मुलाना समभाग 3 भाग व सुभाष चन्द पुत्र कसतुरी लाल वर्मा पटेल कालेज राजपुरा जिला पटियाला 9 भाग रामेश कुमार पुत्र शिवराम यासी डमोरी तहो डेरावसी जिला पटियाला 451 भाग अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश वासी डी 257 फर्म</p> <p>नं० 1 अशीश विहार दिल्ली 116 भाग सुखदेव सिंह पुत्र नसीब सिंह वासी रावला तहो अम्बाला 191 भाग सुभाष पुत्र रामशरण वासी बी 26 मोती लाल नेहरू मार्ग आदरश नगर दिल्ली 239 भाग यादविन्द सिंह पुत्र सेवा सिंह वासी कैथल 362 भाग सुशील कुमार पुत्र ओमप्रकाश वासी वजीरपुर इन्डस्ट्रीज एरीया दिल्ली 116 भाग सुरिन्द कुमार पुत्र बाबू राम वासी डमोली तहो डेरावसी 116 भाग जसपाल सिंह पुत्र नसीब सिंह वासी रावला तहो अम्बाला 161 भाग अनिरुध कुमार पुत्र ओम प्रकाश वासी कैथल 116 भाग अरुण कुमार पुत्र चमन लाल वासी कैथल 116 भाग ओमप्रकाश पुत्र भगत राम वासी 50 सी राजपार्क अम्बाला छावनी 53 भाग श्रीमति वरखा पत्नी अजेय वासी 50 सी राजापार्क अम्बाला छावनी 53 भाग सतिन्द, सुरिन्द पुत्रान ओ० पी० समभाग साकनान 46ए रानी बाग अम्बाला छावनी 116 भाग मालकान कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मुनद्राज खेयट नं० 402 हकदार शामलात डेरा बाबा गिरखारी गिर।</p> |
| | | | | 925 | निजी | अबादी | 0.0668 | <p>मुशत्रका 12451 भाग जैल० परमजीत पुत्र बदरीनाथ 2/5 भाग, हरमन्दि 1/5 भाग पुत्र व श्रीमति रमा 1/5 भाग पत्नी परमजीत पुत्र बदरीनाथ साकनान 934/7 पंचकुला व श्रीमति जयोती पत्नी विकास वासी जलालाबाद जिला फिरोजपुर 1/5 भाग दर 9 भाग श्रीमति रितु पुत्री सुरेश कुमार शर्मा 29/4 पंचकुला 7/20 भाग, जतिन्द पुत्र परमजीत वासी 934/7 पंचकुला 7/20 भाग विकास पुत्र बनारसीदास वासी 603/8 पंचकुला 3/10 भाग दर 9 भाग श्रीमति लता पत्नी अशोक पुत्र मदन लाल वासी अम्बाला रोड कैथल 9 भाग अशोक पुत्र मदनलाल पुत्र रामशरण दास वासी अम्बाला रोड कैथल 9 भाग अशीश कुमार पुत्र नन्हा राम वासी मनूगंगा मोहल्ला कैथल 9 भाग ओमप्रकाश एन्ड सन्ज, अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश वासी डी 257, अशोक विहार, नई दिल्ली, 9 भाग विक्रम सिंह पुत्र, भुपिन्द सिंह वासी डेरा फतेह सिंह पहेवा जिला कुरुक्षेत्र 9 भाग कगलजीत सिंह पुत्र छज्जा सिंह पुत्र केहर सिंह वासी जिरकपुर जिला पटियाला 9 भाग अरुण कुमार पुत्र ओमप्रकाश व राजकुमार पुत्र प्रेम चन्द समभाग साकनान</p> |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | नस्लील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | मूखानियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | <p>अनाजमण्डी अम्बाला छावनी 9 भाग भुपिन्द्र सिंह पुत्र चरन सिंह वर्मा सलेम पुर जाटां तहिल व जिला पटियाला 9 भाग गुरचरन सिंह पुत्र जंग सिंह वर्मा आलगे वाला तहिल नामा जिला पटियाला 9 भाग महेश पुत्र रामलुभाया वासी 1126 सैक्टर 7 पुचकुला 9 भाग श्रीमति रीटा पत्नी निर्मल सिंह पुत्र रिखी राम 3/5 भाग कुलदीप कुमार रनजीत सिंह पुत्र रिखी राम पुत्र निराना राम समभाग 2/5 भाग साकनान अनान्दपुर जलबेड़ा दर 9 भाग जगमोहन पुत्र जय चन्द प्रकाश, गणेशी लाल शर्मा जगाधरी व अन्तराम पुत्र रघुन्धन लाल पुत्र मुलचन्द वर्मा मुलाना समभाग 3 भाग व सुभाष चन्द पुत्र कसतुरी लाल वर्मा पटेल कालेज राजपुरा जिला पटियाला 9 भाग रामेश कुमार पुत्र शिवराम वासी ढमोरी तहिल डेरावसी जिला पटियाला 451 भाग अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश वासी डी 257 फर्म नं० 1 अशीश विहार दिल्ली 116 भाग</p> <p>सुखदेव सिंह पुत्र नसीब सिंह वासी रावलां तहिल अम्बाला 191 भाग सुभाष पुत्र रामशरण वासी बी 26 मोती लाल नेहरू मार्ग आदरश नगर दिल्ली 239 भाग यादविन्द्र सिंह पुत्र सेवा सिंह वासी कैथल 362 भाग सुशील कुमार पुत्र ओमप्रकाश वासी वजीरपुर इन्डस्ट्रीज एरीया दिल्ली 116 भाग सुरिन्द्र कुमार पुत्र बाबू राम वासी ढमोली तहिल डेरावसी 116 भाग जसपाल सिंह पुत्र नसीव सिंह वासी रावलां तहिल अम्बाला 161 भाग अनिरुध कुमार पुत्र ओम प्रकाश वासी कैथल 116 भाग अरुण कुमार पुत्र चमन लाल वासी कैथल 116 भाग ओमप्रकाश पुत्र भगत राम वासी 50 सी राजपार्क अम्बाला छावनी 53 भाग श्रीमति वरखा पत्नी अजेय वासी 50 सी राजापार्क अम्बाला छावनी 53 भाग सतिन्द्र, सुरिन्द्र पुत्रान ओ० पी० समभाग साकनान 46ए रानी बाग अम्बाला छावनी 116 भाग मालकान कब्जा केन्द्रीय सरकार एकवायर्ड प्रापटी मुनद्राज खेवट नं० 402 हकदार शामलात डेरा बाबा गिरखारी गिर।</p> |
| | | | | 926 | निजी | अबादी | 0.0262 | नोराता मल्ल पुत्र पंजाब राए 3/4 भाग रामू मल्ल, गोविन्द लाल नामालूआ हर 2 समभाग 1/4 भाग वसीदेह। |
| | | (9) पत्नी अचारजां | | 66 | सरकारी | अबादी | 0.0366 | प्रदेश सरकार |
| | | | | 41 | निजी | अबादी | 0.0086 | राजिन्द्र कुमार, महिन्द्र कुमार पुत्र गौरी शंकर पुत्र मुतबन्ना कांशी राम समभाग 2/3 भाग श्रीमति सुधा विधवा तथा श्रीमति अरुण, अंजली स्फुत्री अनिल कुमार पुत्र गौरी शंकर समभाग 1/3 भाग वासीदेह। |
| | | | | 104 | निजी | अबादी | 0.0172 | छोटा राम पुत्र जवाहरा पुत्र केवल राम वासी देह। |
| | | | | 102/1 | निजी | अबादी | 0.0258 | धीर सिंह पुत्र सुकर राम पुत्र केवल राम |

| क्रम संख्या | तहसील | बीब का नाम | नस्तील नम्बर | खतता संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | मूकानियों के नाम/हितवह व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | | 103 | निजी | मकान | 0.2428 | सुरजीत सिंह, चरनजीत सिंह पुत्र केंसर सिंह पुत्र हरदित्त सिंह हर दो समभाग 44/133 भाग धमेन्द्र सिंह पुत्र उजागर सिंह पुत्र हरदित्त सिंह 56/133 भाग श्रीमति नसीब कौर विधवा व कुमारी दर्शन कौर पुत्री केंसर सिंह पुत्र हरदित्त सिंह समभाग 33/133 भाग। |
| | | | | 101/2 | निजी | अबादी | 0.0581 | इन्द्र राम पुत्र आत्मा राम पुत्र अंतर सिंह वासी अम्बाला शहर। |
| | | (10) पत्नी कलाला | | 422 | निजी | अबादी | 0.0247 | मुन्ही राम पुत्र सुख राम रहन हिस्सा 1/2 भाग मालिक कब्जा 1/2 भाग मालिक कब्जा बाकू राम पुत्र मुन्ही राम पुत्र सुखराम रहन हिस्सा 1/2 भाग मालिक कब्जा मनजीत सिंह जगजीत सिंह पुत्रान अमर सिंह हर दो समभाग मुरतहनान मनजीत सिंह, जगजीत सिंह, पुत्रान अमर सिंह हर 2 समभाग वासीदेह हकदार शामिल। |
| | | | | 445 | नगर पालिका | अबादी | 0.2146 | नगर पालिका आदि चालु। |
| | | | | 446 | नगर पालिका | पलाट | 0.0309 | नगर पालिका आदि चालु। |
| | | | | 447 | नगर पालिका | गैर कृषि | 0.0324 | नगर पालिका आदि चालु। |
| | | | | 448 | नगर पालिका | गैर कृषि | 0.1490 | नगर पालिका आदि चालु। |
| | | | | 449 | नगर पालिका | तालाब | 0.2283 | नगर पालिका आदि चालु। |
| | | | | 450 | नगर पालिका | गैर कृषि | 0.0025 | नगर पालिका आदि चालु। |
| | | | | 451 | निजी | गैर कृषि | 0.2651 | निर्मल दास दातक पुत्र हरी दास, चेला, महंत सरन दास मालिक कब्जा अजसरे देह वासी देह हकदार शामिल। |
| | | | | 452 | निजी | गैर कृषि | 0.1351 | निर्मल दास दातक पुत्र हरी दास, चेला, महंत सरन दास मालिक कब्जा अजसरे देह वासी देह हकदार शामिल। |
| | | | 18 | 9 | निजी | गैर कृषि | 0.0277 | ताराचन्द, गणेश, केवल, पप्पू पुत्र मोहन लाल पुत्र जीत राम हर चार समभाग 3/50 भाग वासीदेह मालकान कब्जा तेज राम पुत्र कन्हैया लाल पुत्र 3/200 भाग वासी रेलवे रोड अम्बाला शहर मालिक कब्जा मोहन लाल पुत्र टीकू पुत्र वली राम 8/40 भाग वासी सिविल हस्पताल मालिक कब्जा श्रीमति शकुंतला देवी पत्नी सालग राम पुत्र वली राम 8/40 भाग वासी अम्बाला शहर मालिक कब्जा निर्मल दास चेला हरी दास पुत्र हेमंत सरन दास 16/40 भाग मालिक कब्जा मोहित पुत्र रोहताश पुत्र रमेशवर पुत्र गौरी 1/140 भाग मालिक कब्जा मोहित पुत्र किशन लाल पुत्र चमन लाल 2/240 भाग मालिक कब्जा श्रीमति सुरेखा देवी पत्नी रकेश कुमार पुत्र मोहन लाल 2/40 भाग वासीदेह मालिक कब्जा। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 18 | 10 | निजी | नाला | 0.0291 | रचनी कुमार, सुदर्शन कुमार पुत्रान चुहड राम पुत्र फकिरीया राम हर दो समभाग 14/155 भाग वासी नालगढ सालम मालकान कब्जा मोहित पुत्र किशन लाल पुत्र चमन लाल 8/155 भाग मालिक कब्जा शिवनारायन पुत्र गुरचरन सिंह पुत्र गंगा विशन 3/155 भाग मालिक कब्जा माखन लाल पुत्र संत राम पुत्र घसीटा राम 1/155 भाग मालिक कब्जा कूरपाल सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र गहना सिंह 1/155 भाग वासीदेह मालिक कब्जा शंकर पुत्र समदीन पुत्र उदई 3/155 भाग वासी अम्बाला शहर मालिक कब्जा कर्मजीत पुत्र रामदास पुत्र नोराता राम 2/155 भाग वासी अम्बाला शहर मालिक कब्जा श्रीमति शान्ति देवी पत्नी रमेश घद पुत्र विशन 1/310 भाग मालिक कब्जा अशोक कुमार पुत्र खेमचंद पुत्र विशन राम 1/310 भाग मालिक कब्जा तारा चंद, पप्पू, गणेश, केवल पुत्र मोहन लाल पुत्र जीत राम हर चार समभाग 12/775 भाग मालकान कब्जा तेज राम पुत्र कन्हैया लाल 3/775 भाग मालिक कब्जा मुख्तार राज, मूलचन्द पुत्र माता दीन हर दो समभाग 2/155 भाग मालकान कब्जा श्रीमति अमरजीत पत्नी गुरचरण सिंह पुत्र रतन सिंह 5/155 भाग मालिक कब्जा नैत्रपाल मुख्तार सिंह पुत्र रुडी 3/155 भाग मालिक कब्जा बुध राम पुत्र महारथी 1/155 भाग मालिक कब्जा रामसरूप पुत्र बाबू लाल पुत्र बोरज 1/155 भाग मालिक कब्जा सुनील कुमार पुत्र फकीर चन्द पुत्र मनोहर लाल 5/310 वासीदेह मालिक कब्जा शाव कुमार पुत्र सुख राम दास राम सुधा 3/155 भाग वासी 1595 महावीर नगर अम्बाला मालिक कब्जा रोहताश कुमार पुत्र रामेशवर पुत्र गौरी 6/155 भाग मालिक कब्जा श्रीमति फुल्ला देवी पत्नी व गुलाब सिंह पुत्र जंगाली हर दो समभाग 1/155 भाग मालकान कब्जा श्रीमति सुरेखा देवी पत्नी राकेश कुमार 4/155 भाग मालिक कब्जा रमेश चन्द्र पुत्र भागमल 5/310 भाग वासीदेह मालिक कब्जा। |
| | | | 18 | 1 | निजी | गैर कृषि | 0.0327 | सरयनलाल पुत्र संत राम पुत्र घसीटा राम 1/5 भाग राज कुमार पुत्र सामू राम पुत्र तिकम दास 1/10 भाग कर्मजीत पुत्र रामदास पुत्र नोराता राम 1/30 भाग श्रीमति अमरजीत पत्नी गुरचरन सिंह पुत्र रतन सिंह 1/30 भाग मुख्तार राज, मूलचन्द पुत्र माता दीन हर दो समभाग 1/30 भाग वासीदेह बुधराम पुत्र महारथी 1/12 भाग वासी नया गॉव अम्बाला शहर रामसरूप पुत्र बाबूलाल पुत्र बोरज 1/12 भाग निर्मल दास चेला हरी दास पुत्र हेमन्त सरन दास 4/15 भाग वासीदेह सतपाल पुत्र चमेला राम पुत्र सावन राम 7/30 भाग वासी दुदाना तहसील अम्बाला शहर सुनील कुमार पुत्र फकीर चन्द पुत्र मनोहर लाल 1/60 भाग राम सिंह पुत्र किशोरी पुत्र गंगा 1/60 भाग विमला पत्नी राम सिंह 1/60 भाग वासी देह। |
| | | | 19 | 5/2 | निजी | गैर कृषि | 0.0282 | निर्मल दास दातक पुत्र हरी दास, चेला, महंत सरन दास मालिक कब्जा अजसरे देह वासी देह हकदार शामलात। |
| | | | 19 | 5/1 | निजी | गैर कृषि | 0.0063 | मदन लाल पुत्र विहारी लाल पुत्र जागु राम मालिक कब्जा हरीश चन्द पुत्र शहजादा राम वासीदेह हकदार शामलात। |
| | | | 13 | 24/2 | निजी | कृषि | 0.0152 | मदन लाल पुत्र विहारी लाल पुत्र जागु राम मालिक कब्जा हरीश चन्द पुत्र शहजादा राम वासीदेह हकदार शामलात। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 13 | 24/1 | निजी | कृषि | 0.0025 | मदन लाल पुत्र विहारी लाल पुत्र जागु राम तेजिन्द्र पाल सिंह रजेन्द्रपाल सिंह पुत्रान नरंजन सिंह पुत्र उदय सिंह हर दो समभाग वासीदेह हकदार शामिल। |
| | | | | 37 | निजी | कृषि | 0.0323 | पूरन चंद पुत्र जानकी प्रसाद पुत्र करता राम 1/12 भाग मदन लाल पुत्र विहारी लाल पुत्र जागुमल्ल 11/56 भाग ओमप्रकाश पुत्र तथा श्रीमति निर्मला देवी, रामदेवी, सिला देवी पुत्रियां गंगा देवी विहारी लाल पुत्र जागुराम हर 5 समभाग 15/32 भाग मालकान कब्जा देस राज विजय कुमार पुत्र शामलाल पुत्र विहारी लाल 2 समभाग 7/64 भाग मालकान कब्जा हरीश चन्द पुत्र शहजादा राम 1/18 भाग धर्मप्रकाश पुत्र दीनदयाल 1/18 भाग प्रेम चन्द पुत्र जानकी प्रसाद पुत्र करता राम 23/36 भाग हकदार शामलाल पुत्र प्रेम कुमार राजन पुत्र मदन लाल पुत्र विहारी लाल हर दो समभाग 2/21 भाग मालकान कब्जा जय कुमार देवराज पुत्र शामलाल पुत्र विहारी लाल हर दो समभाग 3/64 भाग वासीदेह मालकान कब्जा । |
| | | | | 38 | निजी | रास्ता | 0.0099 | पूरन चंद पुत्र जानकी प्रसाद पुत्र करता राम 1/12 भाग मदन लाल पुत्र विहारी लाल पुत्र जागुमल्ल 11/56 भाग ओमप्रकाश पुत्र तथा श्रीमति निर्मला देवी, रामदेवी, सिला देवी पुत्रियां गंगा देवी विहारी लाल पुत्र जागुराम हर 5 समभाग 15/32 भाग मालकान कब्जा देस राज विजय कुमार पुत्र शामलाल पुत्र विहारी लाल 2 समभाग 7/64 भाग मालकान कब्जा हरीश चन्द पुत्र शहजादा राम 1/18 भाग धर्मप्रकाश पुत्र दीनदयाल 1/18 भाग प्रेम चन्द पुत्र जानकी प्रसाद पुत्र करता राम 23/36 भाग हकदार शामलाल पुत्र प्रेम कुमार राजन पुत्र मदन लाल पुत्र विहारी लाल हर दो समभाग 2/21 भाग मालकान कब्जा जय कुमार देवराज पुत्र शामलाल पुत्र विहारी लाल हर दो समभाग 3/64 भाग वासीदेह मालकान कब्जा । |
| | | | | 36 | शामलात | अबादी | 0.0025 | शामलात देहजा । |
| | | | | 480 | शामलात | अबादी | 0.0085 | शामलात देहजा । |
| | | | | 462/1 | निजी | रास्ता | 0.0267 | जुमला मुसत्रका मालिक कब्जा अराजी हसब रसद खेवट हकदार शामिल। |
| | | | 13 | 18 | निजी | रास्ता | 0.0578 | गुरबख्श सिंह, दलजीत सिंह, भरपूर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र गुरनाम सिंह हर तीन समभाग हकदार शामिल। प्रकाश चन्द, ईशवर चन्द, पुत्र वीर चन्द पुत्रान छज्जुमल्ल हर दो समभाग 1/2 भाग वरिन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र पुत्र वीरचन्द 1/4 भाग पृथ्वी चन्द सुशील कुमार भूशन कुमार पुत्रान हरी चन्द हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह। |
| | | | 13 | 19/1 | निजी | खदान | 0.0101 | गुरबख्श सिंह, दलजीत सिंह, भरपूर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र गुरनाम सिंह हर तीन समभाग हकदार शामिल। प्रकाश चन्द, ईशवर चन्द, पुत्र वीर चन्द पुत्रान छज्जुमल्ल हर दो समभाग 1/2 भाग वरिन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र पुत्र वीरचन्द 1/4 भाग पृथ्वी चन्द सुशील कुमार भूशन कुमार पुत्रान हरी चन्द हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 13 | 12 | निजी | खदान | 0.0314 | तजिन्द्र पाल सिंह, रजिन्द्र पाल सिंह पुत्रान नरंजन सिंह पुत्र उदय सिंह हर दो समभाग वासीदेह हकदार शामलात, आत्म प्रकाश पुत्र चन्दा मल्ल पुत्र बुधराम वासी चण्डीगढ़। |
| | | | 13 | 11/3 | निजी | खदान | 0.0063 | तजिन्द्र पाल सिंह, रजिन्द्र पाल सिंह पुत्रान नरंजन सिंह पुत्र उदय सिंह हर दो समभाग वासीदेह हकदार शामलात, आत्म प्रकाश पुत्र चन्दा मल्ल पुत्र बुधराम वासी चण्डीगढ़। |
| | | | | 479 | निजी | रास्ता | 0.0084 | जुमला मुसत्रका मालिक कब्जा अराजी हसब रसद खेवट हकदार शामलात। |
| | | | 13 | 11/1 | निजी | रास्ता | 0.0322 | गुरभान सिंह पुत्र प्रधान सिंह पुत्र गुरमुख सिंह 17/50 भाग श्रीमति विद्यावती पत्नी गिरधारी लाल पुत्र सेवा राम 7/50 भाग विरेन्द्र कुमार पुत्र शाम लाल 13/50 भाग कपूर चन्द पुत्र संत राम 13/50 भाग वासी देह। |
| | | | 5 | 22 | निजी | पलाट | 0.0178 | सुखजिन्द्र सिंह, जर्नेल सिंह, हरभजन सिंह पुत्रान तथा भुपेन्द्र कौर काको, अकविन्द्र कौर सोनिया पुत्रीयान अजीत सिंह हर सात समभाग 93/178 भाग मलकीत कौर सुरिन्द्र कौर स्पुत्रियान अजीत सिंह हर दो समभाग 19/178 भाग श्रीमति राज कौर विधवा अजीत सिंह 1/89 भाग मनजीत कौर अजीत सिंह पुत्र 3/89 भाग राम सिंह पुत्र हुनर सिंह 7/178 भाग महेन्द्र पाल तेजपाल पुत्रान हर 2 समभाग 7/178 भाग हरदेव राम पुत्र राजा 1/89 भाग रतन सिंह पुत्र सुरिन्द्र सिंह 7/89 भाग श्रीमति अजमेरवती पुत्र निक्का राम पुत्र मंगल राम 1/89 भाग प्रेम नैन पुत्र फकीर चन्द 5/356 भाग वेद प्रकाश पुत्र देवी दास 11/356 भाग संजय कुमार पुत्र बालक राम पुत्र फगु राम 2/89 भाग अमरनाथ पुत्र हरी चन्द 7/178 भाग वासीदेह। |
| | | | 5 | 20 | निजी | अबादी | 0.0181 | साधु सिंह, दरबारा सिंह, परमजीत सिंह चरनजीत सिंह पुत्र पूरण सिंह पुत्र चंनन सिंह हर चार समभाग वासी पत्नी अचारजा। |
| | | | 6 | 15 | निजी | कृषि | 0.0158 | साधु सिंह, दरबारा सिंह, परमजीत सिंह चरनजीत सिंह पुत्र पूरण सिंह पुत्र चंनन सिंह हर चार समभाग वासी पत्नी अचारजा। |
| | | (11) पत्नी जटा (पत्नी रंगडा) | 75 | 1 | निजी | कृषि | 0.0261 | नसीब सिंह 323 भाग करनल सिंह 46 भाग बलवंत सिंह 166/1/2 भाग पुत्रान विशना जोगिन्द्र सिंह, सुरिन्द्र सिंह निर्मल सिंह, हरनेक सिंह पुत्रान वा बलजिन्द्र कौर स्पुत्री मनसा सिंह समभाग 66/1/2 भाग जसमेर कौर पत्नी हाकम सिंह कुलदीप कौर पत्नी नत्था सिंह समभाग 313 भाग नत्था सिंह, हाकम सिंह पुत्रान करतार सिंह 277 भाग गुरवधन सिंह पुत्र अजायब सिंह 403 राजहंस कौर स्पुत्री अजैव सिंह 108 भाग नछत्र कौर 225 भाग विधवा व मनजीत कौर दलजीत कौर तरननजीत कौर समभाग 972 स्पुत्रियान लाभ सिंह श्रीमति लाभ कौर स्पुत्री अजमेर सिंह 162 भाग रविन्दर विधवा वा दिलबाग सिंह हरविन्दर सिंह, तेज प्रकाश पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र अमर सिंह समभाग 4/5 श्रीमति धमीन्दर कौर विधवा वा हाकम सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र बलवन्त सिंह समभाग 442/5 भाग दर 781 भाग देविन्द्र सिंह इकवाल सिंह तरलोचन पुत्रान ज्ञान सिंह समभाग 48 गुरप्रीत कौर पत्नी मदन लाल 16 भाग |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 75 | 9 | निजी | कृषि | 0.0369 | जसवन्त सिंह पुत्र गुरवर्खा सिंह 12 भाग दलजीत सिंह पुत्र रामसरूप 12 भाग प्रवीन कुमार सन्तोष राय पुत्रान जसवन्त राय 8 भाग रामप्रसाद पुत्र रतन चन्द 16 भाग तीर्थ राम पुत्र लछमन दास 502 भाग रनजीत सिंह, गुरजेन्द्र सिंह, दलवीर सिंह निर्मल सिंह पुत्रान कुलवन्त कौर, नरेन्द्र कौर स्पुत्रियान प्रीतम कौर समभाग 162 भाग राजरानी पत्नी रमेश कुमार 16 भाग प्रदीप कुमार पुत्रान नरेश कुमार 44 समभाग निर्मला रानी मुन्द्राज खेवट नं० (11) भाग । |
| | | | 75 | 13/1 | निजी | कृषि | 0.0319 | नसीब सिंह 323 भाग करनैल सिंह 46 भाग बलवैत सिंह 166/1/2 भाग पुत्रान विशना जोगिन्द्र सिंह, सुरिन्द्र सिंह निर्मल सिंह, हरनेक सिंह पुत्रान वा बलजिन्द्र कौर स्पुत्री मनसा सिंह समभाग 66/1/2 भाग जसमेर कौर पत्नी हाकम सिंह कुलदीप कौर पत्नी नत्था सिंह समभाग 313 भाग नत्था सिंह, हाकम सिंह पुत्रान करतार सिंह 277 भाग गुरबचन सिंह पुत्र अजायब सिंह 403 राजहंस कौर स्पुत्री अजैब सिंह 108 भाग नछत्र कौर 225 भाग विधवा व मनजीत कौर दलजीत कौर तरननजीत कौर समभाग 972 सपुत्रियान लाभ सिंह श्रीमति लाभ कौर स्पुत्री अजमेर सिंह 162 भाग रविन्दर विधवा वा दिलबाग सिंह हरविन्दर सिंह, तेज प्रकाश पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र अमर सिंह समभाग 4/5 श्रीमति धमीन्दर कौर विधवा वा हाकम सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र बलवन्त सिंह समभाग 442/5 भाग दर 781 भाग देविन्द्र सिंह इकवाल सिंह तरलोचन पुत्रान ज्ञान सिंह समभाग 48 गुरप्रीत कौर पत्नी मदन लाल 16 भाग जसवन्त सिंह पुत्र गुरवर्खा सिंह 12 भाग दलजीत सिंह पुत्र रामसरूप 12 भाग प्रवीन कुमार सन्तोष राय पुत्रान जसवन्त राय 8 भाग रामप्रसाद पुत्र रतन चन्द 16 भाग तीर्थ राम पुत्र लछमन दास 502 भाग रनजीत सिंह, गुरजेन्द्र सिंह, दलवीर सिंह निर्मल सिंह पुत्रान कुलवन्त कौर, नरेन्द्र कौर स्पुत्रियान प्रीतम कौर समभाग 162 भाग राजरानी पत्नी रमेश कुमार 16 भाग प्रदीप कुमार पुत्रान नरेश कुमार 44 समभाग निर्मला रानी मुन्द्राज खेवट नं० (11) भाग । |
| | | | 75 | 13/1 | निजी | कृषि | 0.0319 | सोदागर सिंह 15 भाग उजागर सिंह 24 भाग बहादर सिंह 22 भाग पुत्रान वा गुरमीत कौर 38 भाग विधवा वा कर्मजीत कौर 14 भाग स्पुत्री महिन्द्र सिंह पुत्र तिलक सिंह हाकम सिंह पुत्र करतार सिंह 58 भाग रणजीत सिंह 19 भाग पुत्रान वा कुलजीत कौर 39 भाग विधवा वा नत्था सिंह बलवीर सिंह, दलवीर सिंह, रणजीत सिंह समभाग 64 भाग पुत्रान व गुरपाल कौर विधवा व सुरिन्द्र कौर नतवीर कौर खुशविन्दर कौर नरिन्दर कौर समभाग 23 भाग स्पुत्रीयान गुरबर्खा सिंह दिलबाग सिंह हरविन्दर सिंह तेजप्रकाश सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह समभाग 150 भाग तारा चन्द पुत्र पालाराम 166 भाग परविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह 7 भाग नरेन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह व शीतल सिंह पुत्र सुरिन्दर समभाग 282 भाग नरेन्द्र सिंह पुत्र नौराता सिंह 1 भाग । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | 75 | 13/2 | निजी | कृषि | 0.0025 | श्रीमति गुरवचन कौर विधवा व हरवन्स सिंह, मेहा सिंह त्रिलोचन सिंह जसविन्द सिंह पुत्रान व जसवन्त कौर हरवन्स कौर, सुरिन्द कौर, कर्मजीत कौर, महिन्द कौर स्पुत्रियान गुरदियाल सिंह उर्फ दियाल सिंह पुत्र जीवा सिंह समभाग 1/12 भाग वख्तावर सिंह पुत्र जीवा सिंह 1/20 भाग अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 1/12 भाग जसपाल सिंह, गुरमेल सिंह पुत्रान दयाल सिंह समभाग 1/20 भाग हाकम सिंह नत्था सिंह पुत्रान करतार सिंह समभाग 1/4 भाग जसवन्त सिंह जरनैल सिंह, गुरमेल सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह समभाग 1/2 भाग । |
| | | | 75 | 14 | निजी | कृषि | 0.0284 | श्रीमति गुरवचन कौर विधवा व हरवन्स सिंह, मेहा सिंह त्रिलोचन सिंह जसविन्द सिंह पुत्रान व जसवन्त कौर हरवन्स कौर, सुरिन्द कौर, कर्मजीत कौर, महिन्द कौर स्पुत्रियान गुरदियाल सिंह उर्फ दियाल सिंह पुत्र जीवा सिंह समभाग 1/12 भाग वख्तावर सिंह पुत्र जीवा सिंह 1/20 भाग अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह 1/12 भाग जसपाल सिंह, गुरमेल सिंह पुत्रान दयाल सिंह समभाग 1/20 भाग हाकम सिंह नत्था सिंह पुत्रान करतार सिंह समभाग 1/4 भाग जसवन्त सिंह जरनैल सिंह, गुरमेल सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह समभाग 1/2 भाग । |
| | | (12) घेल | 44 | 1 | निजी | कृषि | 0.0162 | ज्ञान सिंह उर्फ तारा सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र भोला सिंह, गुरदेव सिंह, बलदेव सिंह, मोहिन्द सिंह पुत्रान ज्ञान सिंह उर्फ तारा सिंह पुत्र अमर सिंह समभाग 1/4 भाग वा श्रीमती बीना रानी विधवा विगजीत सिंह, विशाल पुत्रान जसदेव सिंह पुत्र ज्ञान सिंह उर्फ तारा सिंह समभाग 1/12 भाग । |
| | | | 31 | 13/1 | निजी | कृषि | 0.0025 | बचन सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र हरी सिंह |
| | | | 31 | 13/2 | निजी | कृषि | 0.0101 | मुशरफ़ा 48 अड़ताली समभाग तरलोचन सिंह 15 भाग सरबन सिंह 16 भाग पुत्रान राधू सिंह पुत्र अतर सिंह, फकीर चन्द पुत्र रूलिया राम पुत्र मुन्डा राम 11 भाग बलजीत राम पुत्र पैत राम पुत्र रूलिया राम 5 भाग बाजा राम पुत्र मुकन्दरी राम 1 भाग । |
| | | | 31 | 12/1 | निजी | कृषि | 0.0051 | जगदेव सिंह, हरदेव सिंह पुत्रान करतात सिंह समभाग |
| | | | 31 | 9/3 | निजी | कृषि | 0.0063 | औमप्रकाश, सुरता राम गेजा राम पुत्रान केहर सिंह पुत्र चन्दूराम वासीमान देवी नगर । |
| | | | 31 | 10 | निजी | कृषि | 0.0025 | औमप्रकाश, सुरता राम गेजा राम पुत्रान केहर सिंह पुत्र चन्दूराम वासीमान देवी नगर । |
| | | | 26 | 15 | निजी | कृषि | 0.0882 | श्रीमति कमला देवी रमुत्री विजय सिंह पुत्र पिताम्बर सिंह वासीदेह । |

| क्रम संख्या | तहसील | नीच का नाम | मस्तीस नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | 26 | 7 | निजी | कृषि | 0.1286 | श्रीमति कान्ता देवी स्मृति रघुबीर सिंह पुत्र पिताम्बर सिंह। |
| | | | 26 | 2 | निजी | कृषि | 0.0025 | मुशरबा 28 भाग जैल हाकम सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह 7 समभाग सुरजीत सिंह, कयलजीत सिंह सुखपाल सिंह, जसवीर सिंह पुत्रान खजान सिंह पुत्र लछमन दास 65 भाग नरेन्द्र सिंह पुत्र फूल सिंह पुत्र इन्द्राज सिंह वासी रायपुर मानया जिला सहारनपुर 187 भाग दर्शनराम पुत्र वखतावर राम पुत्र वारू राम 21 भाग। |
| | | | 26 | 3 | निजी | कृषि | 0.1484 | मुशरबा 28 भाग जैल शमशेर सिंह, गुरनाम सिंह समभाग 9 भाग वा नीज मुरतहिन वा हाकम सिंह 3 भाग पुत्रान करतार सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह तजिन्द्र सिंह पुत्र फूल सिंह पुत्र इन्द्राज सिंह वासी रायपुर मानया जिला सहारनपुर 48 भाग राहन वा सुरजीत सिंह, कयलजीत सिंह सुखपाल सिंह, जसवीर सिंह पुत्रान खजान सिंह पुत्र लछमन दास 26 भाग। |
| | | | 75 | | ग्राम पंचायत | कृषि | 0.0794 | मुशत्रका मालकान। |
| | | | 18 | 20 | निजी | कृषि | 0.1150 | श्रीमती विद्यावती विधवा हरदियाल सिंह पुत्र पिताम्बर सिंह। |
| | | | 18 | 21 | निजी | कृषि | 0.0984 | श्रीमती विद्यावती विधवा हरदियाल सिंह पुत्र पिताम्बर सिंह। |
| | | | 18 | 22 | निजी | कृषि | 0.1151 | श्रीमती विद्यावती विधवा हरदियाल सिंह पुत्र पिताम्बर सिंह। |
| | | | 19 | 16/1 | निजी | कृषि | 0.0303 | श्रीमती विद्यावती विधवा हरदियाल सिंह पुत्र पिताम्बर सिंह। |
| | | | 19 | 16/2 | निजी | कृषि | 0.1837 | बन्त राम पुत्र मंगत राम पुत्र जेदू राम बिला राहन 1/2 भाग राजेश कुमार पुत्र बन्त राम पुत्र मंगत राम 160/437 भाग राहन विला रहन 58/437 भाग अजय कुमार पुत्र जवाला दास पुत्र नराता राम म0न0 97/1 विश्वकर्मा रोड अम्बाला शहर 160/437 भाग मुरतहन। |
| | | | 19 | 15 | निजी | कृषि | 0.0455 | बन्त राम पुत्र मंगत राम पुत्र जेदू राम बिला राहन 1/2 भाग राजेश कुमार पुत्र बन्त राम पुत्र मंगत राम 160/437 भाग राहन विला रहन 58/437 भाग अजय कुमार पुत्र जवाला दास पुत्र नराता राम म0न0 97/1 विश्वकर्मा रोड अम्बाला शहर 160/437 भाग मुरतहन। |
| | | | 19 | 14 | निजी | कृषि | 0.2489 | बन्त राम पुत्र मंगत राम पुत्र जेदू राम बिला राहन 1/2 भाग राजेश कुमार पुत्र बन्त राम पुत्र मंगत राम 160/437 भाग राहन विला रहन 58/437 भाग अजय कुमार पुत्र जवाला दास पुत्र नराता राम म0न0 97/1 विश्वकर्मा रोड अम्बाला शहर 160/437 भाग मुरतहन। |
| | | | 19 | 13 | निजी | कृषि | 0.0598 | लछमनदास पुत्र गेन्दाराम पुत्र भगवाना राम वासी मलकपून तहसील दूधन जिला पटियाला। |
| | | | 19 | 8 | निजी | कृषि | 0.2499 | लछमनदास पुत्र गेन्दाराम पुत्र वीरू राम 1/2 निस्क व अजैब सिंह पुत्र नछतर सिंह पुत्र वखशीश सिंह वासी हिदयातपुर तह0 राजपुरा जिला पटियाला 1/2 भाग निस्क। |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधियहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भूस्वामियों के नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | 19 | 9 | निजी | कृषि | 0.1121 | वचित्र सिंह पुत्र वन्त राम पुत्र मुकन्दी राम वासी जुलक पटियाला राहन विजय कुमार पुत्र शीतल प्रसाद पुत्र गंगा राम वासी 48:-ए- आरतीमारकेट घेल रोड अम्बाला शहर मुरतहिन । |
| | | | 19 | 2 | निजी | कृषि | 0.1740 | वचित्र सिंह पुत्र वन्त राम पुत्र मुकन्दी राम वासी जुलक पटियाला राहन विजय कुमार पुत्र शीतल प्रसाद पुत्र गंगा राम वासी 48:-ए- आरतीमारकेट घेल रोड अम्बाला शहर मुरतहिन । |
| | | | 19 | 1 | निजी | कृषि | 0.1698 | विशाल पुत्र मदनमोहन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह । |
| | | | 9 | 21 | निजी | कृषि | 0.1357 | विशाल पुत्र मदनमोहन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह । |
| | | | 8 | 25 | निजी | कृषि | 0.2187 | विशाल पुत्र मदनमोहन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह । |
| | | | 8 | 13 | निजी | कृषि | 0.2799 | गुरमीत सिंह पुत्र सरवन सिंह पुत्र जवाहर सिंह 1/8 भाग सोहन सिंह पुत्र कपूर सिंह पुत्र बुद्धा सिंह वासी चकलहिया ता0 जि0 नवांशहर 1/8 भाग श्रीमती वरिन्द्र कौर पत्नी शमशेर सिंह पुत्र मेला सिंह वासी 2342/2 अम्बाला शहर 91 भाग कांवल सिंह कुन्दन सिंह पुत्र सोहन सिंह वा श्रीमती महिन्द्र कौर पत्नी कशमीर सिंह पुत्र कुन्दन सिंह वा जसवीर सिंह, जसवन्त सिंह पुत्रान कुन्दन सिंह पुत्र सोहन सिंह समभाग 476 भाग दर 3/4 भाग तीन चहारम । |
| | | | 8 | 17 | निजी | कृषि | 0.3103 | गुरमीत सिंह पुत्र सरवन सिंह पुत्र जवाहर सिंह 1/8 भाग सोहन सिंह पुत्र कपूर सिंह पुत्र बुद्धा सिंह वासी चकलहिया ता0 जि0 नवांशहर 1/8 भाग श्रीमती वरिन्द्र कौर पत्नी शमशेर सिंह पुत्र मेला सिंह वासी 2342/2 अम्बाला शहर 91 भाग कांवल सिंह कुन्दन सिंह पुत्र सोहन सिंह वा श्रीमती महिन्द्र कौर पत्नी कशमीर सिंह पुत्र कुन्दन सिंह वा जसवीर सिंह, जसवन्त सिंह पुत्रान कुन्दन सिंह पुत्र सोहन सिंह समभाग 476 भाग दर 3/4 भाग तीन चहारम । |
| | | | 8 | 12 | निजी | कृषि | 0.0999 | मुशतरका 474 भाग जैल गुरमीत सिंह पुत्र सावन सिंह पुत्र जवाहर सिंह 119 भाग कांवल सिंह पुत्र कुन्दन सिंह पुत्र सोहन सिंह 69 भाग श्रीमती महिन्द्र कौर पत्नी कशमीर सिंह पुत्र कुन्दन सिंह जसवीर सिंह, जसवन्त सिंह पुत्रान कुन्दन सिंह पुत्र सोहन सिंह समभाग 148 भाग चानन सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र वधावा सिंह 20 भाग शिंगारा सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र सोहन सिंह 20 भाग मनजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र सोहन सिंह 14 भाग साकनान महमूदपुर गुरदीप सिंह पुत्र प्रताम सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र 3 भाग गुरमीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह 3 भाग सोहन सिंह पुत्र कपूर सिंह पुत्र बुद्धा सिंह वासी चकलहोवाद तह0 व जि0 नवांशहर 38 भाग श्रीमती वरिन्द्र कौर पत्नी शमशेर सिंह पुत्र मेला सिंह वासी 2342/2 अम्बाला शहर 40 भाग । |

| क्रम संख्या | तहसील | गाँव का नाम | मस्तील नम्बर | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | नृस्वामियों के नाम/हितवद्द व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | 8 | 16 | निजी | कृषि | 0.0820 | मुशतका 33 भाग गुरमीत सिंह पुत्र सावन सिंह पुत्र जवाहर सिंह व 9 भाग सोहन सिंह पुत्र कपूर सिंह पुत्र बूढ़ा सिंह 8 भाग श्रीमती विरेन्द्र कौर पत्नी शमशेर सिंह पुत्र मेला सिंह वासी अम्बाला शहर 2 भाग कांवल सिंह पुत्र कुन्दन सिंह पुत्र सोहन सिंह वा श्रीमती महिन्द्र कौर पतनी कश्मीर सिंह पुत्र कुन्दन सिंह वा जसवीर सिंह, जसवन्त सिंह मुत्रान कुन्दन सिंह पुत्र सोहन सिंह हर 4 भाग समभाग । |
| | | | 8 | 9 | निजी | कृषि | 0.2296 | गुरमीत सिंह पुत्र सावन सिंह पुत्र माघ सिंह । |
| | | | 8 | 10 | निजी | कृषि | 0.2105 | कावल सिंह कश्मीर सिंह, जसवीर सिंह जसवन्त पुत्रान कुन्दन सिंह पुत्र सोहन सिंह हर 4 समभाग साकनान महमुदपुर तहिल राजपुरा । |
| | | | | 248 | ग्राम पंचायत | रास्ता | 0.0273 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 245 | ग्राम पंचायत | रास्ता | 0.0431 | ग्राम पंचायत |

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि और मुख् भुविधाएं ।)

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2010

S.O. 3004(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 916 (E), dated the 20th April, 2010 and number S.O. 1120(E), dated the 14th May, 2010, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Ambala in the State of Haryana;

And, whereas, the substance of the said notification number S.O. 916 (E), dated the 20th April, 2010 and S.O. 1120 (E), dated the 14th May, 2010 have been published in daily newspaper The Tribune, dated the 23rd May, 2010 and Dainik Bhaskar, dated the 28th May, 2010 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas two numbers of objections were received and the same have been considered and disallowed by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefor upon the report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Ambala in the State of Haryana.

| Serial Number | Name of the Taluk | Name of the Village | Masteel Number | Khasra Number/ Survey Number | Type of Land | Nature of Land | Area (Hectare) | Name of Land Owners/ Intersted Persons |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
| | Barara | (1) Nahra | 5 | 11 | Private | Agriculture | 0.0809 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 5 | 19 | Private | Agriculture | 0.0944 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 5 | 18 | Private | Agriculture | 0.0967 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 5 | 20 | Private | Agriculture | 0.0118 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 5 | 23/1 | Private | Agriculture | 0.0025 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 5 | 24/1 | Private | Agriculture | 0.0936 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 5 | 25/1 | Private | Agriculture | 0.0557 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 6 | 1 | Private | Agriculture | 0.0987 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 6 | 2/1 | Private | Agriculture | 0.0675 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 6 | 9 | Private | Agriculture | 0.0506 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 6 | 8 | Private | Agriculture | 0.0987 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 6 | 7 | Private | Agriculture | 0.0765 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 6 | 14 | Private | Agriculture | 0.0281 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 6 | 15 | Private | Agriculture | 0.0989 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 7 | 5 | Private | Agriculture | 0.0582 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 2 | 19 | Private | Agriculture | 0.0430 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 2 | 23 | Private | Agriculture | 0.0742 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 2 | 24 | Private | Agriculture | 0.0784 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 2 | 25/1 | Private | Agriculture | 0.0405 | Vikram Jeet Singh, 1/2 part Harcharan Singh, Gurmeet Singh equal 1/2 part S/o Amrik Singh, S/o Hakam Singh. |
| | | | 2 | 20 | Private | Agriculture | 0.0126 | Tirath singh, Surjeet singh, Pritam singh S/o Gurbachan singh S/o Sohan singh equal part 17/30 part, Harminder singh S/o Tirath Singh S/o Gurcharan singh 27/120 Smt. Bohti Devi W/O Kaur Pal S/o Raghaveer Singh 1/240 part, Arvindra singh, Narendra singh, Jasvindra Singh S/o Daleep singh S/o Sunder singh equal part 25/240 part Smt parvinder kaur W/o Jaswinder Singh S/o Dalip Singh 24/240 Part. |
| | | | 1 | 15 | Private | Agriculture | 0.0742 | Tirath singh, Surjeet singh, Pritam singh S/o Gurbachan singh S/o Sohan singh equal part 17/30 part, Harminder singh S/o Tirath Singh S/o Gurcharan singh 27/120 Smt. Bohti Devi W/O Kaur Pal S/o Raghaveer Singh 1/240 part, Arvindra singh, Narendra singh, Jasvindra Singh S/o Daleep singh S/o Sunder singh equal part 25/240 part Smt parvinder kaur W/o Jaswinder Singh S/o Dalip Singh 24/240 Part. |
| | | | 1 | 14 | Private | Agriculture | 0.0517 | Dalip Singh Baryam Singh S/o Faqir singh (45) Part Tirath Singh, Surjit singh, Paritam Singh S/o Gurbachan singh S/o Sohan Singh equal part (309) part Harminder Singh S/o Tirath Singh S/o Gurbachan Singh (648) Part Smt Jaswnt Kaur W/o Nirbhai singh |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|------------------|-----|-------|------------------------|---------------------------------|--------|---|
| | | | | | | | | S/o Ramkishan (8) part Ratna Ram S/o Sannu Ram S/o Budh Ram (7) Part Joginder Singhs, Mohinder Singh Satwinder Singh S/o Sewa Singh S/o Nathu equal part (114) part Smt. Bhoti |
| | | | 1 | 16 | Private | Agriculture | 0.0025 | Tith Singh, Pritam Singh 34/120 part Surjit Singh 26/120 part S/o Gurbachan Singh S/o Sohan Singh equal part 17/40 part Smt. Bohati Devi w/o Kanwarpal S/o Raghubhir Singh 1/320 part Jung sher Singh S/o Ramjan S/o Ismail 11/160 part Arvind Singh, Narinder Singh Jswinder Singh S/o Dalip Singh S/o Sundur Singh qual Part 33/320 part Smt. Parwinder Kaur w/o Jaswinder Singh S/o Dalip 8/80 Part Harminder Singh S/o Tirth Singh S/o Gurbachan Singh 9/40 part. |
| | | | 4 | 21 | Private | Agriculture | 0.0253 | Surjit Singh, Amrik Singh, Gurcharn Singh S/o Balwant Singh S/o Teja Singh equal part (186) part Paritam Singh S/o Gurcharn Singh S/o Sohan Singh (186) part Kishan Lal S/o Haewli Ram S/o Makhan Mall 186 part Smt. Usha Rani Widow Sunil Kumar, Munish kumar S/o Parveen Kumar S/o Deevan Chand equal part (56) part Amarik Rai, Joginder Lal, Rajinder Lal Sanjeev Kumar equal part (366) part |
| | | | 12 | 1/1/1 | Government | Non Agriculture | 0.0253 | Haryana State Government |
| | | | 12 | 2 | Government | Non Agriculture | 0.0725 | Haryana State Government |
| | | | 12 | 8/1 | Government | Non Agriculture | 0.0531 | Haryana State Government |
| | | | 5 | 25/2 | Government | Non Agriculture | 0.0495 | Haryana State Government |
| | | | 11 | 5/1 | Government | Non Agriculture | 0.0025 | Haryana State Government |
| | | | 2 | 39 | Government | Non Agriculture | 0.0843 | Central Government |
| | | | 12 | 1/2 | Private and Government | Agriculture and Non Agriculture | 0.0495 | Surjit Singh, Amrik Singh, Gurcharn Singh S/o Balwant Singh S/o Teja Singh equal part (186) part Paritam Singh S/o Gurcharn Singh S/o Sohan Singh (186) part Smt. Usha Rani w/o Sunil Kumar, Munish kumar S/o Parveen Kumar S/o Deevan Chand equal part (56) part Amarik Rai, Joginder Lal, Rajinder Lal Sanjeev Kumar equal part (366) part S/o Deevan Chand S/o Balwant Singh S/o Balwant Singh equal part |
| | | (2) Milak Shekha | 19 | 1/2 | Private | Agriculture | 0.0557 | Total (4012) Part Jail. Avtar Singh (1003) part Mohinder Singh (763) S/o Gopal Dass S/o Sunder Lal Smt. Paritam Kaur w/o Joginder Singh S/o Gopal Dass (1003) part Smt. Amarjeet Kaur w/o Gurnam Singh S/o Gurbachan Singh qual part Residence |
| | | | 19 | 8 | Private | Agriculture | 0.0984 | Jasveer Singh, Gurjinder Singh S/o Gurmeh Singh allies Gurmej Singh S/o Balwant Singh equal part. |
| | | | 19 | 9 | Private | Agriculture | 0.1746 | Jasveer Singh, Gurjinder Singh S/o Gurmeh Singh allies Gurmej Singh S/o Balwant Singh equal part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 19 | 10/1 | Private | Agriculture | 0.0455 | Jasveer Singh, Gurjinder Singh S/o Gurmeh Singh allies Gurmeh Singh S/o Balwant Singh equal part. |
| | | | 19 | 14/2 | Private | Agriculture | 0.0304 | Jasveer Singh, Gurjinder Singh S/o Gurmeh Singh allies Gurmeh Singh S/o Balwant Singh equal part. |
| | | | 19 | 7/2 | Private | Agriculture | 0.0112 | Jasveer Singh, Gurjinder Singh S/o Gurmeh Singh allies Gurmeh Singh S/o Balwant Singh equal part. |
| | | | 19 | 13 | Private | Agriculture | 0.0076 | Jasveer Singh, Gurjinder Singh S/o Gurmeh Singh allies Gurmeh Singh S/o Balwant Singh equal part. |
| | | | 19 | 14/1 | Private | Agriculture | 0.0202 | Smt. Chameli Devi widow Nar Singh S/o Tula Singh, Sushila D/o Gendi resi. of village Adoya (7/1267) part Sardarmal S/o Lathamal (7/1267) part Smt. Maya Devi widow Govind Singh, Nanu Lal Inder Lal S/o Smt. Lajwanti, Kaushalya Rani, Sita Rani, Harbhajan Kaur D/o Ramchander S/o Ruldamal equal part (289/8869) part Sukhran Das, Panch Ram das S/o Sardarmal S/o Gurdit Mall equal part 578/88869 Molak Raj, Arjun Das S/o Smt Budh Devi, Ramtari D/o Smt Ramrakhi Widow Mohan mall S/o Sardara mall (1445/3214) Part Pritam Das Kharaiti Lal-Kishori Lal, Sunder Lal Balwant singh S/o Khel Cand S/o Sardara Mall equal part (1445/53214) part Mahender Pal -Krishan Lal equal part (269493/13250286) part Joginder Lal, Omparkash equal part (701258/13250286) part S/o Jagatram S/o Sardara Mall Nirmal Singh S/o Balkar singh S/o Faqir Singh (36703/13250286) part Sunderdas, Tarlokand S/o Mastram S/o Guditalmal equal part (554/3801) part Kartar Chand, Bodhraj Satish kumar S/o Harkishan Lal S/o Mast ram equal part (277/3801) part Sogan Lal Harnamdas, Khajan Singh S/o Budamal S/o Lathamal equal part (408/6335) part Baldev Singh (544/19005) part Mohinder singh, Devinder singh equal part (272/19005) part S/o Amarnath S/o Budamal, Hardit singh, Harnam Singh, Gurcharan Singh S/o Smt. Sawaran Kaur D/o Dhana singh S/o Lathamal equal part (136/1267) part Smt. Lakhmi Devi Widow Bhagat Ram S/o Ladha mall 136/1267 part Jagat singh S/o Ladha Mall S/o Ramrakha (8/1267) part Smt. Ishardevi widow Guditalmal S/o Ramdita Mal (51/2367) part Smt. mahtab Kaur Widow Paritam singh (1/1267) part Surjit Singh Gurdial Singh S/o Smt. Kartar Kaur |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 14 | 19/2 | Private | Agriculture | 0.0810 | Smt. Veran D/o Khajan Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nifs Suveg Singh S/o Varyam Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nisf. |
| | | | 14 | 20 | Private | Agriculture | 0.1695 | Smt. Veran D/o Khajan Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nifs Suveg Singh S/o Varyam Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nisf. |
| | | | 14 | 21/3 | Private | Agriculture | 0.0025 | Smt. Veran D/o Khajan Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nifs Suveg Singh S/o Varyam Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nisf. |
| | | | 14 | 26/1 | Private | Agriculture | 0.0076 | Smt. Veran D/o Khajan Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nifs Suveg Singh S/o Varyam Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nisf. |
| | | | 14 | 22 | Private | Agriculture | 0.0708 | Payara Singh S/o Faqir Singh S/o Fateh Singh. |
| | | | 14 | 23/1 | Private | Agriculture | 0.0531 | Payara Singh S/o Faqir Singh S/o Fateh Singh. |
| | | | 14 | 23/2 | Private | Agriculture | 0.0860 | Jasminder Singh Balwinder Singh, Ranjit Singh, Harbhajan Singh S/o Jagir Singh S/o Gurbachan Singh equal part (11) part Smt. Kamla Devi W/o Amarnath S/o Ram Parshad (6) |
| | | | 15 | 9/1 | Private | Agriculture | 0.1037 | Varyam Singh S/o Faqir Singh S/o Fateh Singh. |
| | | | 15 | 12/2 | Private | Agriculture | 0.0135 | Gardhara Singh S/o Labh Singh S/o Budh Singh Resident Seeven Majri. Varyam Singh S/o Faqir Singh |
| | | | 15 | 9/2 | Private | Agriculture | 0.0354 | Gardhara Singh S/o Labh Singh S/o Budh Singh Resident Seeven Majri. |
| | | | 15 | 10 | Private | Agriculture | 0.1518 | Gardhara Singh S/o Labh Singh S/o Budh Singh Resident Seeven Majri. |
| | | | 16 | 4 | Private | Agriculture | 0.1147 | Gardhara Singh S/o Labh Singh S/o Budh Singh Resident Seeven Majri. |
| | | | 16 | 5 | Private | Agriculture | 0.1214 | Gardhara Singh S/o Labh Singh S/o Budh Singh Resident Seeven Majri. |
| | | | 16 | 6 | Private | Agriculture | 0.0225 | Gardhara Singh S/o Labh Singh S/o Budh Singh Resident Seeven Majri. |
| | | | 15 | 13 | Private | Agriculture | 0.1619 | Smt. Veran D/o Khajan Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nifs Suveg Singh S/o Varyam Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nisf. |
| | | | 15 | 14 | Private | Agriculture | 0.1457 | Smt. Veran D/o Khajan Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nifs Suveg Singh S/o Varyam Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nisf. |
| | | | 15 | 16 | Private | Agriculture | 0.1366 | Smt. Veran D/o Khajan Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nifs Suveg Singh S/o Varyam Singh S/o Faqir Singh 1/2 Nisf. |
| | | | 15 | 17/1 | Private | Agriculture | 0.0076 | Suveg Singh S/o Varyam Singh S/o Faqir Singh |
| | | | 15 | 15/2 | Private | Agriculture | 0.0405 | Satpal Singh, Daljit Singh S/o Kartar Singh S/o Harnam Singh each two equal part residence of Barara. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----------------|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | (3) Shyun Majra | 10 | 20/2 | Private | Agriculture | 0.0759 | Inderjeet Singh S/o Bhagat Singh S/o Arjun Singh 1/4 part Gurcharan Singh, Paramjeet Singh, Kanwaljit Singh S/o Avtar Singh S/o Bhagat Singh 1/4 part Rajinder Singh 1/4 part Manjit Singh 1/8 part S/o Sarv Singh S/o Arjun Singh, Iqbal Singh S/o Ram Singh S/o Devi Ditta mall 1/8 part Vasideh. |
| | | | 10 | 21 | Private | Agriculture | 0.3416 | Inderjeet Singh S/o Bhagat Singh S/o Arjun Singh 1/4 part Gurcharan Singh, Paramjeet Singh, Kanwaljit Singh S/o Avtar Singh S/o Bhagat Singh 1/4 part Rajinder Singh 1/4 part Manjit Singh 1/8 part S/o Sarv Singh S/o Arjun Singh, Iqbal Singh S/o Ram Singh S/o Devi Ditta mall 1/8 part Vasideh. |
| | | | 10 | 22 | Private | Agriculture | 0.2859 | Inderjeet Singh S/o Bhagat Singh, Arjun Singh 1/4 part Gurcharan Singh, Paramjeet Singh, Kanwaljit Singh S/o Avtar Singh S/o Bhagat Singh 1/4 part Gurmeet Singh, Daljeet Singh S/o Sangat Singh S/o Karam Singh 1/4 part Rajinder Singh S/o Sarv Singh S/o Arjun Singh S/o Bhagat Singh, |
| | | | 12 | 2 | Private | Agriculture | 0.0708 | Inderjeet Singh S/o Bhagat Singh, Arjun Singh 1/4 part Gurcharan Singh, Paramjeet Singh, Kanwaljit Singh S/o Avtar Singh S/o Bhagat Singh 1/4 part Gurmeet Singh, Daljeet Singh S/o Sangat Singh S/o Karam Singh 1/4 part Rajinder Singh S/o Sarv Singh S/o Arjun Singh 1/4 part. |
| | | | 10 | 23 | Private | Agriculture | 0.1124 | Gurcharan Singh, Paramjit Singh, Kanwaljit Singh S/o Smt. Rajinder Kaur D/o Smt. Basant Kaur Widow Smt. Ishar Kaur Mother Autar Singh equal Part 1/4 part Inderjit Singh S/o Bhagat Singh S/o Arjun Singh 1/4 Part Harvinder Singh S/o Sarv Singh S/o Arjun Singh 1/4 part Harjinder Singh S/o Narinder Singh S/o Sunder Singh 1/4 part. |
| | | | 12 | 3/1 | Private | Agriculture | 0.0860 | Gurcharan Singh, Paramjit Singh, Kanwaljit Singh S/o Smt. Rajinder Kaur D/o Smt. Basant Kaur Widow Smt. Ishar Kaur Mother Autar Singh equal Part 1/4 part Inderjit Singh S/o Bhagat Singh S/o Arjun Singh 1/4 Part Harvinder Singh S/o Sarv Singh S/o Arjun Singh 1/4 part Harjinder Singh S/o Narinder Singh S/o Sunder Singh 1/4 part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 12 | 3/2 | Private | Agriculture | 0.0025 | Gurcharan Singh, Paramjit Singh, Kanwaljit Singh S/o Smt. Rajinder Kaur D/o Smt. Basant Kaur Widow Smt. Ishar Kaur Mother Autar Singh equal Part 1/4 part Inderjit Singh S/o Bhagat Singh S/o Arjun Singh 1/4 Part Harvinder Singh S/o Sarv Singh S/o Arjun Singh 1/4 part Harjinder Singh S/o Narinder Singh S/o Sunder Singh 1/4 part. |
| | | | 12 | 3/5 | Private | Agriculture | 0.0025 | Gurcharan Singh, Paramjit Singh, Kanwaljit Singh S/o Smt. Rajinder Kaur D/o Smt. Basant Kaur Widow Smt. Ishar Kaur Mother Autar Singh equal Part 1/4 part Inderjit Singh S/o Bhagat Singh S/o Arjun Singh 1/4 Part Harvinder Singh S/o Sarv Singh S/o Arjun Singh 1/4 part Harjinder Singh S/o Narinder Singh S/o Sunder Singh 1/4 part. |
| | | | 12 | 3/4 | Private | Agriculture | 0.1872 | Gurcharan Singh, Paramjit Singh, Kanwaljit Singh S/o Smt. Rajinder Kaur D/o Smt. Basant Kaur Widow Smt. Ishar Kaur Mother Autar Singh equal Part 1/4 part Inderjit Singh S/o Bhagat Singh S/o Arjun Singh 1/4 Part Harvinder Singh S/o Sarv Singh S/o Arjun Singh 1/4 part Harjinder Singh S/o Narinder Singh S/o Sunder Singh 1/4 part. |
| | | | 12 | 7 | Private | Agriculture | 0.0112 | Harbans Singh 1/3 part Smt. Daljit Kaur D/o 1/6 part Kushal Singh S/o Gannda Singh, Kanwarjit Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Kushal Singh 1/3 part Dhanvinder Singh S/o Harbans Singh S/o Kushal Singh 1/6 part. |
| | | | 12 | 4/1 | Private | Agriculture | 0.0202 | Madan Lal, Tilak Raj, Ramesh Chand S/o Smt. Krishna, Amrit D/o Smt. Kaushalya Vanti Widow Desraj S/o Ishwar Das each (6) part. |
| | | | 12 | 4/2 | Private | Agriculture | 0.1889 | Madan Lal, Tilak Raj, Ramesh Chand S/o Smt. Krishna, Amrit D/o Smt. Kaushalya Vanti Widow Desraj S/o Ishwar Das each (6) part. |
| | | | 9 | 9/2 | Private | Agriculture | 0.0278 | Krishan Lal Butamal S/o Chandumal |
| | | | 9 | 12 | Private | Agriculture | 0.1796 | Krishan Lal Butamal S/o Chandumal |
| | | | 9 | 13 | Private | Agriculture | 0.2249 | Krishan Lal Butamal S/o Chandumal |
| | | | 9 | 18/2 | Private | Agriculture | 0.0177 | Krishan Lal Butamal S/o Chandumal |
| | | | 9 | 18/1 | Private | Agriculture | 0.1012 | Krishan Lal Butamal S/o Chandumal |
| | | | 9 | 18/3 | Private | Agriculture | 0.0025 | Krishan Lal Butamal S/o Chandumal |
| | | | 9 | 19 | Private | Agriculture | 0.0025 | Krishan Lal Butamal S/o Chandumal |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 9 | 10 | Private | Agriculture | 0.1237 | Autar Singh S/o Sunder Singh S/o Thakar Singh |
| | | | 9 | 11 | Private | Agriculture | 0.0025 | Autar Singh S/o Sunder Singh S/o Thakar Singh |
| | | | 9 | 14/1 | Private | Agriculture | 0.0455 | Smt. Janki Rani W/o Krishan Lal S/o Buta Ram. |
| | | | 9 | 17 | Private | Agriculture | 0.3011 | Smt. Janki Rani W/o Krishan Lal S/o Buta Ram. |
| | | | 9 | 25/3 | Private | Agriculture | 0.0152 | Kartar Singh S/o Binda Singh S/o Jassa Singh |
| | | | 9 | 25/4 | Private | Agriculture | 0.0582 | Kartar Singh S/o Binda Singh S/o Jassa Singh |
| | | | 9 | 24 | Private | Agriculture | 0.0025 | Kartar Singh S/o Binda Singh S/o Jassa Singh. Khajan Singh S/o Sadhu Singh S/o Jassa Singh. |
| | | | 9 | 25/1 | Private | Agriculture | 0.0118 | Khel Singh S/o Karam Singh S/o Gulab Singh. |
| | | | 9 | 25/2 | Private | Agriculture | 0.0025 | Khel Singh S/o Karam Singh S/o Gulab Singh. |
| | | | 9 | 16/1 | Private | Agriculture | 0.0551 | Gurcharan Singh, Parmjit Singh, Kanwaljit Singh S/o Smt. Basant Kaur Widow Smt. Ishar Kaur Mother Avtar Singh S/o Bhagat Singh equal Part. |
| | | | 9 | 16/2 | Private | Agriculture | 0.0582 | Gurcharan Singh, Parmjit Singh Kanwaljit Singh S/o Smt. Rajinder Kaur D/o Basant Kaur Widow Smt. Ishar Kaur Mother Avtar Singh S/o Bhagat Singh equal Part. |
| | | | 9 | 16/3 | Private | Agriculture | 0.1577 | Gurcharan Singh, Parmjit Singh Kanwaljit Singh S/o Smt. Rajinder Kaur D/o Basant Kaur Widow Smt. Ishar Kaur Mother Avtar Singh S/o Bhagat Singh equal Part. |
| | | | 8 | 3 | Private | Agriculture | 0.1181 | Varyam Singh S/o Deva Singh S/o Miha Singh (165) Part Smt. Joginder Kaur W/o Surat Singh S/o Varyam Singh (40) part Surat Singh S/o Varyam Singh S/o Inder Singh (85) Part total (290) part. |
| | | | 8 | 4 | Private | Agriculture | 0.0984 | Parkash Singh, Satvinder Singh, Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Mal Singh equal Part. |
| | | | 8 | 6/1 | Private | Agriculture | 0.0987 | Parkash Singh, Satvinder Singh, Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Mal Singh equal Part. |
| | | | 8 | 7 | Private | Agriculture | 0.0025 | Parkash Singh, Satvinder Singh, Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Mal Singh equal Part. |
| | | | 8 | 6/2/1 | Private | Agriculture | 0.0025 | Parkash Singh, Satvinder Singh, Amarjit Singh S/o Jagat Singh S/o Mal Singh equal Part. |
| | | | 8 | 2 | Private | Agriculture | 0.0051 | Satnam Singh S/o Paritam Singh S/o Bhulla Singh. |
| | | | 5 | 25/3 | Private | Agriculture | 0.0127 | Satnam Singh S/o Paritam Singh S/o Bhulla Singh. |
| | | | 4 | 21 | Private | Agriculture | 0.1164 | Satnam Singh S/o Paritam Singh S/o Bhulla Singh. |
| | | | 4 | 22 | Private | Agriculture | 0.1237 | Satnam Singh S/o Paritam Singh S/o Bhulla Singh. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|------------|-----|------|----------------|-----------------|--------|---|
| | | | 5 | 16/1 | Private | Agriculture | 0.0238 | Gurnam Singh, Sawarn Singh, Mohinder Singh, Lakhvinder Singh S/o Smt. Joginder Kaur, Mohinder Kaur, Parsin Kaur D/o Nand Singh S/o Utam Singh (7) part Surjit Singh, Gurmeet Singh S/o Smt. Sawarn Kaur D/o Nand Singh equal part (1) part total part (8) part. |
| | | | 5 | 16/2 | Private | Agriculture | 0.0860 | Gurnam Singh, Sawarn Singh, Mohinder Singh, Lakhvinder Singh S/o Smt. Joginder Kaur, Mohinder Kaur, Parsin Kaur D/o Nand Singh S/o Utam Singh (7) part Surjit Singh, Gurmeet Singh S/o Smt. Sawarn Kaur D/o Nand Singh equal part (1) part total part (8) part. |
| | | | 5 | 17 | Private | Agriculture | 0.0253 | Gurnam Singh, Sawarn Singh, Mohinder Singh, Lakhvinder Singh S/o Smt. Joginder Kaur, Mohinder Kaur, Parsin Kaur D/o Nand Singh S/o Utam Singh (7) part Surjit Singh, Gurmeet Singh S/o Smt. Sawarn Kaur D/o Nand Singh equal part (1) part total part (8) part. |
| | | | 5 | 25/2 | Private | Agriculture | 0.0025 | Babu Singh S/o Budh Singh S/o Utam Singh 1/2 part Satnam Singh S/o Paritam Singh S/o Pyara Singh 1/2 part. |
| | | | 42 | | Gram Panchayat | Non Agriculture | 0.0141 | Gram Panchayat |
| | | (4) Barara | 141 | 12 | Private | Agriculture | 0.1181 | Uderaj Singh, Ghansham Singh, Raj Kumar Ram pal S/o Kehar Singh S/o Maled Singh equal part. |
| | | | 141 | 13/1 | Private | Agriculture | 0.0759 | Uderaj Singh, Ghansham Singh, Raj Kumar Ram pal S/o Kehar Singh S/o Maled Singh equal part. |
| | | | 141 | 17 | Private | Agriculture | 0.1037 | Uderaj Singh, Ghansham Singh, Raj Kumar Ram pal S/o Kehar Singh S/o Maled Singh equal part. |
| | | | 141 | 18 | Private | Agriculture | 0.0430 | Uderaj Singh, Ghansham Singh, Raj Kumar Ram pal S/o Kehar Singh S/o Maled Singh equal part. |
| | | | 141 | 10/2 | Private | Agriculture | 0.0562 | Makhmul Singh S/o Lehna Singh S/o Kala Singh |
| | | | 141 | 11 | Private | Agriculture | 0.0675 | Makhmul Singh S/o Lehna Singh S/o Kala Singh |
| | | | 140 | 4/1 | Private | Agriculture | 0.0506 | Makhmul Singh S/o Lehna Singh S/o Kala Singh |
| | | | 140 | 6/1 | Private | Agriculture | 0.0177 | Makhmul Singh S/o Lehna Singh S/o Kala Singh |
| | | | 140 | 7/2 | Private | Agriculture | 0.0101 | Makhmul Singh S/o Lehna Singh S/o Kala Singh |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------------|--------|--|
| | | | 140 | 194 | Private | Non Agriculture | 0.0152 | Sadhu Ram, Madho Ram S/o Mula ram Mathura Das equal Part (1) Pawan Kumar Padam Kumar S/o Sham Sunder S/o Lachman Das equal Part (2) part 1/2 Nisf Satish Kumar, Kamal Kishor S/o Baburam S/o Mangat ram equal Part 1 part Baburam, Ram Gopal, Satpal, Ramesh Cahander S/o Mangat Ram S/o Kanahia Lal equal part 7 part Kashmiri Lal S/o Kanahia Lal S/o Kalu (8) part 1/2 part.. |
| | | | 140 | 2/2 | Private | Agriculture | 0.0329 | Jaipal Singh S/o Makhmul Singh S/o Lehna Singh Vasideh. |
| | | | 140 | 3 | Private | Agriculture | 0.0759 | Smt. Raj Bala 110/601 Widow Barahm Pal, Manoj equal Part 401/601 Part S/o Kiran Pal S/o Makhmul Singh, Satyajeet S/o Jai Pal S/o Makhmul Singh 90/601 part. |
| | | | 140 | 6/3 | Private | Agriculture | 0.0380 | Smt. Raj Bala 110/601 Widow Barahm Pal, Manoj equal Part 401/601 Part S/o Kiran Pal S/o Makhmul Singh, Satyajeet S/o Jai Pal S/o Makhmul Singh 90/601 part. |
| | | | 140 | 7/1 | Private | Agriculture | 0.0784 | Smt. Raj Bala 110/601 Widow Barahm Pal, Manoj equal Part 401/601 Part S/o Kiran Pal S/o Makhmul Singh, Satyajeet S/o Jai Pal S/o Makhmul Singh 90/601 part. |
| | | | 140 | 8 | Private | Agriculture | 0.0025 | Smt. Raj Bala 110/601 Widow Barahm Pal, Manoj equal Part 401/601 Part S/o Kiran Pal S/o Makhmul Singh, Satyajeet S/o Jai Pal S/o Makhmul Singh 90/601 part. |
| | | | 140 | 6/2 | Private | Agriculture | 0.0630 | Satpal Singh S/o Makhmul Singh S/o Lehna Singh. |
| | | | 140 | 1 | Private | Agriculture | 0.0025 | Nand Kishore S/o Lachman Das S/o Faggu 1/3 part Mahant Ram S/o Kashmiri S/o Mussadi 1/3 part Madan Lal S/o Basheshar S/o Kundan Lal 1/3 Part Vasideh. |
| | | | 130 | 21 | Private | Non Agriculture | 0.0860 | Nand Kishore S/o Lachman Das S/o Faggu 1/3 part Mahant Ram S/o Kashmiri S/o Mussadi 1/3 part Madan Lal S/o Basheshar S/o Kundan Lal 1/3 Part Vasideh. |
| | | | 131 | 25 | Private | Non Agriculture | 0.0877 | Nand Kishore S/o Lachman Das S/o Faggu 1/3 part Mahant Ram S/o Kashmiri S/o Mussadi 1/3 part Madan Lal S/o Basheshar S/o Kundan Lal 1/3 Part Vasideh. |
| | | | 131 | 17 | Private | Agriculture | 0.0708 | Mahant ram S/o Kashmiri Lal S/o Massadi Lal, Ram kumar S/o Nand Kishor S/o Lachman Das, Madan Lal S/o Basheshar Das S/o Kundan each Three Part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|--------------|-----|--------|------------|-----------------|--------|--|
| | | | 131 | 18 | Private | Agriculture | 0.0472 | Mahant ram S/o Kashmini Lal S/o Massadi Lal, Ram kumar S/o Nand Kishor S/o Lachman Das, Madan Lal S/o Basheshar Das S/o Kundan each Three Part. |
| | | | 131 | 24 | Private | Agriculture | 0.0025 | Mahant ram S/o Kashmini Lal S/o Massadi Lal, Ram kumar S/o Nand Kishor S/o Lachman Das, Madan Lal S/o Basheshar Das S/o Kundan each Three Part. |
| | | | 131 | 12/1 | Private | Agriculture | 0.0725 | Sunil Kumar S/o Brij Bhushan S/o Sadhu Ram, Tara Chander S/o Ram Parshad S/o Ramsaran equal Part. |
| | | | 131 | 19 | Private | Agriculture | 0.0025 | Sunil Kumar S/o Brij Bhushan S/o Sadhu Ram, 55/110 Part Tara Chander S/o Ram Parshad S/o Ramsaran 54/110 part Gurcharan Singh S/o Ranjit Singh S/o keshar |
| | | | 131 | 11 | Private | Agriculture | 0.0506 | Ammi Singh S/o ManSingh S/o Chmela Vasideh. |
| | | | 132 | 6 | Private | Agriculture | 0.0337 | Ammi Singh S/o ManSingh S/o Chmela Vasideh. |
| | | | 132 | 15 | Private | Agriculture | 0.0287 | Ammi Singh S/o ManSingh S/o Chmela Vasideh. |
| | | | 132 | 7 | Private | Agriculture | 0.0495 | Smt. Pushpa Rani W/o Om Parksh S/o Aaya Ram 1/2 part Smt. Sroj W/o Seetaram S/o Aaya Ram 1/2 Part. |
| | | | 140 | 2/1 | Government | Non Agriculture | 0.0228 | State Government of Haryana |
| | | | | 193 | Government | Non Agriculture | 0.0354 | State Government of Haryana |
| | | (5) Maujgarh | 26 | 1 | Private | Agriculture | 0.0886 | Harvijay pal Singh, Maniderpal Singh S/o Mohinder Singh S/o Ishar Singh equal part Vasideh. |
| | | | 25 | 5 | Private | Agriculture | 0.0936 | Harvijay pal Singh, Maniderpal Singh S/o Mohinder Singh S/o Ishar Singh equal part Vasideh. |
| | | | 25 | 4 | Private | Agriculture | 0.0025 | Gurdeep Singh, Inderjeet Singh, Jaspal singh S/o Khel Singh S/o Maghar Singh S/o Jodh Singh 40/503 part Mohan Lal S/o Tara Chand S/o Baru Ram 40/503 part Vasideh. |
| | | | 22 | 24/1 | Private | Non Agriculture | 0.1012 | Gurdeep Singh, Inderjeet Singh, Jaspal singh S/o Khel Singh S/o Maghar Singh S/o Jodh Singh 40/503 part Mohan Lal S/o Tara Chand S/o Baru Ram 40/503 part Vasideh. |
| | | | 22 | 23/2 | Private | Agriculture | 0.0961 | Gurdeep Singh, Inderjeet Singh, Jaspal singh S/o Khel Singh S/o Maghar Singh S/o Jodh Singh 40/503 part Mohan Lal S/o Tara Chand S/o Baru Ram 40/503 part Vasideh. |
| | | | 22 | 19/2/2 | Private | Agriculture | 0.0633 | Gurdeep Singh, Inderjeet Singh, Jaspal singh S/o Khel Singh S/o Maghar Singh each Three equal part 4/5 part Budh Singh S/o Gurdit Singh S/o Khel Singh 1/5 part Vasideh. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|--------------------|-----|--------|-----------------|-------------|--------|--|
| | | | 22 | 22/1 | Private | Agriculture | 0.0101 | Gurdeep Singh, Inderjeet Singh, Jaspal Singh S/o Khel Singh S/o Maghar Singh each Three equal part 4/5 part Budh Singh S/o Gurdit Singh S/o Khel Singh 1/5 part Vasideh. |
| | | | 22 | 19/2/1 | Private | Agriculture | 0.0051 | Dalip Singh S/o Sant Singh S/o Gurdit Singh Vasideh. |
| | | | 22 | 20 | Private | Agriculture | 0.0911 | Dalip Singh S/o Sant Singh S/o Gurdit Singh Vasideh. |
| | | | 23 | 8/2 | Government Land | Agriculture | 0.0531 | Gram Panchayat |
| | | | 23 | 9 | Government Land | Agriculture | 0.0810 | Gram Panchayat |
| | | | 23 | 13 | Government Land | Agriculture | 0.0495 | Gram Panchayat |
| | | | 23 | 14 | Government Land | Agriculture | 0.0961 | Gram Panchayat |
| | | | 23 | 15/2 | Government Land | Agriculture | 0.0708 | Gram Panchayat |
| | | | 23 | 16 | Government Land | Agriculture | 0.0278 | Gram Panchayat |
| | | (6) Sajan Majri | 20 | 9 | Government Land | Agriculture | 0.0135 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 20 | 10 | Government Land | Agriculture | 0.0135 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 19 | 4 | Government Land | Agriculture | 0.0127 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 19 | 5 | Government Land | Agriculture | 0.0242 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 19 | 3 | Government Land | Agriculture | 0.0025 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 11 | 20 | Government Land | Agriculture | 0.0455 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 11 | 21 | Government Land | Agriculture | 0.0025 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 11 | 22 | Government Land | Agriculture | 0.0354 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 11 | 23 | Government Land | Agriculture | 0.0127 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 12 | 13 | Government Land | Agriculture | 0.0380 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 12 | 14/1 | Government Land | Agriculture | 0.0388 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 12 | 16 | Government Land | Agriculture | 0.0483 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 12 | 17 | Government Land | Agriculture | 0.0101 | Mushtarka Onwer's Total (2033) Two thousand thirty three part Combined Partner. |
| | | | 12 | 9/2 | Private | Agriculture | 0.0202 | Kandhara Singh S/o Budh Singh S/o Kushal Singh. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|----------------|-----|------|-----------------|-----------------|--------|--|
| | | | 12 | 12 | Private | Agriculture | 0.0177 | Harbans Singh S/o Budh Singh S/o Kushal Singh. Kandhara Singh S/o Budh Singh S/o Kushal Singh. |
| | | | 12 | 10 | Private | Agriculture | 0.0380 | Payara Singh S/o Budh Singh Kushal |
| | | | 33 | 17 | Private | Agriculture | 0.0557 | Smt. Surinder Kaur W/o Kulwant Singh S/o Pyara Singh Residence of Chahal Majra |
| | | | 33 | 16/2 | Private | Agriculture | 0.0684 | Smt. Surinder Kaur W/o Kulwant Singh S/o Pyara Singh Residence of Chahal Majra |
| | | | 33 | 25 | Private | Non Agriculture | 0.0675 | Smt. Surinder Kaur W/o Kulwant Singh S/o Pyara Singh Residence of Chahal Majra |
| | | | 34 | 21 | Private | Agriculture | 0.0810 | Smt. Surinder Kaur W/o Kulwant Singh S/o Pyara Singh Residence of Chahal Majra |
| | | (7) Dadupur | 8 | 10/2 | Government Land | Agriculture | 0.0911 | Panchayat Deh Vasi Deh. |
| | | | 8 | 9/2 | Government Land | Agriculture | 0.0076 | Panchayat Deh Vasi Deh. |
| | | | 8 | 11 | Government Land | Agriculture | 0.0343 | Panchayat Deh Vasi Deh. |
| | | | 8 | 12 | Government Land | Agriculture | 0.3314 | Panchayat Deh Vasi Deh. |
| | | | 8 | 17 | Government Land | Agriculture | 0.0180 | Panchayat Deh Vasi Deh. |
| | | | 8 | 18 | Government Land | Agriculture | 0.3188 | Panchayat Deh Vasi Deh. |
| | | | 8 | 19 | Government Land | Agriculture | 0.2530 | Panchayat Deh Vasi Deh. |
| | | | 8 | 13/1 | Private | Agriculture | 0.1686 | Gardhara Singh, Mukhtiar Singh S/o Vadhava Singh S/o Jwala Singh each Two part equal part residence of Rajoli. |
| | | | 8 | 14/1 | Private | Agriculture | 0.0225 | Jarnail Singh, Harbhjan Singh S/o Darshan Singh S/o Veer Singh each Two equal part 1/4 part Mohinder Singh S/o Veer Singh 3/16 part Surinder Singh S/o Darshan Singh S/o Veer Singh 1/16 part Darshan Singh S/o Veer Singh S/o Rulda 1/2 part Vasideh. |
| | | | 8 | 23 | Private | Agriculture | 0.1720 | Charan Singh S/o Sohan Lal S/o Ganga ram Vasideh. |
| | | | 8 | 21 | Private | Agriculture | 0.0076 | Charan Singh S/o Sohan Lal S/o Ganga ram Vasideh. |
| | | | 8 | 22 | Private | Agriculture | 0.3598 | Roshan Lal, Amarnath S/o Utam Chand S/o Ganga ram each Two equal part Vasideh. |
| | | | 14 | 2 | Private | Agriculture | 0.0177 | Roshan Lal, Amarnath S/o Utam Chand S/o Ganga ram each Two equal part Vasideh. |
| | | | 14 | 3 | Private | Agriculture | 0.0157 | Charan Singh S/o Sohan Lal S/o Ganga ram Vasideh. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 9 | 2 | Private | Agriculture | 0.0202 | Harbhajan Singh, Baljit Singh, Kuljinder Singh S/o Harcharan Singh S/o Madan Singh equal part 3/5 part Harpreet Singh, Jaspreet Singh S/o Smt. Damanpreet Kaur, Ramanpreet Kaur D/o Smt. Jaswinder Kaur Widow Jasvir Singh S/o Harcharan Singh each Five equal part 1/5 part Smt. Ravinder Kaur Widow Tejpal Singh, Sarvpreet Singh S/o Bhupinder Singh S/o Harcharan Singh equal part 1/5 part Vasideh. |
| | | | 9 | 3 | Private | Agriculture | 0.0989 | Harbhajan Singh, Baljit Singh, Kuljinder Singh S/o Harcharan Singh S/o Madan Singh equal part 3/5 part Harpreet Singh, Jaspreet Singh S/o Smt. Damanpreet Kaur, Ramanpreet Kaur D/o Smt. Jaswinder Kaur Widow Jasvir Singh S/o Harcharan Singh each Five equal part 1/5 part Smt. Ravinder Kaur Widow Tejpal Singh, Sarvpreet Singh S/o Bhupinder Singh S/o Harcharan Singh equal part 1/5 part Vasideh. |
| | | | 4 | 22/2 | Private | Agriculture | 0.0742 | Harbhajan Singh, Baljit Singh, Kuljinder Singh S/o Harcharan Singh S/o Madan Singh equal part 3/5 part Harpreet Singh, Jaspreet Singh S/o Smt. Damanpreet Kaur, Ramanpreet Kaur D/o Smt. Jaswinder Kaur Widow Jasvir Singh S/o Harcharan Singh each Five equal part 1/5 part Smt. Ravinder Kaur Widow Tejpal Singh, Sarvpreet Singh S/o Bhupinder Singh S/o Harcharan Singh equal part 1/5 part Vasideh. |
| | | | 9 | 4/2 | Private | Agriculture | 0.0835 | Smt. Gurcharan Kaur W/o Harbhjan Singh S/o Harcharan Singh Residence Brada. |
| | | | 9 | 7/1 | Private | Agriculture | 0.0076 | Smt. Gurcharan Kaur W/o Harbhjan Singh S/o Harcharan Singh Residence Brada. |
| | | | 9 | 65 | Private | Agriculture | 0.0090 | Jagirchand, Baldev raj, Pala ram, Premchand, Balbir chand S/o Bachna ram S/o Giyanu each Five equal part |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|------------------------|-----|------|---------|--------------------|--------|--|
| | | (8) Chahal Majra | 14 | 10/2 | Private | Non Agriculture | 0.0987 | Kabir Singh, Kashmira Singh, Gurdeep Singh, Amrik Singh S/o Smt. Harbans Kaur, Rajwant Kaur, Parkash Kaur D/o Lachman Singh S/o Miha Singh each 7 part equal part 7/9 part Smt. Swaran Kaur Widow Paramjit Singh, Karanjit Singh, S/o Smt. Kanwarjit Kaur, Satvinder Kaur D/o Bakshish Singh S/o Lachman Singh each 5 equal part 1/9 part Narinder Kaur Widow Patvinder Singh, Davinder Singh, Jatinder Singh S/o Smt. Rupinder Kaur, Satvinder Kaur D/o Harbans Singh S/o Lachman Singh each 6 equal Part 1/9 part. |
| | | | 14 | 11 | Private | Agriculture | 0.0304 | Kashmira Singh, Bakshish Singh, Harbans Singh, Gurdeep Singh, Amrik Singh S/o Lachman Singh S/o Miha Singh each 5 equal part. |
| | | | 14 | 12 | Private | Agriculture | 0.1265 | Kashmira Singh, Bakshish Singh, Harbans Singh, Gurdeep Singh, Amrik Singh S/o Lachman Singh S/o Miha Singh each 5 equal part. |
| | | | 14 | 13/2 | Private | Agriculture | 0.0658 | Kashmira Singh, Bakshish Singh, Harbans Singh, Gurdeep Singh, Amrik Singh S/o Lachman Singh S/o Miha Singh each 5 equal part. |
| | | | 14 | 17 | Private | Agriculture | 0.0886 | Kashmira Singh, Bakshish Singh, Harbans Singh, Gurdeep Singh, Amrik Singh S/o Lachman Singh S/o Miha Singh each 5 equal part. |
| | | | 14 | 18 | Private | Agriculture | 0.0708 | Amrik Singh S/o Lachman Singh S/o Mihan Singh. |
| | | | 15 | 3 | Private | Agriculture | 0.0928 | Balbir Singh S/o Jarnail Singh S/o Chmela 1/2 part Kuldeep Singh S/o Karnail Singh S/o Chmela 1/2 part. |
| | | | 15 | 4/2 | Private | Agriculture | 0.0582 | Balbir Singh S/o Jarnail Singh S/o Chmela 1/2 part Kuldeep Singh S/o Karnail Singh S/o Chmela 1/2 part. |
| | | | 15 | 4/3 | Private | Agriculture | 0.0337 | Balbir Singh S/o Jarnail Singh S/o Chmela 1/2 part Kuldeep Singh S/o Karnail Singh S/o Chmela 1/2 part. |
| | | | 15 | 5/3 | Private | Agriculture | 0.0067 | Balbir Singh S/o Jarnail Singh S/o Chmela 1/2 part Kuldeep Singh S/o Karnail Singh S/o Chmela 1/2 part. |
| | | | 15 | 6 | Private | Agriculture | 0.1293 | Balbir Singh S/o Jarnail Singh S/o Chmela 1/2 part Kuldeep Singh S/o Karnail Singh S/o Chmela 1/2 part. |
| | | | 15 | 7/1 | Private | Agriculture | 0.0127 | Balbir Singh S/o Jarnail Singh S/o Chmela 1/2 part Kuldeep Singh S/o Karnail Singh S/o Chmela 1/2 part. |
| | | | 9 | 22 | Private | Agriculture | 0.1189 | Balbir Singh S/o Jarnail Singh S/o Chmela 1/2 part Kuldeep Singh S/o Karnail Singh S/o Chmela 1/2 part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 9 | 23/1 | Private | Agriculture | 0.0380 | Balbir Singh S/o Jarnail Singh S/o Chmela 1/2 part Kuldeep Singh S/o Karnail Singh S/o Chmela 1/2 part. |
| | | | 9 | 20/2 | Private | Agriculture | 0.0810 | Om Parkash, Dinesh Kumar, Sham Parkash, Ram parshad allies Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhu Ram each 3 Part equal part 3/8 part Parveen Kumar, Smt. Sudesh bala W/o Padam Kumar S/o Shivparshad equal part 1/2 part Smt. Sroj bala Widow, Sahil Kumar, Mehul kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 part equal part 1/24 part Veni Parshad Sadhu Ram S/o Ruliyaram 1/2 part. |
| | | | 9 | 21 | Private | Agriculture | 0.0202 | Om Parkash, Dinesh Kumar, Sham Parkash, Ram parshad allies Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhu Ram each 3 Part equal part 3/8 part Parveen Kumar, Smt. Sudesh bala W/o Padam Kumar S/o Shivparshad equal part 1/2 part Smt. Sroj bala Widow, Sahil Kumar, Mehul kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 part equal part 1/24 part Veni Parshad Sadhu Ram S/o Ruliyaram 1/2 part. |
| | | | 8 | 13 | Private | Agriculture | 0.0197 | Om Parkash, Dinesh Kumar, Sham Parkash, Ram parshad allies Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhu Ram each 3 Part equal part 3/8 part Parveen Kumar, Smt. Sudesh bala W/o Padam Kumar S/o Shivparshad equal part 1/2 part Smt. Sroj bala Widow, Sahil Kumar, Mehul kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 part equal part 1/24 part Veni Parshad Sadhu Ram S/o Ruliyaram 1/2 part. |
| | | | 8 | 14 | Private | Agriculture | 0.1037 | Om Parkash, Dinesh Kumar, Sham Parkash, Ram parshad allies Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhu Ram each 3 Part equal part 3/8 part Parveen Kumar, Smt. Sudesh bala W/o Padam Kumar S/o Shivparshad equal part 1/2 part Smt. Sroj bala Widow, Sahil Kumar, Mehul kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 part equal part 1/24 part Veni Parshad Sadhu Ram S/o Ruliyaram 1/2 part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|-----------------|-----------------|--------|--|
| | | | 8 | 15/1 | Private | Agriculture | 0.0354 | Om Parkash, Dinesh Kumar, Sham Parkash, Ram parshad allies Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhu Ram each 3 Part equal part 3/8 part Parveen Kumar, Smt. Sudesh bala W/o Padam Kumar S/o Shivparshad equal part 1/2 part Smt. Sroj bala Widow, Sahil Kumar, Mehul kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 part equal part 1/24 part Veni Parshad Sadhu |
| | | | 8 | 16 | Private | Agriculture | 0.0759 | Om Parkash, Dinesh Kumar, Sham Parkash, Ram parshad allies Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhu Ram each 3 Part equal part 3/8 part Parveen Kumar, Smt. Sudesh bala W/o Padam Kumar S/o Shivparshad equal part 1/2 part Smt. Sroj bala Widow, Sahil Kumar, Mehul kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 part equal part 1/24 part Veni Parshad Sadhu |
| | | | 8 | 8/2 | Private | Agriculture | 0.0854 | Om Parkash, Dinesh Kumar, Sham Parkash, Ram parshad allies Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhu Ram each 3 Part equal part 3/8 part Parveen Kumar, Smt. Sudesh bala W/o Padam Kumar S/o Shivparshad equal part 1/2 part Smt. Sroj bala Widow, Sahil Kumar, Mehul kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 part equal part 1/24 part Veni Parshad Sadhu Ram S/o Ruliyaram 1/2 part. |
| | | | 8 | 9 | Government Land | Non Agriculture | 0.0708 | Panchayat Deh Vasi Deh. |
| | | | | 32 | Private | Agriculture | 0.0127 | Prem Cahand Mandraj Khevat No. 3/1249 Part Tilakraj Mandraj Khevat No. 7/1249 part Smt. Chaman devi Mandraj Khevat No. 261/1249 Tirath Singh S/o Chanda Singh 26/1249 part Mohan Lal, Sohan Lal S/o Smt. Seetavanti, Sumitra, Indra D/o Smt. Jeevan Devi Widow Sunderdas S/o Lachmidas 17/1249 part Harnam Singh etc. Mandraj Khevat No. 2/1249 part Charan Singh, Panna Lal, Atar Singh S/o Genda Mal 8/1249 part Lachmandas, Ramsaran, Kishanlal S/o Kashi Ram S/o Devidyal 5/1249 part Kuldeep Singh, Harbans Singh S/o Santa Singh 5/1249 part Col. Mohinder Singh S/o Mehar Singh S/o Sher Singh 227/1249 part Santokh Singh etc. Mandraj Khevat No. 2/1249 part Central Government 35/1249 part Sohan Singh S/o Thakar Singh S/o |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-------------|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | <p>Aasa Singh 11/1249 part Kuldeep Singh S/o Sant Singh S/o Godhal Singh 7/1249 part Shivram, Premchand S/o Sunder S/o Veera equal part 27/1249 part Jiram S/o Veeru S/o Dolla 27/1249 part Shamsunder S/o Narayan 1/1249 part Rajinder Kumar etc. Mandraj Khevat No.1/1249 part Babu Ram S/o Ram Chander S/o Shiv ram 2/1249 part equal Part 75/4996 part Babu Ram S/o Ganga Ram S/o Shankar 25/4996 Nanak Singh Other's Mandraj Khevat No.33/1249 part Somdutt etc. Mandraj Khevat No. 21/1249 part Jagdish S/o Kundan S/o Bhula 2/3747 Part Shrinivas S/o Baij Nath S/o Kundan 1/3747 Part Vishnu Dutt S/o Aatma ram S/o Kundan 2/3747 part Smt. Shanti Widow Banarsi Das S/o Baij Nath 1/3747 part Vishnu Dutt S/o Aatma Ram S/o Kundan 2/3747 part Mihan, Amarnath, Lachman, Parkash S/o Rur S/o Sakhi equal part 1/2498 part Smt. Bhagirathi Widow Khadku S/o Sakhi 1/2498 part Puran etc. Mandraj Khevat No. 1/1249 part Bhagta S/o Udam S/o Hamira 1/1249 part Jarnail Singh Mandraj Khevat No. 15/1249 part Shivparshad etc. Mandraj Khevat No. 31/1249 part Amrav Singh S/o Jang Singh S/o Teja Singh 1/1249 part</p> |
| | | (9) Tandwal | | 1392 | Private | Agriculture | 0.0687 | <p>Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhuram 243/1152 part Parveen Kumar S/o Padam Kumar S/o Shivparshad 333/2304 part Smt. Srojbala Widow Sahil Kumar, Mohul Kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 equal part 333/2304 Part Veniparshad S/o Sadhu ram S/o Ruliya Ram 1/2 Part.</p> |
| | | | | 1387 | Private | Agriculture | 0.0019 | <p>Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhuram 243/1152 part Parveen Kumar S/o Padam Kumar S/o Shivparshad 333/2304 part Smt. Srojbala Widow Sahil Kumar, Mohul Kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 equal part 333/2304 Part Veniparshad S/o Sadhu ram S/o Ruliya Ram 1/2 Part.</p> |
| | | | | 1395 | Private | Agriculture | 0.0050 | <p>Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhuram 243/1152 part Parveen Kumar S/o Padam Kumar S/o Shivparshad 333/2304 part Smt. Srojbala Widow Sahil Kumar, Mohul Kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 equal part 333/2304 Part Veniparshad S/o Sadhu ram S/o Ruliya Ram 1/2 Part.</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | 1393 | Private | Agriculture | 0.0586 | Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhuram 243/1152 part Parveen Kumar S/o Padam Kumar S/o Shivparshad 333/2304 part Smt. Srojbala Widow Sahil Kumar, Mohul Kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 equal part 333/2304 Part Veniparshad S/o Sadhu ram S/o Ruliya Ram 1/2 Part. |
| | | | | 1396 | Private | Agriculture | 0.0676 | Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhuram 243/1152 part Parveen Kumar S/o Padam Kumar S/o Shivparshad 333/2304 part Smt. Srojbala Widow Sahil Kumar, Mohul Kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 equal part 333/2304 Part Veniparshad S/o Sadhu ram S/o Ruliya Ram 1/2 Part. |
| | | | | 1389 | Private | Agriculture | 0.0151 | Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhuram 243/1152 part Parveen Kumar S/o Padam Kumar S/o Shivparshad 333/2304 part Smt. Srojbala Widow Sahil Kumar, Mohul Kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 equal part 333/2304 Part Veniparshad S/o Sadhu ram S/o Ruliya Ram 1/2 Part. |
| | | | | 1390 | Private | Agriculture | 0.0441 | Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhuram 243/1152 part Parveen Kumar S/o Padam Kumar S/o Shivparshad 333/2304 part Smt. Srojbala Widow Sahil Kumar, Mohul Kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 equal part 333/2304 Part Veniparshad S/o Sadhu ram S/o Ruliya Ram 1/2 Part. |
| | | | | 1405 | Private | Agriculture | 0.0596 | Sham Lal S/o Shivparshad S/o Sadhuram 243/1152 part Parveen Kumar S/o Padam Kumar S/o Shivparshad 333/2304 part Smt. Srojbala Widow Sahil Kumar, Mohul Kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar each 3 equal part 333/2304 Part Veniparshad S/o Sadhu ram S/o Ruliya Ram 1/2 Part. |
| | | | | 1427 | Private | Agriculture | 0.0028 | Isham Singh, Same Singh, Rajkumar, Rajpal Singh, Sahib Singh, Balram Singh S/o Sadhuram S/o Bijaram equal part 1/2 Nisf Smt. Champa Devi Widow, Mehar Singh, Kiranpal Singh S/o Hukam Singh S/o Amar Singh equal part 3/8 part Ajaib Singh, Jagir Singh S/o Kundan Singh S/o Natha Singh equal part 1/8 part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----------------|--------|--|
| | | | | 1406 | Private | Agriculture | 0.0328 | Babu Ram S/o Aatma Ram S/o Baru Ram equal part 2/3 part Sadhu Ram S/o Dwarka 1/3 part Vasideh. |
| | | | | 1407 | Private | Agriculture | 0.0567 | Devraj S/o Punna Ram S/o Nathu Ram Vasideh Kesri. |
| | | | | 1408/2 | Private | Agriculture | 0.0321 | Rajesh S/o Sadhu Ram S/o Nathu Vasideh. |
| | | | | 1410 | Private | Agriculture | 0.0851 | Rajesh S/o Sadhu Ram S/o Nathu Vasideh. |
| | | | | 1411 | Private | Agriculture | 0.0029 | Rajesh S/o Sadhu Ram S/o Nathu Vasideh. |
| | | | | 1412 | Private | Agriculture | 0.0671 | Isham Singh, Same Singh, Rajkumar, Rajpal Singh, Sahib Singh, Balram Singh S/o Sadhuram S/o Bijaram equal part 1/2 Smt. Champa Devi Widow Hem Singh, Kiranpal Singh S/o Hukam Singh S/o Amar Singh 3/8 part Mehar Singh S/o Hukam Singh S/o Amar Singh 85/4008 part Jagir Singh S/o Kundan Singh S/o Nantha Singh 52/501 part. |
| | | | | 1414 | Private | Agriculture | 0.0053 | Isham Singh, Same Singh, Rajkumar, Rajpal Singh, Sahib Singh, Balram Singh S/o Sadhuram S/o Bijaram equal part 1/2 Smt. Champa Devi Widow Hem Singh, Kiranpal Singh S/o Hukam Singh S/o Amar Singh 3/8 part Mehar Singh S/o Hukam Singh S/o Amar Singh 85/4008 part Jagir Singh S/o Kundan Singh S/o Nantha Singh 52/501 part. |
| | | | | 1413 | Private | Agriculture | 0.1342 | Isham Singh, Same Singh, Rajkumar, Rajpal Singh Sahib Singh, Balraj Singh S/o Sadhuram S/o Bija ram equal part 1/2 part, Smt. Champa Devi Widow, Mehar Singh, Hem Singh, Kiranpal |
| | | | | 1454 | Government | Agriculture | 0.1493 | Gram Panchayat |
| | | | | 1455 | Government | Non Agriculture | 0.0691 | Gram Panchayat |
| | | | | 1457 | Government | Non Agriculture | 0.0869 | Gram Panchayat |
| | | | | 1458 | Government | Non Agriculture | 0.0964 | Gram Panchayat |
| | | | | 1358 | Government | Non Agriculture | 0.0134 | Gram Panchayat |
| | | | | 1403 | Government | Non Agriculture | 0.0798 | Gram Panchayat |
| | | | | 1388 | Private | Agriculture | 0.0067 | Shyam Lal S/o Shivparshad S/o Sadhuram 1/5 part Parveen Kumar S/o Padam Kumar S/o Shivparshad 3/20 part Smt. Mohul Kumar Srojbala Widow, Sahil Kumar, Mohul Kumar S/o Vijay Kumar S/o Padam Kumar equal part 3/20 Part Vanniparshad S/o Ruliya Ram 1/2 Nisf. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------------|--------|--|
| | | | | 655 | Private | Non Agriculture | 0.0063 | Phool Singh S/o Thakar Singh S/o Lal Singh 1/3 One third part Harichand, Jai chand S/o Ball Singh S/o Thakar Singh equal part 1/3 One third part Smt. Dropti Devi Widow Natha Singh, Satpal Singh, Ramkanwar, Balkrishan, Sarwan Kumar S/o Smt. Simla Devi D/o Bir Singh S/o Thakar Singh each 1/3 equal part. |
| | | | | 659 | Private | Agriculture | 0.0771 | Phool Singh S/o Thakar Singh S/o Lal Singh 1/3 One third part Harichand, Jai chand S/o Ball Singh S/o Thakar Singh equal part 1/3 One third part Smt. Dropti Devi Widow Natha Singh, Satpal Singh, Ramkanwar, Balkrishan, Sarwan Kumar S/o Smt. Simla Devi D/o Bir Singh S/o Thakar Singh each 1/3 equal part. |
| | | | | 671 | Private | Agriculture | 0.0738 | Phool Singh S/o Thakar Singh S/o Lal Singh 1/3 One third part Harichand, Jai chand S/o Ball Singh S/o Thakar Singh equal part 1/3 One third part Smt. Dropti Devi Widow Natha Singh, Satpal Singh, Ramkanwar, Balkrishan, Sarwan Kumar S/o Smt. Simla Devi D/o Bir Singh S/o Thakar Singh each 1/3 equal part. |
| | | | | 658 | Private | Agriculture | 0.0880 | Phool Singh S/o Thakar Singh S/o Lal Singh 1/3 One third part Harichand, Jai chand S/o Ball Singh S/o Thakar Singh equal part 1/3 One third part Smt. Dropti Devi Widow Natha Singh, Satpal Singh, Ramkanwar, Balkrishan, Sarwan Kumar S/o Smt. Simla Devi D/o Bir Singh S/o Thakar Singh each 1/3 equal part. |
| | | | | 672 | Private | Agriculture | 0.0268 | Phool Singh S/o Thakar Singh S/o Lal Singh 1/3 One third part Harichand, Jai chand S/o Ball Singh S/o Thakar Singh equal part 1/3 One third part Smt. Dropti Devi Widow Natha Singh, Satpal Singh, Ramkanwar, Balkrishan, Sarwan Kumar S/o Smt. Simla Devi D/o Bir Singh S/o Thakar Singh each 1/3 equal part. |
| | | | | 677 | Private | Agriculture | 0.0860 | Phool Singh S/o Thakar Singh S/o Lal Singh 1/3 One third part Harichand, Jai chand S/o Ball Singh S/o Thakar Singh equal part 1/3 One third part Smt. Dropti Devi Widow Natha Singh, Satpal Singh, Ramkanwar, Balkrishan, Sarwan Kumar S/o Smt. Simla Devi D/o Bir Singh S/o Thakar Singh each 1/3 equal part. |
| | | | | 654 | Private | Agriculture | 0.1418 | Phul Singh etc. Majkuran |
| | | | | 657 | Private | Agriculture | 0.0034 | Phul Singh etc. Majkuran |
| | | | | 675 | Private | Agriculture | 0.1308 | Phul Singh etc. Majkuran |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|--------------|-----|-----|-----------------|-----------------|--------|---|
| | | | | 676 | Private | Agriculture | 0.0019 | Phul Singh etc. Majkuran |
| | | | | 688 | Private | Agriculture | 0.0246 | Vishnu Puri, Premuri, Jaipal Puri S/o Balak Puri S/o Kanhiya puri equal part 3/4 part Kailash puri, Karanpuri Kanti Mohanpuri S/o Shanti Puri S/o Kanhiya Puri equal part 1/4 part |
| | | | | 694 | Private | Agriculture | 0.0893 | Somduft, Rajeshwar Dutt S/o Jiwanram S/o Kundan equal part 32/75 part Inderjit Singh, Vikramjit Singh S/o Gurcharan Singh S/o Prem Singh equal part Residence Adhoya (M) 43/75 part. |
| | | | | 708 | Private | Agriculture | 0.0654 | Molad Singh, Madan Singh, Sukhbir Singh S/o Hansraj S/o Bija Ram equal part 3/4 part Suresh Kumar, Omparkash S/o Smt. Shanti Devi Widow Mahipal Singh S/o Hansraj equal part 1/4 part Vasideh. |
| | | (10) Haryoli | | 747 | Private | Agriculture | 0.1409 | Total (5) Part Sispal, Rachpal, Yashpal, S/o Tikka Singh S/o Nasib Singh each Three equal part (1) part Devraj S/o Smt. Shankuntla Devi Widow Babu Singh S/o Nasib Singh each Two equal part (1) Mahabir Singh, Ashok kumar, Rajesh Kumar S/o Harkesh Singh S/o Nasib Singh equal part (1) One Part Sudesh Kumar, Pardeep Kumar Randeep Singh S/o Kehar Singh S/o Nasib Singh each Three equal part (1) part One part Kulwant Singh, Avdesh Kumar, Narender Kumar S/o Roop Singh S/o Nasib Singh each Three equal part(1). |
| | | | | 746 | Private | Agriculture | 0.0969 | Total (5) Part Sispal, Rachpal, Yashpal, S/o Tikka Singh S/o Nasib Singh each Three equal part (1) part Devraj S/o Smt. Shankuntla Devi Widow Babu Singh S/o Nasib Singh each Two equal part (1) Mahabir Singh, Ashok kumar, Rajesh Kumar S/o Harkesh Singh S/o Nasib Singh equal part (1) One Part Sudesh Kumar, Pardeep Kumar Randeep Singh S/o Kehar Singh S/o Nasib Singh each Three equal part (1) part One part Kulwant Singh, Avdesh Kumar, Narender Kumar S/o Roop Singh S/o Nasib Singh each Three equal part(1). |
| | | | | 503 | Government Land | Agriculture | 0.0105 | Combined village |
| | | | | 502 | Government Land | Agriculture | 0.0019 | Combined village |
| | | | | 740 | Government | Agriculture | 0.0019 | Combined village |
| | | | | 741 | Government | Non Agriculture | 0.0205 | Combined village |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|---------------|-----|--------|------------|--------------------|--------|--|
| | | | | 102/2 | Government | Non Agriculture | 0.0327 | Combined village |
| | | | | 105/1 | Government | Non Agriculture | 0.0019 | Haryana State Government |
| | | | | 104/1 | Government | Non Agriculture | 0.0243 | Haryana State Government |
| | | | | 104/2 | Private | Non Agriculture | 0.0084 | Sispal, Richpal, Yashpal, S/o Tikka Singh S/o Nasib Singh equal part. |
| | | | | 46 | Private | Agriculture | 0.0830 | Phool Singh S/o Tara Singh S/o Jawahar Singh, Satpal, Jagpal, Surenderpal S/o Phool Singh S/o Tara Singh equal part. |
| | | (11) Nagla | 19 | 20/2 | Private | Agriculture | 0.0557 | Pirithi Singh, Labh Singh, Gurnam Singh Ishr Singh S/o Surjan Singh S/o Cmela each Four part 1/2 part Angrej Singh, Balbir Singh S/o Sarwan Singh S/o Cmela equal part 1/3 part Mohit S/o Randhir Singh S/o Sarwan Singh 1/6 part. |
| | | | 19 | 21/2 | Private | Agriculture | 0.0866 | Pirithi Singh, Labh Singh, Gurnam Singh Ishr Singh S/o Surjan Singh S/o Cmela each Four part 1/2 part Angrej Singh, Balbir Singh S/o Sarwan Singh S/o Cmela equal part 1/3 part Mohit S/o Randhir Singh S/o Sarwan Singh 1/6 part. |
| | | | 18 | 14/2/2 | Private | Agriculture | 0.0382 | Pirithi Singh, Labh Singh, Gurnam Singh Ishr Singh S/o Surjan Singh S/o Cmela each Four part 1/2 part Angrej Singh, Balbir Singh S/o Sarwan Singh S/o Cmela equal part 1/3 part Mohit S/o Randhir Singh S/o Sarwan Singh 1/6 part. |
| | | | 18 | 14/3 | Private | Agriculture | 0.0025 | Pirithi Singh, Labh Singh, Gurnam Singh Ishr Singh S/o Surjan Singh S/o Cmela each Four part 1/2 part Angrej Singh, Balbir Singh S/o Sarwan Singh S/o Cmela equal part 1/3 part Mohit S/o Randhir Singh S/o Sarwan Singh 1/6 part. |
| | | | 18 | 15/2 | Private | Agriculture | 0.0888 | Pirithi Singh, Labh Singh, Gurnam Singh Ishr Singh S/o Surjan Singh S/o Cmela each Four part 1/2 part Angrej Singh, Balbir Singh S/o Sarwan Singh S/o Cmela equal part 1/3 part Mohit S/o Randhir Singh S/o Sarwan Singh 1/6 part. |
| | | | 18 | 16/2 | Private | Agriculture | 0.2024 | Pirithi Singh, Labh Singh, Gurnam Singh Ishr Singh S/o Surjan Singh S/o Cmela each Four part 1/2 part Angrej Singh, Balbir Singh S/o Sarwan Singh S/o Cmela equal part 1/3 part Mohit S/o Randhir Singh S/o Sarwan Singh 1/6 part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|------------|-----------------|--------|---|
| | | | 18 | 17 | Private | Agriculture | 0.0112 | Pirithi Singh, Labh Singh, Gurnam Singh Ishr Singh S/o Surjan Singh S/o Cmela each Four part 1/2 part Angrej Singh, Balbir Singh S/o Sarwan Singh S/o Cmela equal part 1/3 part Mohit S/o Randhir Singh S/o Sarwan Singh 1/6 part. |
| | | | 18 | 25 | Private | Agriculture | 0.0025 | Pirithi Singh, Labh Singh, Gurnam Singh Ishr Singh S/o Surjan Singh S/o Cmela each Four part 1/2 part Angrej Singh, Balbir Singh S/o Sarwan Singh S/o Cmela equal part 1/3 part Mohit S/o Randhir Singh S/o Sarwan Singh 1/6 part. |
| | | | 19 | 20/1 | Government | Non Agriculture | 0.0472 | Haryana State Government |
| | | | 19 | 21/1 | Government | Non Agriculture | 0.0051 | Haryana State Government |
| | | | 19 | 23/1 | Government | Non Agriculture | 0.0067 | Haryana State Government |
| | | | 8 | 21/2 | Private | Agriculture | 0.1214 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o Inderdev S/o Jagdish Chander Resi. 860 Urban Estate Ambala City Meena W/o Vinay S/o Satparkash Resi. of #195 Sanik Vihar - Pritam Pura New Delhi equal Part 369/1892. |
| | | | 18 | 1/1 | Private | Agriculture | 0.1816 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o Inderdev S/o Jagdish Chander Resi. 860 Urban Estate Ambala City Meena W/o Vinay S/o Satparkash Resi. of #195 Sanik Vihar - Pritam Pura New Delhi equal Part 369/1892. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|--------|--|
| | | | 18 | 1/2 | Private | Agriculture | 0.0025 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o Inderdev S/o Jagdish Chander Resi. 860 Urban Estate Ambala City Meena W/o Vinay S/o Satparkash Resi. of #195 Sanik Vihar - Pritam Pura New Delhi equal Part 369/1892. |
| | | | 18 | 2/2 | Private | Agriculture | 0.2361 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o Inderdev S/o Jagdish Chander Resi. 860 Urban Estate Ambala City Meena W/o Vinay S/o Satparkash Resi. of #195 Sanik Vihar - Pritam Pura New Delhi equal Part 369/1892. |
| | | | 18 | 8/2 | Private | Agriculture | 0.2361 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o Inderdev S/o Jagdish Chander Resi. 860 Urban Estate Ambala City Meena W/o Vinay S/o Satparkash Resi. of #195 Sanik Vihar - Pritam Pura New Delhi equal Part 369/1892. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|--------|---|
| | | | 18 | 9 | Private | Agriculture | 0.1389 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o Inderdev S/o Jagdish Chander Resi. 860 Urban Estate Ambala City Meena W/o Vinay S/o Satparkash Resi. of #195 Sanik Vihar - Pritam Pura New Delhi equal Part 369/1892. |
| | | | 18 | 10 | Private | Agriculture | 0.0025 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o Inderdev S/o Jagdish Chander Resi. 860 Urban Estate Ambala City Meena W/o Vinay S/o Satparkash Resi. of #195 Sanik Vihar - Pritam Pura New Delhi equal Part 369/1892. |
| | | | 18 | 13 | Private | Agriculture | 0.0731 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o Inderdev S/o Jagdish Chander Resi. 860 Urban Estate Ambala City Meena W/o Vinay S/o Satparkash Resi. of #195 Sanik Vihar - Pritam Pura New Delhi equal Part 369/1892. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|--------|----------------|-----------------|--------|---|
| | | | 18 | 14/1/2 | Private | Agriculture | 0.1001 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o Inderdev S/o Jagdish Chander Resi. 860 Urban Estate Ambala City Meena W/o Vinay S/o Satparkash Resi. of #195 Sanik Vihar - Pritam Pura New Delhi equal Part 369/1892. |
| | | | 18 | 27 | Private | Agriculture | 0.0928 | Gurdev Singh S/o Sarup Singh S/o Gurdit Singh 313/1892 part Harshdeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Tara Singh 946/1892 part Smt. Kusam W/o Sawrup Lal S/o B.D. Agarwal, Adarsh S/o Anand S/o Umarav Singh Residence of Rai Market Ambala Cantt equal part 194/1982 part Smt. Rajrani D/o B.D. Agarwal S/o Radhakrishan Residence #144/B.C Bazar Amabal Cantt 70/1892 part Smt. Indu W/o |
| | | | 18 | 3/2 | Private | Agriculture | 0.0067 | Davinderpal Singh, Iqbal Singh S/o Bhagwan Singh S/o Puran Singh. |
| | | | 18 | 15/1 | Government | Non Agriculture | 0.0382 | Haryana State Government |
| | | | 18 | 16/1 | Government | Non Agriculture | 0.0090 | Haryana State Government |
| | | | 18 | 2/1 | Government | Non Agriculture | 0.0065 | Haryana State Government |
| | | | 18 | 8/1 | Government | Non Agriculture | 0.0214 | Haryana State Government |
| | | | 18 | 14/2/1 | Government | Non Agriculture | 0.0079 | Haryana State Government |
| | | | 18 | 7/1 | Government | Non Agriculture | 0.0394 | Haryana State Government |
| | | | 18 | 56 | Gram Panchayat | Non Agriculture | 0.0292 | Gram Panchayat |
| | | | 17 | 5/1 | Government | Non Agriculture | 0.0157 | Haryana State Government |
| | | | 9 | 25/1/1 | Government | Agriculture | 0.1574 | Haryana State Government |
| | | | 9 | 56/1 | Government | Non Agriculture | 0.4441 | Haryana State Government |
| | | | 9 | 25/2 | Government | Non Agriculture | 0.0585 | Haryana State Government |
| | | | 9 | 56/2 | Government | Non Agriculture | 0.4452 | Haryana State Government |
| | | | 9 | 17 | Private | Agriculture | 0.1102 | Gurdev Singh (3) part Gurmail Singh (1) S/o Smt. Gurdev Kaur, Nachtar Kaur, Aaki, D/o Desraj S/o Aaki Rulia each Three equal part (6) part Total |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|--------|---------|--------------|--------|---|
| | | | 9 | 24 | Private | Agriculture | 0.0337 | Gurdev Singh (3) part Gurmail Singh (1) S/o Smt. Gurdev Kaur, Nachtar Kaur, Aaki, D/o Desraj S/o Aaki Rulia each Three equal part (6) part Total (10) part. |
| | | | 9 | 25/1/2 | Private | Agriculture | 0.1417 | Gurdev Singh (3) part Gurmail Singh (1) S/o Smt. Gurdev Kaur, Nachtar Kaur, Aaki, D/o Desraj S/o Aaki Rulia each Three equal part (6) part Total (10) part. |
| | | | 9 | 9 | Private | Agriculture | 0.0922 | Ranjodh Singh S/o Naurata S/o Munshi. |
| | | | 9 | 13 | Private | Agriculture | 0.0925 | Ranjodh Singh S/o Naurata S/o Munshi. |
| | | | 9 | 18 | Private | Agriculture | 0.0025 | Ranjodh Singh S/o Naurata S/o Munshi. |
| | | | 9 | 10 | Private | Agriculture | 0.1102 | Harnek Singh S/o Surjit Singh S/o Naurata 27/1014 part Nayab Singh S/o Surjit Singh S/o Naurata 507/1014 part Narata ram, Ramkaran S/o Girdhari Lal S/o Jiwan ram equal part 2/3 part Amardeep S/o Baldev raj S/o Jiwan ram 1/3 part 500/1014 part. |
| | | | 9 | 12 | Private | Agriculture | 0.0146 | Harnek Singh, Nayab Singh S/o Surjit Singh S/o Naurata Singh equal part. Ranjodh Singh S/o Naurata S/o Munshi. |
| | | | 10 | 4 | Private | Agriculture | 0.0025 | Mushatrka Owner Possession Khewat var. |
| | | | 10 | 5 | Private | Water supply | 0.1079 | Mushatrka Owner Possession Khewat var. |
| | | | | 236 | Private | Agriculture | 0.0084 | Mushatrka Owner Possession Khewat var. |
| | | | 2 | 24 | Private | Agriculture | 0.1214 | Mushatrka Owner Possession Khewat |
| | | | 2 | 11 | Private | Agriculture | 0.0025 | Smt. Purni D/o Ram Kishan Niwasa Smt. Nihali |
| | | | 2 | 18/2 | Private | Agriculture | 0.0394 | Smt. Purni D/o Ram Kishan Niwasa Smt. Nihali |
| | | | 2 | 19/1 | Private | Agriculture | 0.0534 | Smt. Purni D/o Ram Kishan Niwasa Smt. Nihali |
| | | | 2 | 19/2 | Private | Agriculture | 0.0843 | Smt. Purni D/o Ram Kishan Niwasa Smt. Nihali |
| | | | 2 | 18/1 | Private | Agriculture | 0.0562 | Jaipal Singh, Vinod Kumar, Pritpal Singh S/o Rajinder Singh S/o Basant Singh each Three equal part 756/6760 part Sanjay Singh, Sohan Singh S/o Naryan Singh S/o Rajinder Singh equal part 252/6760 part Tejbir Singh S/o Satpal Residence of Ghasitpur 252/2760 part Brij Bhushan Jang Bahadur, Sahib Singh S/o Smt. Murti Devi widow Mahipal Singh S/o Bsant Singh each Four part equal part 275/1352 part Ghansham Singh, Shishpal Singh equal part 68/1352 part S/o Basant Singh S/o Punjab Singh, Vijay Singh S/o Jagpal Singh S/o Chatar Singh, Smt. Reeta D/o Jagdish S/o Chatar Singh equal part 482/1352 part equal part Resi. Ghasitpur Gurnam Singh, Krishan Lal Barkha |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-------------------|-----|------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | 2 | 23 | Private | Agriculture | 0.0067 | Jaipal Singh, Vinod Kumar, Pritpal Singh S/o Rajinder Singh S/o Basant Singh each Three equal part 756/6760 part Sanjay Singh, Sohan Singh S/o Naryan Singh S/o Rajinder Singh equal part 252/6760 part Tejbir Singh S/o Satpal Residence of Ghasitpur 252/2760 part Brij Bhushan Jang Bahadur, Sahib Singh S/o Smt. Murti Devi widow Mahipal Singh S/o Bsant Singh each Four part equal part 275/1352 part Ghansham Singh, Shishpal Singh equal part 68/1352 part S/o Basant Singh S/o Punjab Singh, Vijay Singh S/o Jagpal Singh S/o Chatar Singh, Smt. Reeta D/o Jagdish S/o Chatar Singh equal part 482/1352 part equal part Resi. Ghasitpur Gumam Singh, Krishan Lal Barkha Ram, Ravinder Kumar S/o Kanshi Ram S/o Jamna, Ramtar Four part 275/1352 part Residence of Village Haldari. Smt. Purni D/o Ramkrishan Niwasa Smt. Nihali. |
| | | (12) Ghasitpur | 21 | 3 | Private | Agriculture | 0.0540 | ManPhool Singh S/o Harkesh Singh S/o Chanan Singh. |
| | | | 21 | 4 | Private | Agriculture | 0.1181 | ManPhool Singh S/o Harkesh Singh S/o Chanan Singh. |
| | | | 21 | 5/2 | Private | Agriculture | 0.0084 | ManPhool Singh S/o Harkesh Singh S/o Chanan Singh. |
| | | | 21 | 6 | Private | Agriculture | 0.1417 | ManPhool Singh S/o Harkesh Singh S/o Chanan Singh. |
| | | | 21 | 7 | Private | Agriculture | 0.0112 | ManPhool Singh S/o Harkesh Singh S/o Chanan Singh. |
| | | | 13 | 22 | Private | Agriculture | 0.0809 | ManPhool Singh S/o Harkesh Singh S/o Chanan Singh. |
| | | | 13 | 23/1 | Private | Agriculture | 0.0899 | ManPhool Singh S/o Harkesh Singh S/o Chanan Singh. |
| | | | 13 | 19/2 | Private | Non Agriculture | 0.0405 | Shivkumar S/o Smt. Sharfi Devi, Sroj bala D/o Pritam Singh S/o Kehar Singh equal Part 1/3 part Jagpal Singh, Kuldeep Singh S/o Smt. Nawaldeh Widow Genda S/o Kehar Singh equal part 1/3 part Gendi D/o Kehar Singh S/o Ram Singh 1/3 part Bhag Dar 1/5 part Kulwant Singh, Phool Singh S/o Smt. Leelavati D/o Hansraj S/o Ram Singh Smt. Kelavati Widow Shmsher Singh S/o Hansraj equal part 1/5 part, Kreshan S/o Smt. Kreshni, Usha D/o Surjan Singh S/o Ram Singh equal part 1/5 part Raj Kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh equal 1/5 Part Raj kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh 1/5 part Madan Singh S/o Ranjor Singh S/o Ram Singh 300 part Vinod Kumar S/o Rahan 36 Part Veela Rahan 41 part Smt. Renu Smt. Geeta Devi equal part 76 part Rahnan D/o Vikas 77 part S/o Mahaveer Singh S/o RanJor Singh 1/5 part Ude, Karm Chand S/o Pala Ram S/o Vaisakhi Ram Murtdam. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 13 | 11/1 | Private | Agriculture | 0.0112 | Shivkumar S/o Smt. Sharfi Devi, Sroj bala D/o Pritam Singh S/o Kehar Singh equal Part 1/3 part Jagpal Singh, Kuldeep Singh S/o Smt. Nawalkeh Widow Genda S/o Kehar Singh equal part 1/3 part Gendi D/o Kehar Singh S/o Ram Singh 1/3 part Bhag Dar 1/5 part Kulwant Singh, Phool Singh S/o Smt. Leelavati D/o Hansraj S/o Ram Singh Smt. Kelavati Widow Shmsher Singh S/o Hansraj equal part 1/5 part, Kreshan S/o Smt. Kreshni, Usha D/o Surjan Singh S/o Ram Singh equal part 1/5 part Raj Kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh equal 1/5 Part Raj kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh 1/5 part Madan Singh S/o Ranjor Singh S/o Ram Singh 300 part Vinod Kumar S/o Rahan 36 Part Veela Rahan 41 part Smt. Renu Smt. Geeta Devi equal part 76 part Rahnan D/o Vikas 77 part S/o Mahaveer Singh S/o RanJor Singh 1/5 part Ude, Karm Chand S/o Pala Ram S/o Vaisakhi Ram Murtdam. |
| | | | 13 | 20 | Private | Agriculture | 0.0708 | Shivkumar S/o Smt. Sharfi Devi, Sroj bala D/o Pritam Singh S/o Kehar Singh equal Part 1/3 part Jagpal Singh, Kuldeep Singh S/o Smt. Nawalkeh Widow Genda S/o Kehar Singh equal part 1/3 part Gendi D/o Kehar Singh S/o Ram Singh 1/3 part Bhag Dar 1/5 part Kulwant Singh, Phool Singh S/o Smt. Leelavati D/o Hansraj S/o Ram Singh Smt. Kelavati Widow Shmsher Singh S/o Hansraj equal part 1/5 part, Kreshan S/o Smt. Kreshni, Usha D/o Surjan Singh S/o Ram Singh equal part 1/5 part Raj Kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh equal 1/5 Part Raj kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh 1/5 part Madan Singh S/o Ranjor Singh S/o Ram Singh 300 part Vinod Kumar S/o Rahan 36 Part Veela Rahan 41 part Smt. Renu Smt. Geeta Devi equal part 76 part Rahnan D/o Vikas 77 part S/o Mahaveer Singh S/o RanJor Singh 1/5 part Ude, Karm Chand S/o Pala Ram S/o Vaisakhi Ram Murtdarn. |
| | | | 12 | 14 | Private | Agriculture | 0.0090 | Shivkumar S/o Smt. Sharfi Devi, Sroj bala D/o Pritam Singh S/o Kehar Singh equal Part 1/3 part Jagpal Singh, Kuldeep Singh S/o Smt. Nawalkeh Widow Genda S/o Kehar Singh equal part 1/3 part Gendi D/o Kehar Singh S/o Ram Singh 1/3 part Bhag Dar 1/5 part Kulwant Singh, Phool Singh S/o Smt. Leelavati D/o Hansraj S/o Ram Singh Smt. Kelavati Widow Shmsher Singh S/o Hansraj equal part 1/5 part, Kreshan S/o Smt. Kreshni, Usha D/o Surjan Singh S/o Ram Singh equal part 1/5 part Raj Kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh equal 1/5 Part Raj kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh 1/5 part Madan Singh S/o |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | Ranjor Singh S/o Ram Singh 300 part Vinod Kumar S/o Rahan 36 Part Veela Rahan 41 part Smt. Renu Smt. Geeta Devi equal part 76 part Rahnan D/o Vikas 77 part S/o Mahaveer Singh S/o RanJor Singh 1/5 part Ude, Karm Chand S/o Pala Ram S/o Vaisakhi Ram Murtdarn. |
| | | | 12 | 15 | Private | Agriculture | 0.0540 | Shivkumar S/o Smt. Sharfi Devi, Sroj bala D/o Pritam Singh S/o Kehar Singh equal Part 1/3 part Jagpal Singh, Kuldeep Singh S/o Smt. Nawaldeh Widow Genda S/o Kehar Singh equal part 1/3 part Gendi D/o Kehar Singh S/o Ram Singh 1/3 part Bhag Dar 1/5 part Kulwant Singh, Phool Singh S/o Smt. Leelavati D/o Hansraj S/o Ram Singh Smt. Kelavati Widow Shmsher Singh S/o Hansraj equal part 1/5 part, Kreshan S/o Smt. Kreshni, Usha D/o Surjan Singh S/o Ram Singh equal part 1/5 part Raj Kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh equal 1/5 Part Raj kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh 1/5 part Madan Singh S/o Ranjor Singh S/o Ram Singh 300 part Vinod Kumar S/o Rahan 36 Part Veela Rahan 41 part Smt. Renu Smt. Geeta Devi equal part 76 part Rahnan D/o Vikas 77 part S/o Mahaveer Singh S/o RanJor Singh 1/5 part Ude, Karm Chand S/o Pala Ram S/o Vaisakhi Ram Murtdarn. |
| | | | 12 | 16 | Private | Agriculture | 0.0025 | Shivkumar S/o Smt. Sharfi Devi, Sroj bala D/o Pritam Singh S/o Kehar Singh equal Part 1/3 part Jagpal Singh, Kuldeep Singh S/o Smt. Nawaldeh Widow Genda S/o Kehar Singh equal part 1/3 part Gendi D/o Kehar Singh S/o Ram Singh 1/3 part Bhag Dar 1/5 part Kulwant Singh, Phool Singh S/o Smt. Leelavati D/o Hansraj S/o Ram Singh Smt. Kelavati Widow Shmsher Singh S/o Hansraj equal part 1/5 part, Kreshan S/o Smt. Kreshni, Usha D/o Surjan Singh S/o Ram Singh equal part 1/5 part Raj Kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh equal 1/5 Part Raj kumar S/o Chota Singh S/o Ram Singh 1/5 part Madan Singh S/o Ranjor Singh S/o Ram Singh 300 part Vinod Kumar S/o Rahan 36 Part Veela Rahan 41 part Smt. Renu Smt. Geeta Devi equal part 76 part Rahnan D/o Vikas 77 part S/o Mahaveer Singh S/o RanJor Singh 1/5 part Ude, Karm Chand S/o Pala Ram S/o Vaisakhi Ram Murtdarn. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----------------|-----------|-----|----------|----------------|-------------|--------|--|
| | | | 12 | 2 | Private | Agriculture | 0.0275 | Udeye Singh S/o Rup Singh S/o Gazay Singh 1/5 part Harbir Singh S/o Karanbir Singh 1/5 part Hemraj S/o Subash chander S/o rup Singh 1/5 part Partap Singh, Shakti Singh S/o Satbir Singh Sambhag Singh 1/5 Part Ravinder Pal, Vijay Singh S/o Jasbir Singh equal part 1/5 part. |
| | | | 12 | 3/1 | Private | Agriculture | 0.0202 | Udeye Singh S/o Rup Singh S/o Gazay Singh 1/5 part Harbir Singh S/o Karanbir Singh 1/5 part Hemraj S/o Subash chander S/o rup Singh 1/5 part Partap Singh, Shakti Singh S/o Satbir Singh Sambhag Singh 1/5 Part Ravinder Pal, Vijay Singh S/o Jasbir Singh equal part 1/5 part. |
| | | | 12 | 7/2 | Private | Agriculture | 0.0450 | Udeye Singh S/o Rup Singh S/o Gazay Singh 1/5 part Harbir Singh S/o Karanbir Singh 1/5 part Hemraj S/o Subash chander S/o rup Singh 1/5 part Partap Singh, Shakti Singh S/o Satbir Singh Sambhag Singh 1/5 Part Ravinder Pal, Vijay, Singh S/o Jasbir Singh equal part 1/5 part. |
| | | | 12 | 8 | Private | Agriculture | 0.0270 | Udeye Singh S/o Rup Singh S/o Gazay Singh 1/5 part Harbir Singh S/o Karanbir Singh 1/5 part Hemraj S/o Subash chander S/o rup Singh 1/5 part Partap Singh, Shakti Singh S/o Satbir Singh Sambhag Singh 1/5 Part Ravinder Pal, Vijay Singh S/o Jasbir Singh equal part 1/5 part. |
| | | | 13 | 44 | Gram Panchayat | Agriculture | 0.4216 | Gram Panchayat |
| 2 | Sub Tehsil Sahi | (1) Beeta | | Way | Government | Agriculture | 0.0064 | Centre Government |
| | | | | 3269 | Private | Agriculture | 0.0025 | Lalit kumar, Parbhat Kumar S/o Sohan Singh S/o Mukandi Lal equal part Residence of Village Nagla Onwer Possession Chatar Singh etc. villagers combined partners. |
| | | | | 3270/2 | Private | Agriculture | 0.0039 | Lalit kumar, Parbhat Kumar S/o Sohan Singh S/o Mukandi Lal equal part Residence of Village Nagla Onwer Possession Chatar Singh etc. villagers combined partners. |
| | | | | 3272 | Private | Agriculture | 0.0244 | Lalit kumar, Parbhat Kumar S/o Sohan Singh S/o Mukandi Lal equal part Residence of Village Nagla Onwer Possession Chatar Singh etc. villagers combined partners. |
| | | | | 3274/2 | Private | Agriculture | 0.0384 | Panchayat Deh Vasi Deh. |
| | | | | 3265/2/1 | Private | Agriculture | 0.0352 | Pritam Singh, Raj pal Singh, Hem singh S/o Kadam Singh S/o Prithi Singh equal part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-------------|-----|--------|------------|-------------|--------|--|
| | | | | 3271/2 | Private | Agriculture | 0.0113 | Pritam Singh, Raj pal Singh, Hem singh S/o Kadam Singh S/o Prithi Singh equal part. |
| | | | | 3271/3 | Private | Agriculture | 0.0093 | Pritam Singh, Raj pal Singh, Hem singh S/o Kadam Singh S/o Prithi Singh equal part. |
| | | | | 3271/1 | Government | Way | 0.0123 | Haryana State Government |
| | | | | 3263 | Private | Agriculture | 0.0181 | Shishpal, Jaspal S/o Sher Singh S/o Heera Singh 1/2 part Malkan Kamal Mohan Lal S/o Jeevan Das S/o Nirmal Das 1/6 part Davinder Singh S/o Mani Ram S/o Tulsi Ram 1/3 part Onwer Possession Smt. Chandervati Widow Dharampal Singh S/o Balbir Singh Smt. Vidya vati Widow Rahat singh S/o Balbir Singh, Vishpal Singh equal part 1/2 part combined partners Prem Singh, Balbir Singh S/o Heera Singh. |
| | | | | 3261 | Private | Agriculture | 0.0028 | Roshan Lal, Ramswarup, Jaipal, Baljeet, Jasveer S/o Puran Chand S/o Altu Ram Onwer Possession Ajsare Patti Badan. |
| | | (2) Haldari | 2 | 25/1 | Government | Agriculture | 0.0025 | Centre Government |
| | | (3) Dhurala | | 93 | Government | Agriculture | 0.0051 | Haryana State Government |
| | | | | 75 | Private | Agriculture | 0.0254 | Mushatrka 36900 part Jail Smt. Dalipo Widow etc. |
| | | | | 79 | Private | Agriculture | 0.0622 | Mushatrka 36900 part Jail Smt. Dalipo Widow etc. |
| | | | 37 | 18 | Private | Agriculture | 0.0726 | Surinder Singh S/o Pal Singh Anokha Singh 1/2 Nisf Sahabjeet Singh S/o Smt. Manjeet Kaur Widow Arpanjit Kaur D/o Gurminder Singh S/o Pal Singh each Three equal part 1/2 part. |
| | | | 37 | 12 | Private | Agriculture | 0.0705 | Smt. Tej Kaur 1/4 part Widow Paritam Singh, Kuldip Singh equal part 1/4 part S/o Nasib Singh S/o Bakshi Ram, Jagir Singh Gurnam Singh S/o Desraj S/o Maya Ram equal part 1/3 part Amarjeet Singh, Baljeet Singh S/o Smt. Shri Kaur Sampuran Singh S/o Desraj each Three part 1/6 part. |
| | | | 37 | 11 | Private | Agriculture | 0.0025 | Smt. Tej Kaur 1/4 part Widow Paritam Singh, Kuldip Singh equal part 1/4 part S/o Nasib Singh S/o Bakshi Ram, Jagir Singh Gurnam Singh S/o Desraj S/o Maya Ram equal part 1/3 part Amarjeet Singh, Baljeet Singh S/o Smt. Shri Kaur Sampuran Singh S/o Desraj each Three part 1/6 part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 37 | 10 | Private | Agriculture | 0.0877 | Smt. Tej Kaur 1/4 part Widow Paritam Singh, Kuldip Singh equal part 1/4 part S/o Nasib Singh S/o Bakshi Ram, Jagir Singh Gurnam Singh S/o Desraj S/o Maya Ram equal part 1/3 part Amarjeet Singh, Baljeet Singh S/o Smt. Shri Kaur Sampuran Singh S/o Desraj each Three part 1/6 part. |
| | | | 38 | 5/1 | Private | Agriculture | 0.0696 | Smt. Tej Kaur 1/4 part Widow Paritam Singh, Kuldip Singh equal part 1/4 part S/o Nasib Singh S/o Bakshi Ram, Jagir Singh Gurnam Singh S/o Desraj S/o Maya Ram equal part 1/3 part Amarjeet Singh, Baljeet Singh S/o Smt. Shri Kaur Sampuran Singh S/o Desraj each Three part 1/6 part. |
| | | | 38 | 6 | Private | Agriculture | 0.0175 | Smt. Tej Kaur 1/4 part Widow Paritam Singh, Kuldip Singh equal part 1/4 part S/o Nasib Singh S/o Bakshi Ram, Jagir Singh Gurnam Singh S/o Desraj S/o Maya Ram equal part 1/3 part Amarjeet Singh, Baljeet Singh S/o Smt. Shri Kaur Sampuran Singh S/o Desraj each Three part 1/6 part. |
| | | | 38 | 4 | Private | Agriculture | 0.0391 | Gurdit Singh S/o Sampuran Singh S/o Veer Singh, Onwer Possession 1/6 part Balwinder Singh S/o Gurmail Singh S/o Ajmer Singh, Ravinder Singh S/o Ajmer Singh S/o Ratan Singh equal Part 5/6 part. |
| | | | 28 | 24/1 | Private | Agriculture | 0.0392 | Gurdit Singh S/o Sampuran Singh S/o Veer Singh, Onwer Possession 1/6 part Balwinder Singh S/o Gurmail Singh S/o Ajmer Singh, Ravinder Singh S/o Ajmer Singh S/o Ratan Singh equal Part 5/6 part. |
| | | | 28 | 11 | Private | Agriculture | 0.0521 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 28 | 19 | Private | Agriculture | 0.0658 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 28 | 20 | Private | Agriculture | 0.0117 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 28 | 23 | Private | Agriculture | 0.0711 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 27 | 15 | Private | Agriculture | 0.0302 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 27 | 6 | Private | Agriculture | 0.0393 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 27 | 7/1 | Private | Agriculture | 0.0483 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 23 | 14 | Private | Agriculture | 0.0941 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 23 | 13/2 | Private | Agriculture | 0.0025 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 23 | 8 | Private | Agriculture | 0.1117 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 23 | 9 | Private | Agriculture | 0.0136 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 23 | 2 | Private | Agriculture | 0.0288 | Chanda Singh, Pritam Singh, Jeet Singh, Pal Singh S/o Govind Singh S/o Rajaram each Four equal part. |
| | | | 27 | 7/2 | Private | Agriculture | 0.0324 | Bahadur Singh S/o Ishwar Singh each equal part 1/4 part Shiv Charran Singh S/o Gurdev Singh S/o Ishwar Singh 1/4 part Dyal Singh ,Aungrej Singh S/o Ishwar Singh S/o Tulsi equal part 1/2 part. |
| | | | 27 | 3 | Private | Agriculture | 0.0845 | Bahadur Singh S/o Ishwar Singh each equal part 1/4 part Shiv Charran Singh S/o Gurdev Singh S/o Ishwar Singh 1/4 part Dyal Singh ,Aungrej Singh S/o Ishwar Singh S/o Tulsi equal part 1/2 part. |
| | | | 27 | 2 | Private | Agriculture | 0.0025 | Bahadur Singh S/o Ishwar Singh each equal part 1/4 part Shiv Charran Singh S/o Gurdev Singh S/o Ishwar Singh 1/4 part Dyal Singh ,Aungrej Singh S/o Ishwar Singh S/o Tulsi equal part 1/2 part. |
| | | | 22 | 22/1 | Private | Agriculture | 0.0087 | Bahadur Singh, Majkuran Rehanan Smt. Sayo D/o Smt. Kishni Widow Budha Murtihan Veela part r |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----------------|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 22 | 20 | Private | Agriculture | 0.0651 | Bahadur Singh, Gurcharan Singh, Surinder Singh, Baljit Singh S/o Hari Singh S/o Ishvar Singh each Four equal part 1/4 part Shiv Charan Singh S/o Gurdev Singh S/o Ishhwar Singh 1/4 part Dyal Singh, Aungrej Singh S/o Ishwar Singh S/o Tulsi equal part 1/2 part. |
| | | | 22 | 21 | Private | Agriculture | 0.0281 | Bahadur Singh, Gurcharan Singh, Surinder Singh, Baljit Singh S/o Hari Singh S/o Ishvar Singh each Four equal part 1/4 part Shiv Charan Singh S/o Gurdev Singh S/o Ishhwar Singh 1/4 part Dyal Singh, Aungrej Singh S/o Ishwar Singh S/o Tulsi equal part 1/2 part. |
| | | | 22 | 22/2 | Private | Agriculture | 0.0858 | Bahadur Singh, Gurcharan Singh, Surinder Singh, Baljit Singh S/o Hari Singh S/o Ishvar Singh each Four equal part 1/4 part Shiv Charan Singh S/o Gurdev Singh S/o Ishhwar Singh 1/4 part Dyal Singh, Aungrej Singh S/o Ishwar Singh S/o Tulsi equal part 1/2 part. |
| | | | 23 | 16 | Private | Agriculture | 0.0636 | Bahadur Singh, Gurcharan Singh, Surinder Singh, Baljit Singh S/o Hari Singh S/o Ishvar Singh each Four equal part 1/4 part Shiv Charan Singh S/o Gurdev Singh S/o Ishhwar Singh 1/4 part Dyal Singh, Aungrej Singh S/o Ishwar Singh S/o Tulsi equal part 1/2 part. |
| | | | 23 | 15/1 | Private | Agriculture | 0.0388 | Bahadur Singh, Gurcharan Singh, Surinder Singh, Baljit Singh S/o Hari Singh S/o Ishvar Singh each Four equal part 1/4 part Shiv Charan Singh S/o Gurdev Singh S/o Ishhwar Singh 1/4 part Dyal Singh, Aungrej Singh S/o Ishwar Singh S/o Tulsi equal part 1/2 part. |
| | | (4) Samaikha | 112 | 2/1 | Private | Agriculture | 0.0702 | Karnail Singh, Harpal Singh S/o Gurcharn Singh S/o Gurbaksh Singh equal part Onwer possession Jagdish Singh etc to see Khewat No. 179 villager combined partners. |
| | | | 104 | 16/2 | Private | Agriculture | 0.0101 | Karnail Singh, Harpal Singh S/o Gurcharn Singh S/o Gurbaksh Singh equal part Onwer possession Jagdish Singh etc to see Khewat No. 179 villager combined partners. |
| | | | 112 | 1/2 | Private | Agriculture | 0.0706 | Gurdev Singh S/o Gurbaksh Singh S/o Randhir Singh Owner possession Jagdish Singh etc. to see Khewat No.363 villager combined partners. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 112 | 1/1 | Private | Agriculture | 0.0028 | Smt Savitri Devi Widow, Ranbir Singh S/o Balbir Singh S/o Gurcharan Singh chahram Karnail Singh, Harpal Singh S/o Gurcharan Singh S/o Gurbax Singh equal part 1/3 part one third Owner possession, Pritpal Singh, Jasbir Singh S/o Gurdev Singh S/o Gurbaksh Singh each Three equal part 5/12 part Owner Possession, Shamsher Singh S/o Fuman Singh S/o |
| | | | 103 | 21/1 | Private | Agriculture | 0.0498 | Gurdev singh S/o Gurbakhash singh S/o Randhir singh owner possesion Jagdish singh etc of same previous names combined partners. |
| | | | 104 | 13/1/2 | Private | Agriculture | 0.0468 | Gurdev singh S/o Gurbakhash singh S/o Randhir singh owner possesion Jagdish singh etc of same previous names combined partners. |
| | | | 104 | 25 | Private | Agriculture | 0.0837 | Gurdev singh S/o Gurbakhash singh S/o Randhir singh owner possesion Jagdish singh etc of same previous names combined partners. |
| | | | 104 | 17 | Private | Agriculture | 0.0845 | Mushtarka 414 Part Jail, Karnail Singh 47 Part Harpal Singh 207 part S/o Gurcharn Singh S/o Gurbaksh Singh, Pritpal Singh, Rachpal Singh Jasvir Singh S/o Gurdev Singh S/o Gurbax Singh each Three equal part 160 part Onwer Possession Jagdish Singh etc to see Khewat No. 179 Combined Partner. |
| | | | 104 | 18 | Private | Agriculture | 0.0161 | Mushtarka 414 Part Jail, Karnail Singh 47 Part Harpal Singh 207 part S/o Gurcharn Singh S/o Gurbaksh Singh, Pritpal Singh, Rachpal Singh Jasvir Singh S/o Gurdev Singh S/o Gurbax Singh each Three equal part 160 part Onwer Possession Jagdish Singh etc to see Khewat No. 179 Combined Partner. |
| | | | 104 | 13/1/1 | Private | Agriculture | 0.0096 | Pritam Singh, Rachpal Singh, Jasbir Singh S/o Gurdev Singh S/o Gurbax Singh each Three equal part Onwer Possession Jagdish Singh etc. to see Khewat No. 179 Combined Partner. |
| | | | 104 | 9/2 | Private | Agriculture | 0.0271 | Ram Kumar S/o Ram Chand S/o Chaju. |
| | | | 104 | 10/1 | Private | Agriculture | 0.0231 | Ram Kumar S/o Ram Chand S/o Chaju. |
| | | | 104 | 12 | Private | Agriculture | 0.0314 | Ram Kumar S/o Ram Chand S/o Chaju. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 104 | 24 | Private | Agriculture | 0.0028 | Smt. Savitri Devi Widow, Ranbir Singh, Balbir Singh S/o Fuman Singh S/o Gurbax Singh each Three equal part 3/4 part Pritpal Singh, Rachpal Singh, Jasbir Singh Gurdev Singh S/o Gurbax Singh each Three equal part 1/4 Onwer possession Jagdish Singh etc to see khewat No. 165 Nisf 1/2 Tarsem Singh S/o Parkash Singh S/o Tikka 1/6 part Smt. Jiwni D/o Tikka S/o Raja Ram 1/12 part Janak Singh, Satvinder Singh S/o Mangu S/o Raja ram equal part 1/4 part combined partners. |
| | | | 104 | 1/1 | Private | Agriculture | 0.0056 | Nirbhai Singh S/o Ram Chand S/o |
| | | | 104 | 10/2 | Private | Agriculture | 0.0144 | Gje Singh S/o Ram Chand S/o Chaju |
| | | | 105 | 5 | Private | Agriculture | 0.0346 | Gje Singh S/o Ram Chand S/o Chaju |
| | | | 105 | 4 | Private | Agriculture | 0.0054 | Subash, Rohtash S/o Labh Singh S/o Surjan Singh Owner possession Labh Singh S/o Surjan Singh S/o Ram Chander S/o Chaju Combined partners. |
| | | | 97 | 24/1 | Private | Agriculture | 0.0176 | Subash, Rohtash S/o Labh Singh S/o Surjan Singh Owner possession Labh Singh S/o Surjan Singh S/o Ram Chander S/o Chaju Combined partners. |
| | | | 97 | 23/2 | Private | Agriculture | 0.0175 | Subash, Rohtash S/o Labh Singh S/o Surjan Singh Owner possession Labh Singh S/o Surjan Singh S/o Ram Chander S/o Chaju Combined partners. |
| | | | 97 | 11 | Private | Agriculture | 0.0106 | Sanjiv, Balram S/o Thath Singh S/o Surjan Singh equal part. |
| | | | 97 | 12/1 | Private | Agriculture | 0.0025 | Sanjiv, Balram S/o Thath Singh S/o Surjan Singh equal part. |
| | | | 97 | 18/2 | Private | Agriculture | 0.0120 | Sanjiv, Balram S/o Thath Singh S/o Surjan Singh equal part. |
| | | | 97 | 19 | Private | Agriculture | 0.0236 | Sanjiv, Balram S/o Thath Singh S/o Surjan Singh equal part. |
| | | | 96 | 15 | Private | Agriculture | 0.0028 | Sanjiv, Balram S/o Thath Singh S/o Surjan Singh equal part. |
| | | | 96 | 7 | Private | Agriculture | 0.0033 | Sherjang Singh, Satpal Singh, Kanwarpal Singh each Three part 3 equal part Maikan kamal 1/2 Nisf S/o Smt. Darshani Devi, Rama Devi, Rukmesh each 3 equal part D/o Raghubir allies Rulla S/o Bija. |
| | | | 96 | 4/1 | Private | Agriculture | 0.0025 | Sherjang Singh, Satpal Singh, Kanwarpal Singh each Three part 3 equal part Maikan kamal 1/2 Nisf S/o Smt. Darshani Devi, Rama Devi, Rukmesh each 3 equal part D/o Raghubir allies Rulla S/o Bija. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 96 | 3 | Private | Agriculture | 0.0073 | Sherjang Singh, Satpal Singh, Kanwarpal Singh each Three part 3 equal part Malkan kamal 1/2 Nisf S/o Smt. Darshani Devi, Rama Devi, Rukmesh each 3 equal part D/o Raghbir allies Rulla S/o Bija. |
| | | | 96 | 6/2 | Private | Agriculture | 0.0029 | Sherjang Singh, Satpal Singh, Kanwarpal Singh each Three part 3 equal part Malkan kamal 1/2 Nisf S/o Smt. Darshani Devi, Rama Devi, Rukmesh each 3 equal part D/o Raghbir allies Rulla S/o Bija. |
| | | | 87 | 22 | Private | Agriculture | 0.0055 | Sherjang Singh, Satpal Singh, Kanwarpal Singh, S/o Darshani Devi, Rama Devi, Rukmesh D/o Raghbir allies Rulla S/o Bija each 6 equal part Rahinan Puran Singh S/o and Smt. Parvati, Vidya D/o Ganga ram S/o |
| | | | 72 | 25 | Private | Agriculture | 0.0918 | Mahipal Singh S/o 3/8 part Smt. Vidya Devi 1/8 part W/o Faqiria S/o Chaju ram Owner possession Faqiria S/o Chaju ram S/o Atru Combined partner, Dharampal S/o Nirmal S/o Chaju Malkan Kamal 1/4 Chahram Neej Combined partner Smt. Kaushalya Devi W/o Dharampal S/o Nirmal Owner possession 1/4 Chahram. |
| | | | 72 | 24/2 | Private | Agriculture | 0.0607 | Mahipal Singh S/o 3/8 part Smt. Vidya Devi 1/8 part W/o Faqiria S/o Chaju ram Owner possession Faqiria S/o Chaju ram S/o Atru Combined partner, Dharampal S/o Nirmal S/o Chaju Malkan Kamal 1/4 Chahram Neej Combined partner Smt. Kaushalya Devi W/o Dharampal S/o Nirmal Owner possession 1/4 Chahram. |
| | | | 71 | 5/3 | Private | Agriculture | 0.0035 | Gurdev Singh, Hardev Singh S/o Gurdip Singh S/o Pritam Singh equal part 1/3 part Balkar Singh, Charanjit Singh S/o Pritam Singh S/o Nagina Singh equal part 2/3 part owner possession Mulla Singh to see Khewat |
| | | | 71 | 5/2 | Private | Agriculture | 0.0094 | Jeet Ram, Faqir Chand S/o Fagu S/o Matu equal part owner possession Mula Singh to see Khewat No.219 |
| | | | 71 | 5/1 | Private | Agriculture | 0.0125 | Sohan Singh S/o Sant Singh S/o Aatma Singh owner possession Mula Singh to see Khewat No.219 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|--------|--|
| | | | 71 | 4 | Private | Agriculture | 0.0025 | Mushatrka 10 part Ram Kumar, Krishan Chand, Sanjiv Kumar S/o Jaspal Singh S/o Sukhraj Singh each three equal part 1 part Jaipal Singh S/o Malkhan Singh S/o Kishan Singh 1 part Dharam Singh allies Kanu Hansraj S/o Kishan 2 part Onwer possession Sohan Singh S/o Sant Singh S/o Aatam Singh, Mandeep Singh S/o Sohan Singh S/o sant Singh equal part 1 part Gurdev Singh, Hardev Singh, S/o Gurdeep Singh 1/6 Balkar Singh, Charanjit Singh S/o Pritam Singh S/o Nagina Singh equal part 1/3 part Onwer possession Sam Singh Phool Singh, Neer Singh, Satpal Singh S/o Smt. Kishni Widow, Kela D/o Mamraj S/o Kishan equal part combined partner Babat Hisa Sohan Singh etc. Mafiat S/o Shivsaran S/o Bhagwan combined patner Gurdip Singh etc. |
| | | | 69 | 24 | Private | Agriculture | 0.0025 | Sama Singh Phool Singh, Veer Singh Satpal Singh S/o Smt. Kreshni Widow Mela D/o Mamraj S/o Kishan each 6 equal part Malkan kamal 4 part Neej Onwer possession Combined partner Jagpal Ilam Singh S/o Mulkhan Singh S/o Jamadar Singh equal part 249 part Onwer possession each 1/10 part Ram Kumar, Krishan Chand Sanjeev Kuamar S/o Jaipal Singh S/o Malkhan Singh equal part 1/10 part Jai pal Singh S/o Kishan Singh 1/10 part Dharam Singh allies Kalu S/o Hansraj S/o Shivsharan S/o Kishna 1/5 part Aflatoon S/o Shivsaran S/o Bhagwan 1/2 part Nisf onwer possession Sama Singh etc Majkuran. |
| | | | 69 | 25 | Private | Agriculture | 0.0051 | Balwant Singh S/o Gursewak Singh S/o Aatma Singh 1/3 part Bachan Singh S/o Aatma Singh S/o Utam Singh 1/3 Part Joginder Singh, Jagdish Singh, Sohan Singh S/o Sant Singh S/o Aatma Singh each Three equal part 1/4 part Mandeep Singh S/o Sant Singh 1/12 part owner possession Mula Singh to see Khewat No. 219 Combined partner. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|--------|----------------|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| 3 | Ambala | (1) Dukheri | 39 | 24 | Private | Agriculture | 0.0609 | Jaswant Singh owner possession 3/8 part and Hansraj Malkan kamal 3/16 part and combined partner S/o Jandu S/o Tula, Vajinder Singh, Vijay Singh S/o Smt. Jagvanti W/o Jaswant Singh S/o Jandu each 6 part equal part 1/8 part Malkan Kamal and Ravipal Singh s/o Smt Ramvati W/o Hansraj S/o Jandu equal part 1/8 part Malkan Kamal and owner possession 3/16 part. |
| | | | 39 | 23 | Private | Agriculture | 0.0084 | Jaswant Singh owner possession 3/8 part and Hansraj Malkan kamal 3/16 part and combined partner S/o Jandu S/o Tula, Vajinder Singh, Vijay Singh S/o Smt. Jagvanti W/o Jaswant Singh S/o Jandu each 6 part equal part 1/8 part Malkan Kamal and Ravipal Singh s/o Smt Ramvati W/o Hansraj S/o Jandu equal part 1/8 part Malkan Kamal and owner possession 3/16 part. |
| | | | 39 | 18/2 | Private | Agriculture | 0.0531 | Jaswant Singh owner possession 3/8 part and Hansraj Malkan kamal 3/16 part Nij combined partner S/o Jandu S/o Tungal and Vijay Singh, Vijinder Singh equal part 11/24 part S/o and Smt. Jagvanti 1/24 part W/o Jaswant Singh S/o Jandu Malkan Kamal and Nij owner possession Ravipal Singh S/o and Smt. Ramvati W/o Hansraj S/o Jandu equal part 1/8 Malkan Kamal Kabja. |
| | | | 39 | 19 | Private | Agriculture | 0.0216 | Jaswant Singh owner possession 3/8 part and Hansraj Malkan kamal 3/16 part Nij combined partner S/o Jandu S/o Tungal and Vijay Singh, Vijinder Singh equal part 11/24 part S/o and Smt. Jagvanti 1/24 part W/o Jaswant Singh S/o Jandu Malkan Kamal and Nij owner possession Ravipal Singh S/o and Smt. Ramvati W/o Hansraj S/o Jandu equal part 1/8 Malkan Kamal Kabja. |
| | | | 39 | 12/1 | Private | Agriculture | 0.0223 | Jaswant Singh owner possession 3/8 part and Hansraj Malkan kamal 3/16 part Nij combined partner S/o Jandu S/o Tungal and Vijay Singh, Vijinder Singh equal part 11/24 part S/o and Smt. Jagvanti 1/24 part W/o Jaswant Singh S/o Jandu Malkan Kamal and Nij owner possession Ravipal Singh S/o and Smt. Ramvati W/o Hansraj S/o Jandu equal part 1/8 Malkan Kamal Kabja. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|----------------|-----------------|--------|--|
| | | | 24 | 15/1 | Gram Panchayat | Non Agriculture | 0.0114 | Villager Combined partner Hasbraed Jar Khewat |
| | | | 24 | 163 | Gram Panchayat | Non Agriculture | 0.0033 | Villager Combined partner owner possession Anser Patti. |
| | | | 24 | 506 | Gram Panchayat | Non Agriculture | 0.0531 | Gram Panchayat Anser Deh. |
| | | | 24 | 1 | Private | Agriculture | 0.0027 | Kuldeep Singh, Baldev Singh S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh equal owner possession Ansre Pati. |
| | | | 24 | 2 | Private | Agriculture | 0.1151 | Kuldeep Singh, Baldev Singh S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh equal owner possession Ansre Pati. |
| | | | 24 | 14/1 | Private | Agriculture | 0.0114 | Dayaram, Iman Singh S/o Mukhtiyar Singh S/o Dakhu equal part 2/3 part Tarsem Singh S/o Krishan Lal S/o Mukhtyar 1/6 part Sandeep, Vijay S/o Raj Singh S/o Kreshan Lal equal part 1/6 part Manjeet Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh each equal part 9/10 part owner possession Mohinder Singh etc to see Khewat No.59 Combined partner. |
| | | | 24 | 7/2 | Private | Agriculture | 0.0669 | Dayaram, Iman Singh S/o Mukhtiyar Singh S/o Dakhu equal part 2/3 part Tarsem Singh S/o Krishan Lal S/o Mukhtyar 1/6 part Sandeep, Vijay S/o Raj Singh S/o Kreshan Lal equal part 1/6 part Manjeet Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh each equal part 9/10 part owner possession Mohinder Singh etc to see Khewat No.59 Combined partner. |
| | | | 24 | 8 | Private | Agriculture | 0.0563 | Dayaram, Iman Singh S/o Mukhtiyar Singh S/o Dakhu equal part 2/3 part Tarsem Singh S/o Krishan Lal S/o Mukhtyar 1/6 part Sandeep, Vijay S/o Raj Singh S/o Kreshan Lal equal part 1/6 part Manjeet Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh each equal part 9/10 part owner possession Mohinder Singh etc to see Khewat No.59 Combined partner. |
| | | | 24 | 3/1 | Private | Agriculture | 0.0342 | Dayaram, Iman Singh S/o Mukhtiyar Singh S/o Dakhu equal part 2/3 part Tarsem Singh S/o Krishan Lal S/o Mukhtyar 1/6 part Sandeep, Vijay S/o Raj Singh S/o Kreshan Lal equal part 1/6 part Manjeet Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh each equal part 9/10 part owner possession Mohinder Singh etc to see Khewat No.59 Combined partner. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 18 | 22/1 | Private | Agriculture | 0.0101 | KulDeep Singh, Baldev Singh S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh each Two equal part owner possession Ansre pati Combined partner vasideh. |
| | | | 18 | 21 | Private | Agriculture | 0.1123 | KulDeep Singh, Baldev Singh S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh each Two equal part owner possession Ansre pati Combined partner vasideh. |
| | | | 17 | 17 | Private | Agriculture | 0.0948 | Smt. Gurbachan Kaur 1/10 part Widow Baldev Singh Bhupinder Singh, Jagjit Singh equal part 3 part S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh, Sarvjinder Singh, Sahib Singh Manjit Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh equal part (1) Part Total Four part Bhagdar 9/10 part. |
| | | | 17 | 25 | Private | Agriculture | 0.0329 | Smt. Gurbachan Kaur 1/10 part Widow Baldev Singh Bhupinder Singh, Jagjit Singh equal part 3 part S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh, Sarvjinder Singh, Sahib Singh Manjit Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh equal part (1) Part Total Four part Bhagdar 9/10 part. |
| | | | 17 | 14/1 | Private | Agriculture | 0.0681 | Smt. Grbachan Kaur 1/10 part Widow Baldev Singh Bhupinder Singh, Jagjit Singh S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh equal part 27/40 part Sarvjinder Singh, Sahib Singh, Manjeet Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh equal part 9/40 part Chandan Singh Jaswant Singh S/o Jiwan Singh S/o Heera Singh each Two equal part vasideh deh muran . |
| | | | 17 | 13 | Private | Agriculture | 0.1572 | Smt. Grbachan Kaur 1/10 part Widow Baldev Singh Bhupinder Singh, Jagjit Singh S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh equal part 27/40 part Sarvjinder Singh, Sahib Singh, Manjeet Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh equal part (1) part dar |
| | | | 17 | 12 | Private | Agriculture | 0.0052 | Smt. Gurbachan Kaur 1/10 Part Widow, Baldev Singh, Bhupinder Singh, Jagjit Singh S/o Narinder Singh S/o Samsher Singh equal part 27/40 Part Sarvjinder Singh, Sahib Singh, Manjit Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh 9/40 part owner possession Surjit Singh Singh etc. to see khewat No.421 Combined partner. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 17 | 8/2 | Private | Agriculture | 0.0126 | Smt. Gurbachan Kaur 1/10 Part Widow, Baldev Singh, Bhupinder Singh, Jagjit Singh S/o Narinder Singh S/o Samsher Singh equal part 27/40 Part Sarwinder Singh, Sahib Singh, Manjit Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh 9/40 part owner possession Surjit Singh Singh etc. to see khewat No.421 Combined partner. |
| | | | 17 | 9 | Private | Agriculture | 0.1821 | Smt. Gurbachan Kaur 1/10 part Widow Baldev Singh Bhupinder Singh, Jagjit Singh S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh 3 equal 3 parts Sarvjinder Singh Sahib Singh Manjit Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh equal part (1) Part Total Four part Bhagdar 9/10 part Owner possession Absre Atti. |
| | | | 17 | 10 | Private | Agriculture | 0.2778 | Smt. Gurbachan Kaur Wido 1/10 part Baldev Singh, Bhupinder Singh, Jagjit Singh equal part 27/40 part S/o Narinder Singh S/o Samsher Singh, Sarvjinder Singh, Sahib Singh, Manjit Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh equal part 9/10 owner possession Mohinder Singh etc. to see khewat No.59 Combined partner. |
| | | | 17 | 16/2 | Private | Agriculture | 0.1023 | Smt. Gurbachan Kaur Wido 1/10 part Baldev Singh, Bhupinder Singh, Jagjit Singh equal part 27/40 part S/o Narinder Singh S/o Samsher Singh, Sarvjinder Singh, Sahib Singh, Manjit Singh S/o Kuldeep Singh S/o Narinder Singh equal part 9/10 owner possession Mohinder Singh etc. to see khewat No.59 Combined partner. |
| | | | 16 | 5/2 | Private | Agriculture | 0.2907 | Smt. Gurbachan Kaur etc. Majkuran Rehnan Mohan Singh S/o Samsher Singh S/o Kishan Singh Murthin. |
| | | | 8 | 25/2 | Private | Agriculture | 0.0278 | Smt. Gurbachan Kaur etc. Majkuran Rehnan Mohan Singh S/o Samsher Singh S/o Kishan Singh Murthin. |
| | | | 16 | 4 | Private | Agriculture | 0.1212 | Ramkaran, Ram charan, Rajkumar, Pritam Singh Jasvir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadat Singh equal part 270 part Harjit Singh S/o Balwant Singh S/o Kartar Singh Balbir Singh, Karam Singh, Surinder Singh S/o Mehar Singh S/o Chadat Singh equal part 10 part. |
| | | | 16 | 6 | Private | Agriculture | 0.0501 | Kudkast Ram karan, Ram Charan, Pritam Singh, Raj Kumar each Four part equal part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 16 | 1/1 | Private | Agriculture | 0.1359 | Smt. Gurcharan Kaur Widow Narinder Singh S/o Shamsher Singh 1/10 part Baldev Singh, Bhupinder Singh, Jagjit Singh S/o Narinder Singh S/o Shamsher Singh each Three part equal part 27/40 part Sarvjinder Singh, Sahab Singh, Manjit Singh S/o Kuldip Singh S/o Narinder Singh each Three part 9/40 part owner possession Surjit Singh S/o Danvat Singh S/o Bhagwan Singh 1/3 part Ranbir Singh S/o Bhagwan Singh S/o Naryan Singh 1/3 part Gurmail Singh S/o Raghubir Singh S/o Bhagwan Singh equal part 1/6 part |
| | | | 8 | 24 | Private | Agriculture | 0.3647 | Ram karan, Ram charan, Pritam Singh, Rajkumar, Jasbir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadata Ram equal part 357 part Harjit Singh Balwant Singh S/o Kartar Singh 58 part Balbir Singh, Karam Singh Surinder Singh S/o Mehar Singh S/o Chadta Singh equal |
| | | | 8 | 17/1 | Private | Agriculture | 0.1265 | Smt. Prem vati D/o Desraj S/o Lachman owner possession Desraj Combined partner. |
| | | | 8 | 23 | Private | Agriculture | 0.2245 | Ramvir Singh, Vinod Kumar S/o Kresan S/o Rasal equal part 1/8 part Ramkali D/o Rasal S/o Sarup 1/4 part Smt. Krishna devi widow, Kresh S/o Rasal 1/8 part Labh Singh 77 part Rajkumar Total 633 part S/o Teg Singh S/o Aatma Ram S/o 710 part 1/6 part Daya Ram, Mohan Singh S/o Aatma ram S/o Jwahar equal part 1/3 part. |
| | | | 8 | 18 | Private | Agriculture | 0.2302 | Ramvir Singh, Vinod Kumar S/o Kresan S/o Rasal equal part 1/8 part Ramkali D/o Rasal S/o Sarup 1/4 part Smt. Krishna devi widow, Kresh S/o Rasal 1/8 part Labh Singh 77 part Rajkumar Total 633 part S/o Teg Singh S/o Aatma Ram S/o 710 part 1/6 part Daya Ram, Mohan Singh S/o Aatma ram S/o Jwahar equal part 1/3 part. |
| | | | 8 | 22 | Private | Agriculture | 0.0089 | Ramvir Singh, Vinod Kumar S/o Kresan S/o Rasal equal part 1/8 part Ramkali D/o Rasal S/o Sarup 1/4 part Smt. Krishna devi widow, Kresh S/o Rasal 1/6 part Labh Singh 77 part Rajkumar Total 633 part S/o Teg Singh S/o Aatma Ram S/o 710 part 1/6 part Daya Ram, Mohan Singh S/o Aatma ram S/o Jwahar equal part 1/3 part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|-------------|--------|---|
| | | | 8 | 12 | Private | Agriculture | 0.0986 | Ramvir Singh, Vinod Kumar S/o Kresan S/o Rasal equal part 1/8 part Ramkali D/o Rasal S/o Sarup 1/4 part Smt. Krishna devi widow, Kresh S/o Rasal 1/8 part Labh Singh 77 part Rajkumar Total 633 part S/o Teg Singh S/o Aatma Ram S/o 710 part 1/6 part Daya Ram, Mohan Singh S/o Aatma ram S/o Jwahar equal part 1/3 part. |
| | | | 8 | 20 | Private | Agriculture | 0.0283 | Ramvir Singh, Vinod Kumar S/o Kresan S/o Rasal equal part 1/8 part Ramkali D/o Rasal S/o Sarup 1/4 part Smt. Krishna devi widow, Kresh S/o Rasal 1/8 part Labh Singh 77 part Rajkumar Total 633 part S/o Teg Singh S/o Aatma Ram S/o 710 part 1/6 part Daya Ram, Mohan Singh S/o Aatma ram S/o Jwahar equal part 1/3 part. |
| | | | 8 | 11 | Private | Agriculture | 0.1622 | Ramvir Singh, Vinod Kumar S/o Kresan S/o Rasal equal part 1/8 part Ramkali D/o Rasal S/o Sarup 1/4 part Smt. Krishna devi widow, Kresh S/o Rasal 1/8 part Labh Singh 77 part Rajkumar Total 633 part S/o Teg Singh S/o Aatma Ram S/o 710 part 1/6 |
| | | | 8 | 19 | Government and Private | Agriculture | 0.3024 | Ramvir Singh, vinod Kumar S/o Kreshan S/o Rsal equal part 1/8 part Smt Ramkali D/o Rasal S/o Sarup 1/4 part Labh Singh 16 part Rajkumar 125 part Total 141 part S/o Teg Singh S/o Aatma Ram 1/6 Part Daya ram, Mohan Lal S/o Aatma Ram s/o Jawara equal part 1/3 part Smt. Krishna Devi widow Kreshan S/o Rasal 1/8 part owner possession Gajinder pal singh S/o Mohan Singh S/o Samsher Singh 1/3 part Smt. Gubachan Kaur widow 1/3 part Baldev Singh, Bhupinder Singh, Jagjit Singh equal part 3 part S/o Narinder Singh S/o Samsher Singh, Sarvjinder Singh Sahib Singh, Manjit Singh S/o Kuldip Singh S/o Narinder Singh each 6 equal part 1 part Total part 4 part 3/10 part Gurpreet Singh 5/24 part S/o and Smt. Rajpreet Kaur equal part 1/8 part D/o Naranjan Singh S/o Samsher Singh Combined partner.Centre Government owner possession Gajinder Singh etc. combined partner |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|--------|--|
| | | | 9 | 15 | Private | Agriculture | 0.0292 | Mehar Singh, Kehar Singh S/o Chadta Singh S/o Jagdu equal part 84 part Ramkaran, Ramcham Rajkumar Pritam Singh S/o Jasvir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadta Singh each Five part equal part 35 part Harjit Singh S/o Kulwant Singh S/o Kartar Singh 36 part Balbir Singh S/o Chadta equal part 66 part Total 101 part Bhag dar 6 part Total 126 part owner possession Residence of Ghasit pur Padam Singh etc. to see Khewat No. (192) combined partner. |
| | | | 9 | 6 | Private | Agriculture | 0.0205 | Mehar Singh, Kehar Singh S/o Chadta Singh S/o Jagdu equal part 84 part Ramkaran, Ramcham Rajkumar Pritam Singh S/o Jasvir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadta Singh each Five part equal part 35 part Harjit Singh S/o Kulwant Singh S/o Kartar Singh 36 part Balbir Singh S/o Chadta equal part 66 part Total 101 part Bhag dar 6 part Total 126 part owner possession Residence of Ghasit pur Padam Singh etc. to see Khewat No. (192) combined partner. |
| | | | 9 | 7 | Private | Agriculture | 0.0246 | Mehar Singh, Kehar Singh S/o Chadta Singh S/o Jagdu equal part 84 part Ramkaran, Ramcham Rajkumar Pritam Singh S/o Jasvir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadta Singh each Five part equal part 35 part Harjit Singh S/o Kulwant Singh S/o Kartar Singh 36 part Balbir Singh S/o Chadta equal part 66 part Total 101 part Bhag dar 6 part Total 126 part owner possession Residence of Ghasit pur Padam Singh etc. to see Khewat No. (192) combined partner. |
| | | | 9 | 4 | Private | Agriculture | 0.0497 | Mehar Singh, Kehar Singh S/o Chadta Singh S/o Jagdu equal part 84 part Ramkaran, Ramcham Rajkumar Pritam Singh S/o Jasvir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadta Singh each Five part equal part 35 part Harjit Singh S/o Kulwant Singh S/o Kartar Singh 36 part Balbir Singh S/o Chadta equal part 66 part Total 101 part Bhag dar 6 part Total 126 part owner possession Residence of Ghasit pur Padam Singh etc. to see Khewat No. (192) combined partner. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------------|--------|---|
| | | | 9 | 3/2 | Private | Agriculture | 0.0064 | Mehar Singh, Kehar Singh S/o Chadta Singh S/o Jagdu equal part 84 part Ramkaran, Ramcharan Rajkumar Pritam Singh S/o Jasvir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadta Singh each Five part equal part 35 part Harjit Singh S/o Kulwant Singh S/o Kartar Singh 36 part Balbir Singh S/o Chadta equal part 66 part Total 101 part Bhagdar 6 part Total 126 part owner possession Residence of Ghasit pur Padam Singh etc. to see Khewat No. (192) combined partner. |
| | | | 9 | 157 | Government | Non. Agriculture | 0.0804 | Haryana Government Electricity bord Pole. |
| | | | 9 | 3/1 | Private | Agriculture | 0.0271 | Total 1829 Part Jail. Ramkaran, Ramcharan, Pritam Singh Rajkumar, Jasbir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadta equal part 508 part Harjit Singh S/o Balwant Singh S/o Kartar Singh 47 part Mehar Singh, Kehar Singh Chadta S/o Jagdu equal part 1219 part Balbir Singh Karam Singh Surinder Singh S/o Mehar Singh S/o Chadta each equal part 55 part Residence of Ghasitpur owner possession shan Sungh etc. Combined partner. |
| | | | 9 | 2 | Private | Agriculture | 0.0058 | Total 1829 Part Jail. Ramkaran, Ramcharan, Pritam Singh Rajkumar, Jasbir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadta equal part 508 part Harjit Singh S/o Balwant Singh S/o Kartar Singh 47 part Mehar Singh, Kehar Singh Chadta S/o Jagdu equal part 1219 part Balbir Singh Karam Singh Surinder Singh S/o Mehar Singh S/o Chadta each equal part 55 part Residence of Ghasitpur owner possession shan Sungh etc. Combined partner. |
| | | | 1 | 23 | Private | Agriculture | 0.0911 | Total 1829 Part Jail. Ramkaran, Ramcharan, Pritam Singh Rajkumar, Jasbir Singh S/o Kartar Singh S/o Chadta equal part 508 part Harjit Singh S/o Balwant Singh S/o Kartar Singh 47 part Mehar Singh, Kehar Singh Chadta S/o Jagdu equal part 1219 part Balbir Singh Karam Singh Surinder Singh S/o Mehar Singh S/o Chadta each equal part 55 part Residence of Ghasitpur owner possession shan Sungh etc. Combined partner. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----------------------|-----|------|------------------------|-------------|--------|--|
| | | | 1 | 22 | Private and Government | Agriculture | 0.1999 | |
| | | (2) Barahman Majra | | | | | | Ramkaran, Ram Charan, Pritam Singh Rajkumar. Haryana State Electricity Bord. |
| | | | 32 | 22 | Private | Agriculture | 0.0278 | Kartar Singh (1) part Mehar Singh, Kehar Singh equal 14 part S/o Chadat Singh, Ramkaran, Raj Kumar, Pritam Singh Jasvir Singh, Balwant Singh S/o Kartar Singh S/o Chadat Singh equal part (6) part Residence of Ghsitpur owner possession. |
| | | | 32 | 19/2 | Private | Agriculture | 0.0228 | Kartar Singh (1) part Mehar Singh, Kehar Singh equal 14 part S/o Chadat Singh, Ramkaran, Raj Kumar, Pritam Singh Jasvir Singh, Balwant Singh S/o Kartar Singh S/o Chadat Singh equal part (6) part Residence of Ghsitpur owner possession. |
| | | | 32 | 21 | Private | Agriculture | 0.0487 | Kartar Singh (1) part Mehar Singh, Kehar Singh equal 14 part S/o Chadat Singh, Ramkaran, Raj Kumar, Pritam Singh Jasvir Singh, Balwant Singh S/o Kartar Singh S/o Chadat Singh equal part (6) part Residence of Ghsitpur owner possession. |
| | | | 32 | 20 | Private | Agriculture | 0.2435 | Kartar Singh (1) part Mehar Singh, Kehar Singh equal 14 part S/o Chadat Singh, Ramkaran, Raj Kumar, Pritam Singh Jasvir Singh, Balwant Singh S/o Kartar Singh S/o Chadat Singh equal part (6) part Residence of Ghsitpur owner possession. |
| | | | 33 | 15 | Private | Agriculture | 0.1341 | Kartar Singh (1) part Mehar Singh, Kehar Singh equal 14 part S/o Chadat Singh, Ramkaran, Raj Kumar, Pritam Singh Jasvir Singh, Balwant Singh S/o Kartar Singh S/o Chadat Singh equal part (6) part Residence of Ghsitpur owner possession. |
| | | | 33 | 16 | Private | Agriculture | 0.1469 | Kartar Singh (1) part Mehar Singh, Kehar Singh equal 14 part S/o Chadat Singh, Ramkaran, Raj Kumar, Pritam Singh Jasvir Singh, Balwant Singh S/o Kartar Singh S/o Chadat Singh equal part (6) part Residence of Ghsitpur owner possession. |
| | | | 33 | 14/2 | Private | Agriculture | 0.1964 | Meha Singh S/o Chadta Ram, Jagdu Singh owner possession Ravinder Nath etc. Combined partner. |
| | | | 33 | 17 | Private | Agriculture | 0.0025 | Somnath S/o Munshi S/o Shankar 1/4 part Sadhu Ram S/o Guru S/o Nathu 1/4 part Kashmiri Lal, Bishna S/o Matu S/o Rama equal part 1/8 part Mamraj, Jnardhan, Sohan Lal S/o Thakur S/o Rama equal part 1/8 part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----------------|-----|------|---------|-----------------------------|--------|--|
| | | | 33 | 7 | Private | Agriculture | 0.0430 | Tek Chand S/o, Smt. Jaipal Kaur, Satpal Kaur, Vijay Lakshmi D/o Smt. Jagir Kaur widow Ramdiya allies Nika S/o Equal part owner possession Ajsreh Deh. |
| | | | 33 | 13 | Private | Agriculture | 0.0195 | Tek Chand S/o, Smt. Jaipal Kaur, Satpal Kaur, Vijay Lakshmi D/o Smt. Jagir Kaur widow Ramdiya allies Nika S/o Equal part owner possession Ajsreh Deh. |
| | | | 33 | 8 | Private | Agriculture | 0.1391 | Tek Chand S/o, Smt. Jaipal Kaur, Satpal Kaur, Vijay Lakshmi D/o Smt. Jagir Kaur widow Ramdiya allies Nika S/o Equal part owner possession Ajsreh Deh. |
| | | | 33 | 14/1 | Private | Agriculture and Gair Mumkin | 0.0481 | Tek Chand S/o, Smt. Jaipal Kaur, Satpal Kaur, Vijay Lakshmi D/o Smt. Jagir Kaur widow Ramdiya allies Nika S/o Equal part owner possession Ajsreh Deh. |
| | | (3) Ghaseet Pur | 22 | 2 | Private | Agriculture | 0.1467 | Rajkumar, Jasbir, Pritam Singh, Ram Karan, Ramcharan S/o Kartar Singh S/o Chadta each 5 equal part 5/18 part Harjit Singh S/o Balwant Singh S/o Kartar Singh 1/18 part Mehar Singh, Kehar Singh S/o Chadta S/o Jagdu equal 2/3 part. |
| | | | 22 | 9 | Private | Agriculture | 0.1003 | Rajkumar, Jasbir, Pritam Singh, Ram Karan, Ramcharan S/o Kartar Singh S/o Chadta each 5 equal part 5/18 part Harjit Singh S/o Balwant Singh S/o Kartar Singh 1/18 part Mehar Singh, Kehar Singh S/o Chadta S/o Jagdu equal 2/3 part. |
| | | | 22 | 1/2 | Private | Agriculture | 0.0575 | Rajkumar, Jasbir, Pritam Singh, Ram Karan, Ramcharan S/o Kartar Singh S/o Chadta each 5 equal part 5/18 part Harjit Singh S/o Balwant Singh S/o Kartar Singh 1/18 part Mehar Singh, Kehar Singh S/o Chadta S/o Jagdu equal 2/3 part. |
| | | | 22 | 1/1 | Private | Agriculture | 0.2280 | Rajkumar, Jasbir, Pritam Singh, Ram Karan, Ramcharan S/o Kartar Singh S/o Chadta each 5 equal part 5/18 part Harjit Singh S/o Balwant Singh S/o Kartar Singh 1/18 part Mehar Singh, Kehar Singh S/o Chadta S/o Jagdu equal 2/3 part. |
| | | | 22 | 13 | Private | Agriculture | 0.0025 | Smt. Chmeli Devi widow Tarsem Singh S/o Nranjan Singh S/o Gurdyal Singh each Two equal part Vasideh. |
| | | | 22 | 8 | Private | Agriculture | 0.1213 | Smt. Chmeli Devi widow Tarsem Singh S/o Nranjan Singh S/o Gurdyal Singh each Two equal part Vasideh. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 22 | 3 | Private | Agriculture | 0.0049 | Smt. Chmeli Devi widow Tarsem Singh S/o Nranjan Singh S/o Gurdial Singh each Two equal part Vasideh. |
| | | | 13 | 21 | Private | Agriculture | 0.0188 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 21 | 5/1 | Private | Agriculture | 0.0877 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 24 | Private | Agriculture | 0.2607 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 25 | Private | Agriculture | 0.2364 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 11/2 | Private | Agriculture | 0.0145 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 12 | Private | Agriculture | 0.1518 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 13 | Private | Agriculture | 0.0061 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 17 | Private | Agriculture | 0.0885 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 23 | Private | Agriculture | 0.0334 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|-------------------------------|-----------------|--------|---|
| | | | 14 | 20/1 | Private | Agriculture | 0.0025 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 18 | Private | Agriculture | 0.3153 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 19 | Private and Gram panchyat | Agriculture | 0.1597 | Bachan Singh, Amar Singh, Jagtar Singh Aungrej Singh S/o Prem Singh S/o Nasib Singh equal part 1/2 part Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 12 part.Gram Panchyat. |
| | | | 14 | 43 | Gram Panchyat | Agriculture | 0.5559 | Combined village |
| | | | 21 | 5/2 | Private | Agriculture | 0.0025 | Sher Singh S/o Nasib Singh S/o Dhyan Singh 1/2 part Bachan Singh, Amar Singh S/o Prem Singh Nasib Singh each Two equal part 1/2 part |
| | | | 11 | 22/2 | Gram Panchayat | Agriculture | 0.1707 | Gram Panchayat Deh. |
| | | | 11 | 23 | Gram Panchayat | Agriculture | 0.0860 | Gram Panchayat Deh. |
| | | | 11 | 19 | Gram Panchayat | Agriculture | 0.1543 | Gram Panchayat Deh. |
| | | | 10 | 15 | Gram Panchayat | Non Agriculture | 0.0664 | Gram Panchayat Deh. |
| | | | | 35 | Gram Panchayat and Government | Non Agriculture | 0.0856 | Gram Panchayat and State Government. |
| | | | 10 | 29 | Government | Non Agriculture | 0.0411 | Haryana State Government |
| | | | | 34 | Government | Plot | 0.0073 | Haryana District Urban Development and State Government. |
| | | | | 31 | Government | Plot | 0.2093 | Haryana District Urban Development and State Government. |
| | | | | 144 | Government | Plot | 0.0035 | Haryana District Urban Development and State Government. |
| | | | 7 | 11 | Private and Government | Agriculture | 0.0202 | Smt. Aungrej Kaur widow, Jasbir Kaur W/o Jaswant Singh Kulwant Singh S/o Harnek Singh, Gurmel S/o Sunder Singh each part equal part. State Government. |
| | | | 8 | 15 | Private and Government | Agriculture | 0.1232 | Smt. Aungrej Kaur widow, Jasbir Kaur W/o Jaswant Singh Kulwant Singh S/o Harnek Singh, Gurmel S/o Sunder Singh each part equal part. State Government. |
| | | | 8 | 16 | Private and Government | Agriculture | 0.0025 | Smt. Aungrej Kaur widow, Jasbir Kaur W/o Jaswant Singh Kulwant Singh S/o Harnek Singh, Gurmel S/o Sunder Singh each part equal part. State Government. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-------------|-----|------|------------------------|-----------------|--------|---|
| | | | 7 | 20 | Private and Government | Non Agriculture | 0.1835 | Smt. Augrej Kaur widow, Jasbir Kaur W/o Jaswant Singh Kulwant Singh S/o Harnek Singh, Gurmel S/o Sunder Singh each part equal part. State Government. |
| | | (4) Shahpur | | 157 | Panchayat | Trees | 0.0228 | Civil Panchayat Deh Vasideh. |
| | | | 12 | 7 | Private | Agriculture | 0.2351 | Gulzar Singh S/o Veer Singh S/o Aatar Singh, Tara Singh S/o Santokh Singh S/o Veer Singh equal part owner possession Aatma Singh etc. to see Khawast No 1212 Combined partner. |
| | | | 12 | 14/2 | Private | Agriculture | 0.0381 | Gulzar Singh S/o Veer Singh S/o Aatar Singh Malkan kamal 1/2 Nisf Tara Singh S/o Santhokh Singh S/o Veer Singh owner possession Santokh Singh S/o Veer Singh S/o Attar Singh |
| | | | | 155 | Panchayat | Trees | 0.5434 | Civil Panchayat Deh Vasideh. |
| | | | 12 | 2 | Private | Agriculture | 0.0411 | Smt. Charanjit Kaur Widow and Kuldeep Singh, Sarbjit Singh S/o Smt. Gurjit kaur D/o Gurlabh Singh S/o Basant Singh each four equal part 1/3 part Manjit Singh Daljit Singh S/o Basant Singh S/o karam Singh equal part 2/3 two third part owner possession Bachan Singh S/o Attar Singh S/o Bhagwan Singh, Nirmal Singh S/o Badan Singh combined partner. |
| | | | 12 | 3 | Private | Agriculture | 0.0672 | Smt. Charanjit Kaur Widow and Kuldeep Singh, Sarbjit Singh S/o Smt. Gurjit kaur D/o Gurlabh Singh S/o Basant Singh each four equal part 1/3 part Manjit Singh Daljit Singh S/o Basant Singh S/o karam Singh equal part 2/3 two third part owner possession Bachan Singh S/o Attar Singh S/o Bhagwan Singh, Nirmal Singh S/o Badan Singh combined partner. |
| | | | 12 | 8/1 | Private | Agriculture | 0.0073 | Smt. Charanjit Kaur Widow and Kuldeep Singh, Sarbjit Singh S/o Smt. Gurjit kaur D/o Gurlabh Singh S/o Basant Singh each four equal part 1/3 part Manjit Singh Daljit Singh S/o Basant Singh S/o karam Singh equal part 2/3 two third part owner possession Bachan Singh S/o Attar Singh S/o Bhagwan Singh, Nirmal Singh S/o Badan Singh combined partner. |
| | | | 9 | 20 | Private | Agriculture | 0.1419 | Smt. Charanjit Kaur Widow and Kuldeep Singh, Sarbjit Singh S/o Smt. Gurjit kaur D/o Gurlabh Singh S/o Basant Singh each four equal part 1/3 part Manjit Singh Daljit Singh S/o Basant Singh S/o karam Singh equal part 2/3 two third part owner possession Bachan Singh S/o Attar Singh S/o Bhagwan Singh, Nirmal Singh S/o Badan Singh combined partner. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------------------------------|--------|--|
| | | | 9 | 21 | Private | Agriculture | 0.0438 | Smt. Charanjit Kaur Widow and Kuldip Singh, Sarbjit Singh S/o Smt. Gurjit kaur D/o Gurlabh Singh S/o Basant Singh each four equal part 1/3 part Manjit Singh Daljit Singh S/o Basant Singh S/o karam Singh equal part 2/3 two third part owner possession Bachan Singh S/o Attar Singh S/o Bhagwan Singh, Nirmal Singh S/o Badan Singh combined partner. |
| | | | 9 | 22 | Private | Agriculture | 0.1026 | Smt. Charanjit Kaur Widow and Kuldip Singh, Sarbjit Singh S/o Smt. Gurjit kaur D/o Gurlabh Singh S/o Basant Singh each four equal part 1/3 part Manjit Singh Daljit Singh S/o Basant Singh S/o karam Singh equal part 2/3 two third part owner possession Bachan Singh S/o Attar Singh S/o Bhagwan Singh, Nirmal Singh S/o Badan Singh combined partner. |
| | | | 8 | 16 | Private | Agriculture | 0.0312 | Smt. Charanjit Kaur Widow and Kuldip Singh, Sarbjit Singh S/o Smt. Gurjit kaur D/o Gurlabh Singh S/o Basant Singh each four equal part 1/3 part Manjit Singh Daljit Singh S/o Basant Singh S/o karam Singh equal part 2/3 two third part owner possession Bachan Singh S/o Attar Singh S/o Bhagwan Singh, Nirmal Singh S/o Badan Singh combined partner. Ranjit Singh S/o Babu Singh S/o Inder Singh Malkan Kamal 1/2 Nisf Nij Combined partner 1/4 Chahram Satpal Singh S/o Ranjit Singh S/o Babu Singh equal part owner possession 1/2 Nisf Dilbagh Singh S/o Babu Singh S/o Inder Singh 1/4 Combined partner. |
| | | | 8 | 14 | Private | Agriculture | 0.0193 | Ranjit Singh S/o Babu Singh S/o Inder Singh Satpal Singh S/o Ranjit Singh S/o Babu Singh owner possession Tara Singh to see khewat no. 2267 combined partner. Dilbag Singh S/o Babu Singh S/o Inder Singh, Jasbir Singh s/o Dilbag Singh S/o Babu Singh equal part owner possession Tara Singh to see khewat No. 2267 combined partner. |
| | | | 8 | 15 | Private | Agriculture and Non Agriculture | 0.1478 | Ranjit Singh S/o Babu Singh S/o Inder Singh Satpal Singh S/o Ranjit Singh S/o Babu Singh owner possession Tara Singh to see khewat no. 2267 |
| | | | 8 | 3 | Private | Agriculture | 0.0791 | Dilbag Singh S/o Babu Singh S/o Inder Singh, Jasbir Singh S/o Dilbag Singh S/o Babu Singh equal part owner possession Tara Singh to see Khewat No. 2267 Combined partner. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-------------|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 8 | 7 | Private | Agriculture | 0.1481 | Dilbag Singh S/o Babu Singh S/o Inder Singh, Jasbir Singh S/o Dilbag Singh S/o Babu Singh equal part owner possession Tara Singh to see Khewat No. 2267 Combined partner. |
| | | | 8 | 8 | Private | Agriculture | 0.0034 | Dilbag Singh S/o Babu Singh S/o Inder Singh, Jasbir Singh S/o Dilbag Singh S/o Babu Singh equal part owner possession Tara Singh to see Khewat No. 2267 Combined partner. |
| | | | 4 | 23 | Private | Agriculture | 0.0378 | Dilbag Singh S/o Babu Singh S/o Inder Singh, Jasbir Singh S/o Dilbag Singh S/o Babu Singh equal part owner possession Tara Singh to see Khewat No. 2267 Combined partner. |
| | | (5) Nanhera | 6 | 22/1 | Private | Plot | 0.0432 | Bharpur Singh S/o Nachtar Singh S/o Mehar Singh Resi. of Tepla 23 part Smt. Sudesh W/o Arvind Kaushal S/o Ramkishan Residence of Ambala Cantt 8 Smt. Savtantar Garg W/o Pawan Kumar Residence of Ambala Cantt 25 part Inderjit S/o Nandlal S/o Kripa Ram Residence of Sangrur 7 part Smt. Raj Rani W/o Sham Lal S/o Hans raj Residence of Ludhiana 7 part Rajesh Kumar, Pardeep Kumar S/o Vijay Kumar S/o Inder ram equal part 7 part Smt Darshna w/o Bhushan Kumar Smt Santosh W/o Sohan Lal equal part S/o Kasturi Lal equal part 7 part Smt. Veena Rani W/o Shiv Kumar S/o Jit ram 7 part Kewal Krishan S/o Chranji Lal S/o Nathu Ram 7/136 part Residence of Bhawani Garh Madan Lal s/o Ram Chander S/o Balak Ram Resi. Of Sangrur 7 Part Smt. Santosh Rani W/o Subash Chander S/o Chaman Lal Resi. of Ambala Cantt 7 part Smt. Santosh Rani W/o Subash chander S/o Chaman Lal Resi. of Ambala Cantt. 7 part. Smt. Kamlesh Rani W/o Bhushan Kumar S/o Karam Chand Smt. Meera Rani W/o Bhushan Kumar S/o Karam Chand Smt. Meena Rani W/o Surinder Kumar S/o Karam Chand equal part Resi. of Barnala 7 part Rajesh Kumar S/o Sham Lal S/o Hans Raj Residence of Ludhiana 7 part Total 136 part. |
| | | | 6 | 19/2 | Private | Population | 0.0262 | Mohan Singh, Surjit Singh, Raghubir Singh S/o and Smt. Sarvan Kaur W/o Aatma Singh S/o Prem Singh each Four part 48/1160 part Smt. Indera W/o Vishavnath S/o Kundan Lal part 160/1160 part Residence of Nasari Madan Faridabad Satnam Singh, Gurnam Singh S/o Jagdish Chand S/o Sardara ram Resi. of Naraingarh 140/1160 part Paramjit Singh S/o Desraj S/o Chmela Ram 160/1160 part Tarsem Lal S/o Jaganath S/o Kalu |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|------------------|-----|--------|---------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | Ram 160/1160 part Rakesh Kumar S/o Omparkash S/o Mangal Sen 20/1160 |
| | | | 6 | 23/1 | Private | Plot | 0.0076 | Smt. Savtantar Garg W/o Pawan Kumar residence of Ambala Cantt. |
| | | | 6 | 23/2 | Private | Plot | 0.0084 | Smt. Savtantar Garg W/o Pawan Kumar residence of Ambala Cantt. |
| | | | 6 | 11/2 | Private | Way | 0.0027 | Bhag singh, Gurdev singh s/o Karm singh s/o Saroop singh equal 1/10 part Pooran singh, Sampurn singh, Sarwan singh s/o Saroop singh, Himmat singh every 3 equal part 3/10 part Jogindra singh, Mahendra singh, harbhajan singh, hamek singh, harpal singh s/o and Smt. Panjab kaur Widow Mehar singh s/o Saroop singh every 6 equal part 1/10 part Gurdayal singh s/o Anoop singh s/o Himmat singh 1/6 part Ajaib singh Lakhmeer singh harjindra singh s/o hari singh s/o Anoop singh every 3 equal part 1/6 part. |
| | | | 6 | 19/1/2 | Private | Agriculture | 0.0061 | Bhag singh, Gurdev singh s/o Karm singh s/o Saroop singh equal 1/10 part Pooran singh, Sampurn singh, Sarwan singh s/o Saroop singh, Himmat singh every 3 equal part 3/10 part Jogindra singh, Mahendra singh, harbhajan singh, hamek singh, harpal singh s/o and Smt. Panjab kaur Widow Mehar singh s/o Saroop singh every 6 equal part 1/10 part Gurdayal singh s/o Anoop singh s/o Himmat singh 1/6 part Ajaib singh Lakhmeer singh harjindra singh s/o hari singh s/o Anoop singh every 3 equal part 1/6 part. |
| | | | | 60 | Gram panchyat | Way | 0.1591 | Grampanchyat Deh. |
| | | | | 74 | Gram panchyat | Way | 0.0025 | Grampanchyat Deh. |
| | | | | 28 | Population | Population | 0.0299 | Population Deh. |
| | | (6) Ambala Cantt | | 443/E | Defence | | 0.0796 | Under Military control |
| | | | | 443/B | Defence | | 0.2441 | Under Military control |
| | | | | 437 | Defence | | 2.7917 | Under Military control |
| | | | | 436 | Defence | | 2.4677 | Under Military control |
| | | | | 433 | Defence | | 0.7051 | National Highway |
| | | | | 428 | Defence | | 0.3469 | Under Military control |
| | | | | 426 | Defence | | 0.2026 | Under Military control |
| | | | | 425 | Defence | | 0.3737 | Under Military control |
| | | | | 421 | Defence | | 6.6342 | Under Military control |
| | | | | 419 | Defence | | 0.1895 | Under Military control |
| | | | | 414 | Defence | | 4.0981 | Under Military control |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----------------|-----|------|------------|-----------------|--------|---|
| | | | | 393 | Defence | | 0.6613 | Under Military control |
| | | | | Way | Defence | | 0.0237 | Under Military control |
| | | | | 392 | Defence | | 0.3437 | Under Military control |
| | | | | 385 | Defence | | 0.1088 | Under Military control |
| | | | | 384 | Defence | | 0.5405 | Under Military control |
| | | | | 383A | Defence | | 0.4131 | Under Military control |
| | | | | 383 | Defence | | 0.6151 | Under Military control |
| | | (7) Jandli | | 80 | Private | Non Agriculture | 0.0728 | Bhagwan Das 1/82 part Faqir Chand S/o Shadi Ram S/o Govindram 6/41 part Surjan Singh S/o Sharn Ram S/o Maha Ram 7/82 part Shishpal S/o Surat ram S/o Teluram 5/41 part Vasideh Pyare Lal S/o Mata deen S/o Ramratan 11/164 part Residence of 27 28 Lakshmi Nagar Jandli Distt. Ambala Gurmit Singh S/o Sant ram S/o Kanhiya ram rahan hissa 10/82 part residence of Lalana Distt. Ambala Smt. Savita D/o Hansraj D/o Ramchander 5/41 part Murthan Smt Gurdial Kaur W/o Pardaman Singh S/o Nihal Chand 1/41 part Smt. Tarlochan Kaur Widow and Hardeep Kaur, Jagjit Kaur Harpreet kaur D/o Gurdip singh S/o Jaswant Singh S/o Nihal Singh each 5 equal part 1/141 part vasideh Grunam Singh S/o Charan Singh S/o Aatma Singh 9/82 part resi. Friends Colony Ambala City Smt. Anita devi w/o Mohinder Parkash S/o Data Ram 1/41 part resi. 573/17 Garish Kumar S/o Nathi ram S/o Mansher Singh 3/82 |
| | | | | 81 | Private | Non Agriculture | 0.0025 | Baljit Singh, Karnail Singh S/o Hazara Singh S/o Ram Kishan each Two equal part 5/26 part Vasideh Sher Singh S/o Ramkishan S/o Nathu 7/52 resi. Nabha Surjan Singh S/o Sorn Ram S/o Maharam 7/52 part resi. Hangoli Naryangarh Smt. Prem W/o Ram chander S/o Bandhar ram 3/13 part resi 8 peri Hotal Ambala Cantt Kaidar Nath S/o Sardari Lal Ambala City 5/26 part Smt. Paramjit Kaur W/o Jagar 3/26 part vasideh. |
| | | | | 59 | Government | Road | 0.0506 | State Government |
| | | (8) PATTI MEHAR | 7 | 19 | Government | Population | 0.0882 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 7 | 20/1 | Government | Plot | 0.1086 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|------------|------|--------|---|
| | | | 7 | 11/2 | Government | Plot | 0.1644 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 7 | 11/1 | Government | Plot | 0.1392 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 8 | 15 | Government | Plot | 0.1939 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 8 | 14 | Government | Plot | 0.0027 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 8 | 6 | Government | Plot | 0.1163 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 8 | 7 | Government | Plot | 0.2935 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 8 | 8/1 | Government | Plot | 0.0189 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 8 | 8/2 | Government | Plot | 0.0025 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 8 | 3/3 | Government | Plot | 0.0391 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 8 | 3/1 | Government | Plot | 0.1695 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | | 1097 | Government | Plot | 0.0101 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | | 1095 | Government | Plot | 0.0113 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------|----------------|--------|---|
| | | | 8 | 2/2 | Government | Plot | 0.0051 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 8 | 2/1 | Government | Plot | 0.0294 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | | 96 | Government | Plot | 0.2153 | Central Government acquired Property |
| | | | 8 | 3/2 | Private | Plot | 0.0414 | Sardar Singh, Garja S/o Sundera S/o Nathu each Two equal part 2/9 part resi. Jandli Jagir Singh S/o Sunder Singh S/o Nathu 4/9 part resi. Jandli Jagiro, Sito, Amarjit Kaur D/o Sunder S/o Nathu each Three equal part 1/3 and resi. Jandli. |
| | | | 6 | 22/2 | Government | Plot | 0.1161 | Haryana District Urban Development Authority owner possession Central Government acquired Property to see khewat No 402 Combined partner. |
| | | | 6 | 22/1 | Government | Plot | 0.0033 | Haryana District Urban Development Authority |
| | | | | 850 | Government | Mandi | 0.0033 | Haryana Stat Government |
| | | | | 855 | Government | Mandi | 0.0025 | Haryana Stat Government |
| | | | | 854 | Government | Mandi | 0.0077 | Central Government acquired Property |
| | | | | 861 | Private and Government | Mandi | 0.0187 | Mahesh Das S/o Jaganath S/o Mahavir Chand 11/32 part Raman Kumar, Davinder Kumar, Krishan Lal Mohan Lal S/o Lal Chand S/o Ram chander each Four equal part 21/32 part Owner possession Central State Government owner Possession Central Government acquired Property to see Khewat No. 402 combined partner. Haryana State Government. |
| | | | | 862/1 | Private and Government | Smadhi and Way | 0.0150 | Haryana State Government owner Possession Central Government acquired Property Musharka 64 part Jail. Lajpat Rai S/o Desraj 1/72 part Smt. Sharda Rani W/o Satpal 1/72 part Smt. Rama rani W/o and Dinesh Kumar S/o Anil Parkash S/o Banarsi Dass equal part 15 part Suresh Kumar S/o 11 part and Smt. Sahani Rani 3 Part W/o Omparkash S/o Duni Chand, Jai Singh S/o Chanan Singh S/o Basant Singh 4 part Sham Lal S/o Ramkishan S/o Maiya Dass 4 part Satish Kumar Darshan Kumar S/o Lachman Dass 8 Part Smt Sobha Rani W/o Narinder pal S/o Barkh ram Distt. Patiala 4 part owner possession |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|--------|--|
| | | | | 924 | Private | Road | 0.0291 | <p>Joint ownership possession 12451 part Jail. Parmjit S/o Badrinath 2/5 part, Harminder 1/5 Part S/o and Smt. Rama 1/5 part W/o partmjit S/o Badrinath Resi. Of 934/7 Panchkula and Smt. Jyoti W/o Vikas Resi. Of Jalalabad Distt. Firozpur 1/5 part Bhag dar 9 part Smt. Reetu D/o Suresh Kumar Sharma 29/4 Panchkula 7/20 part Jatinder S/o Parmjit Resi. 934/7 Panchkula 7/20 Part Vikas S/o Bnarsidas Resi. of 603/8 Panchkula 3/10 Part dar 9 part Smt. Lata W/o Ashok S/o Madan Lal Resi. of Ambala Road Kaithal 9 part Ashok S/o Madan Lal S/o Ramsharan das Resi. of Ambala road Kaithal 9 part. Ashish Kumar S/o Nanha Ram Resi. of Manuganga Mohalla Kaithal 9 part. Omparkash and Suns, Anil Kumar S/o Omparkash Resi. of D-257 Ashok Vihar, New Delhi 9 part Vikram Singh S/o Bhupinder Singh Resi. of Dera Fateh Singh Pehwa Dist. Kurukshetra 9 Part Kamaljit Singh S/o Chajja Singh S/o Kehar Singh Resi. of Jirakpur Distt. Patiala 9 Part Arun Kumar S/o Omparkash and Rajkumar S/o Prem Chand equal part Resi. of Anajmadi Ambala Cantt 9 part Bhupiner Singh S/o Charan Singh Verma Slem pur Jattan Teh. and Distt. Patiala 9 Part Gurcharan Singh S/o Jang Singh Verma Aalgevala Teh. Nabha Dist. Patiala 9 Part Mahesh S/o Ramlubhaya Resi. of 1126 Sec. 17 Panchkula 9 part Smt. Reta W/o Nirmal Singh S/o Rikhi Ram 3/5 part Kulip kumar, Ranjit Singh S/o Rikhi ram S/o Nirana Ram equal part 2/5 part Resi. of Anandpur Jalbedar Dar 9 part Jagmohan S/o Jaichand parkash, Ganeshi Lal Sharma Jgadhri and Anantram S/o Raghunandan Lal S/o Mul Chand Verma Mullana equal part 3 part and Subash Chand S/o Kasturi Lal Verma Patel College Rajpura Distt. Patiala 9 part Ramesh Kuamar S/o Shivram Resi. of Dmori Teh. Derabasi Distt. Patiala 451 part Anil Kumar S/o Omparkash Resi. of 257 Firm No. 1 Ashish Vihar Dehli 116 Part Sukhdev Singh S/o Nasib Singh Resi. of Ravlan Teh. Ambala 191 part Subash S/o Ramsharan Resi. of B-26, Moti Lal Nehru Marg Aadarsh Nagar Delhi 239 part Yadvinder Singh S/o Sewa Singh Resi. of Kaithal 362 part Sushil Kumar S/o Omparkash Resi. Of Vazirpur Industrial Area Deli 116 part Surinder Kumar S/o Babu Ram Resi. Of Dmoli Teh. Derabasi 116 Part Jaspal Singh S/o Nasib Singh Resi. of Rawlan Teh. Ambala 161 part part Anirudh Kumar</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-------------------|-----|-----|------------|------------|--------|--|
| | | | | 925 | Private | Population | 0.0668 | Joint ownership possession 12451 part Jail. Paramjit S/o Badrinath 2/5 part, Harminder 1/5 Part S/o and Smt. Rama 1/5 part W/o partmjrit S/o Badrinath Resi. Of 934/7 Panchkula and Smt. Jyoti W/o Vikas Resi. Of Jalalabad Distt. Firozepur 1/5 part Bhag dar 9 part Smt. Reetu D/o Suresh Kumar Sharma 29/4 Panchkula 7/20 part Jatinder S/o Parmjit Resi. 934/7 Panchkula 7/20 Part Vikas S/o Bnarsidas Resi. of 603/8 Panchkula 3/10 Part dar 9 part Smt. Lata W/o Ashok S/o Madan Lal Resi. of Ambala Road Kaithal 9 part Ashok S/o Madan Lal S/o Ramsharan das Resi. of Amabala road Kaithal 9 part Ashish Kumar S/o Nanha Ram Resi. of Manuganga Mohalla Kaithal 9 part. Omparkash and Suns, Anil Kumar S/o Omparkash Resi. of D-257 Ashok Vihar, New Delhi 9 part Vikram Singh S/o Bhupinder Singh Resi. of Dera Fateh Singh Pehwa Dist. Kurukshetra 9 Part Kamaljit Singh S/o Chajja Singh S/o Kehar Singh Resi. of Jirakpur Distt. Patiala 9 Part Arun Kumar S/o Omparkash and Rajkumar S/o Prem Chand equal part Resi. of Anajmadi Ambala Cantt 9 part Bhupiner Singh S/o Charan Singh Verma Stem pur Jattan Teh. and Distt. Patiala 9 Part Gurcharan Singh S/o Jang Singh Verma Aalgevala Teh. Nabha Dist. Patiala 9 Part Mahesh S/o Ramlubhaya Resi. of 1126 Sec. 17 Panchkula 9 part Smt. Reta W/o Nirmal Singh S/o Rikhi Ram 3/5 part Kulip kumar, Ranjit Singh S/o Rikhi ram S/o Nirana Ram equal part 2/5 part Resi. of Anandpur Jalbedda Dar 9 part Jagmohan S/o Jaichand parkash, Ganeshi Lal Sharma Jgadhri and Anantram S/o Raghunandan Lal S/o Mul Chand Verma Mullana equal part 3 part and Subash Chand S/o Kasturi Lal Verma Patel College Rajpura Distt. Patiala 9 part Ramesh Kuamar S/o Shivram Resi. of Dmori Teh. Derabasi Distt. Patiala 451 part Anil Kumar S/o Omparkash Resi. of 257 Firm No. 1 Ashish Vihar Dehli 116 Part Sukhdev Singh S/o Nasib Singh Resi. of Ravlan Teh. Ambala 191 part Subash S/o Ramsharan Resi. of B-26 Moti Lal Nehru Marg Aadarsh Nagar Delhi 239 part Yadvinder Singh S/o Sewa Singh Resi. of Kaithal 362 part Sushil Kumar |
| | | | | 926 | Private | Population | 0.0262 | Naurata mall S/o punjab Rai 3/4 part Ramu Mall, Govind Lal Namalua each 2 equal part 1/4 part vasideh. |
| | | (9) Patti Acharja | | 66 | Government | Population | 0.0366 | Haryana State Government |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|--------------------|-----|-------|--------------|-----------------|--------|--|
| | | | | 41 | Private | Population | 0.0086 | Rajinder Kumar, Mohinder Kumar S/o Gaurishankar S/o Mutabana Kanshi Ram equal part 2/3 part Smt. Sudha Widow, Smt Arun, Anjali D/o Anil Kumar S/o Gaurishankar equal part |
| | | | | 104 | Private | Population | 0.0172 | Chota Ram S/o Jawara S/o Kewal Ram vasideh. |
| | | | | 102/1 | Private | Population | 0.0258 | Dhir Singh S/o Sukur Ram S/o Kewal Ram. |
| | | | | 103 | Private | House | 0.2428 | Surjit Singh, Charanjit Singh S/o Kesar Singh S/o Hardit Singh each Two equal part 44/133 part Dhaminder Singh S/o Ujagar Singh S/o Hardit Singh 56/133 part Smt. Nasib Kaur widow, Miss Darshan Kaur D/o Kesar Singh S/o Hardit Singh equal part 33/133 part. |
| | | | | 101/2 | Private | Population | 0.0581 | Inder Ram S/o Aatma Ram S/o Attar Singh resi. Ambala City. |
| | | (10) Patti Kalalan | | 422 | Private | Population | 0.0247 | Munshi Ram S/o Sukh Ram Rahan part 1/2 part owner 1/2 part owner possession Baru Ram S/o Munshi Ram S/o Sukhram Rahan part 1/2 part owner possession Manjeet Singh Jagjeet Singh S/o Amar Singh every 2 equal part leaser Manjeet Singh, Jagjeet Singh S/o Amar Singh every 2 equal part villagers Combined partners |
| | | | | 445 | Nagar Palika | Population | 0.2146 | Nagar Palika etc |
| | | | | 446 | Nagar Palika | Plot | 0.0309 | Nagar Palika etc |
| | | | | 447 | Nagar Palika | Non Agriculture | 0.0324 | Nagar Palika etc |
| | | | | 448 | Nagar Palika | Non Agriculture | 0.1490 | Nagar Palika etc |
| | | | | 449 | Nagar Palika | Pond | 0.2283 | Nagar Palika etc |
| | | | | 450 | Nagar Palika | Non Agriculture | 0.0025 | Nagar Palika etc |
| | | | | 451 | Private | Non Agriculture | 0.2651 | Nirmal Das Datak S/O hari Das, Chela, Mahant Saran Das owner possession Ajaser village villagers combined partners |
| | | | | 452 | Private | Non Agriculture | 0.1351 | Nirmal Das Datak S/O hari Das, Chela, Mahant Saran Das owner possession Ajaser village villagers combined partners |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------------|--------|---|
| | | | 18 | 9 | Private | Non Agriculture | 0.0277 | Tarachand, Ganesh, Kewal, Pappu, S/o Mohanlal, S/o Jeet Ram every 4 equal part 3/50 part villagers owner possession Tej Ram S/o Kanhiya Lal S/o 3/200 part resident Railway Road Ambala City owner possession Mohan Lal S/o Tiku S/o Wali Ram 8/40 part resident civil hospital owner possession Smt. Shakutnka Devi w/o Salag Ram S/o Wali Ram 8/40 part resident Ambala City owner possession Nirmal das chela hari das s/o hemant Saran das 16/40 part owner possession Rohtash s/o Mohit S/o Rameshwar s/o Gori 1/140 part owner possession Mohit |
| | | | 18 | 10 | Private | Nala | 0.0291 | Rachni Kumar, Sudharsan Kumar S/o Chuhad Ram S/o Fakirya Ram every 2 equal part 14/155 part resident Nalagarh Solan owner possession Mohit S/o Kishan Lal S/o Chaman Lal 8/155 part owner possession Shivrinarayan S/o Gurucharan Singh S/o Ganga Vishan 3/155 part owner possession Makhan Lal S/o Sant Ram S/o Ghasita Ram 1/155 part owner possession Kripal Singh S/o Tara Singh S/o Gahna Singh 1/155 part villagers owner possession Shankar S/o Samdin S/o Udai 3/155 part resident Ambala City owner possession Karmjeet S/o Ramdas S/o Naurata Ram 2/155 part resident Ambala City owner possession Srimati Shanti Devi W/o Ramesh Chand S/o Vishan 1/310 part owner possession Ashok Kumar S/o Khemchand S/o Vishan Ram 1/310 part owner possession Tara Chand, Pappu, Ganesh, Kewal S/o Mohan Lal S/o Jeet Ram every 4 equal part 12/775 part owner possession Tej Ram S/o Kanhiya Lal 3/775 part owner possession Mulakh Raj, Mulchand S/o Mata Deen every 2 equal part 2/155 part owners a possession Srimati Amarjeet W/o Gurucharan Singh S/o Ratan Singh 5/155 part owner possession Netraul S/o Mukhatyar Singh S/o Rudi 3/155 part owner possession Budh Ram S/o Maharathi 1/155 owner possession Ramswoop S/o Babu Lal S/o Verarai |
| | | | 18 | 1 | Private | Non Agriculture | 0.0327 | Sarwan Lal S/o Sant Ram S/o Ghasita Ram 1/5 part Raj Kumar S/o Sanu Ram S/o Tikam Das 1/10 Kamjeet S/o Ramdas S/o Norta Ram 1/30 part Srimati Amarjeet W/o Gurucharan Singh S/o Ratan Singh 1/30 part Mulakh Raj, Mulchand, S/o Mata Deen every 2 equal part 1/30 part villagers Budhram S/o Maharathi 1/12 part resident Naya Gaon Ambala City Ramswoop S/o Babulal S/o Beraj 1/12 part Nirmal Das Chela hari Das S/o Hemant Saran Das 4/15 part villagers Satpal S/o Chamela Ram S/o |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | 19 | 5/2 | Private | Non Agriculture | 0.0282 | Nirmal Das Datak S/O hari Das, Chela, mahant Saran Das owner possession resident village combined partners |
| | | | 19 | 5/1 | Private | Non Agriculture | 0.0063 | Madan Lal S/o Vihari Lal S/o Jagu Ram owner possession harish chand s/o Seehjada Ram villagers combined partners |
| | | | 13 | 24/2 | Private | Agriculture | 0.0152 | Madan Lal S/o Vihari Lal S/o Jagu Ram owner possession harish chand s/o Seehjada Ram villagers combined partners |
| | | | 13 | 24/1 | Private | Agriculture | 0.0025 | Madan Lal S/o Vihari Lal S/o Jagu Ram Tejinder pal Singh, Rajinder pal Singh S/o Naranjan Singh S/o Ude Singh every 2 equal part Vesi deh combined partners. |
| | | | | 37 | Private | Agriculture | 0.0323 | Puran Chand S/o Janki Prasad S/o Karta Ram 1/12 part Madan Lal S/o Vihari Lal S/o Jagumal 11/56 part Omprakash S/o and Srimati Nirmala devi, Rama Devi, Sila Devi daughters Ganga Devi, Vihari Lal S/o Jagu Ram every 5 equal part 15/32 part owners a possession Desraj, Vijay Kumar S/o Samlal S/o Vihari Lal 2 equal part 7/64 part owners a possession harish Chand S/o Sehjada Ram 1/18 part Dharmprakash S/o Din Dayal 1/18 part Prem Chand S/o Janaki Prasad S/o Karta Ram 23/36 part owner possession Sham Lal S/o Premkumar, Rajan S/o Madan Lal S/o Vihari Lal every 2 equal part 2/21 part owner possession Jay Kumar, Devraj, S/o Samlal S/o Vihari Lal every 2 equal part 3/64 part villagers owners possession |
| | | | | 38 | Private | way | 0.0099 | Puran Chand S/o Janki Prasad S/o Karta Ram 1/12 part Madan Lal S/o Vihari Lal S/o Jagumal 11/56 part Omprakash S/o and Srimati Nirmala devi, Rama Devi, Sila Devi daughters Ganga Devi, Vihari Lal S/o Jagu Ram every 5 equal part 15/32 part owners a possession Desraj, Vijay Kumar S/o Samlal S/o Vihari Lal 2 equal part 7/64 part owners a possession harish Chand S/o Sehjada Ram 1/18 part Dharmprakash S/o Din Dayal 1/18 part Prem Chand S/o Janaki Prasad S/o Karta Ram 23/36 part owner possession Sham Lal S/o Premkumar, Rajan S/o Madan Lal S/o Vihari Lal every 2 equal part 2/21 part owner possession Jay Kumar, Devraj, S/o Samlal S/o Vihari Lal every 2 equal part 3/64 part villagers owners possession |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|------------|--------|---|
| | | | | 36 | Combined village | Population | 0.0025 | Combined village |
| | | | | 460 | Combined village | Population | 0.0085 | Combined village |
| | | | | 462/1 | Private | way | 0.0267 | Joint ownership possession Raji Hasab Rasad Khewat Combined partner. |
| | | | 13 | 18 | Private | way | 0.0578 | Gurbhakash Singh, Daljeet Singh, Bharpur Singh, S/o Sohan Singh S/o Gurman Singh every 3 equal part ownership Jointly Prakash Chand, Eshwar Chand, S/o Veer Chand S/o Chhajumal every 2 equal part 1/2 part Varindar Kumar S/o Ramchandrar S/o Veer Chand 1/4 part Prathvi Chand, Sushil Kumar, Bhushan kumar S/o hari chand every 3 equal part 1/4 part villagers owner possession |
| | | | 13 | 19/1 | Private | Query | 0.0101 | Gurbhakash Singh, Daljeet Singh, Bharpur Singh, S/o Sohan Singh S/o Gurman Singh every 3 equal part ownership Jointly Prakash Chand, Eshwar Chand, S/o Veer Chand S/o Chhajumal every 2 equal part 1/2 part Varindar Kumar S/o Ramchandrar S/o Veer Chand 1/4 part Prathvi Chand, Sushil Kumar, Bhushan kumar S/o hari chand every 3 equal part 1/4 part villagers owner possession |
| | | | 13 | 12 | Private | Query | 0.0314 | Tejindar Pal Singh, Rajendra Pal Singh S/o Narjan Singh S/o Udai Singh every 2 equal part villagers combined ownership, Atam Prakash S/o Chanda Mal S/o Budhram resident Chandigarh |
| | | | 13 | 11/3 | Private | Query | 0.0063 | Tejindar Pal Singh, Rajendra Pal Singh S/o Narjan Singh S/o Udai Singh every 2 equal part villagers combined ownership, Atam Prakash S/o Chanda Mal S/o Budhram resident Chandigarh |
| | | | | 479 | Private | way | 0.0084 | Joint ownership possession Raji Hasab Rasad Khewat Combined partner. |
| | | | 13 | 11/1 | Private | way | 0.0322 | Gurbhan Singh S/o Pradhan Singh S/o Gurmukh Singh 17/50 part Srimati Vidhawati W/o Girdhari Lal S/o Sewaram 7/50 part Virendra Kumar S/o Saym Lal 13/50 part Kapur Chand S/o Sant Ram 13/50 resident village |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|--|-----|-----|---------|-------------|--------|--|
| | | | 5 | 22 | Private | Plot | 0.0178 | Sukhjinder Singh Jarnail Singh, harbhjan Singh S/o and Bhupinder Kaur Kako, Akvindra Kor Soniya daughters Ajit Singh every 7 equal part 93/178 part Malkit Kor Surindar Kaur Daughters Ajit Singh every 2 equal part 19/178 part Srimati Raj Kaur widow Ajit Singh 1/89 part Manjeet Kaur Ajit Singh S/o 3/89 part Ram Singh S/o Hunar Singh 7/178 part Mahendra Pal, Tejpal S/o every 2 equal part 7/178 part Hardev Ram S/o Raja 1/89 part Ratan Singh S/o Surinder Singh 7/89 part Srimati Ajmervato S/o Nikka Ram S/o Mangal Ram 1/89 part Prem Nain S/o Fakir Chand 5/356 part Ved Prakash S/o Devi Das 11/356 part Sanjay kumar S/o Balak Ram S/o Faggu Ram 2/89 part Amarnath S/o hari Chand 7/178 part villagers. |
| | | | 5 | 20 | Private | Population | 0.0181 | Sadhu Singh, Darbara Singh, Parmjeet Singh Charanjit S/o Puran Singh S/o Chanan Singh every 4 equal part resident Patti Acharja |
| | | | 6 | 15 | Private | Agriculture | 0.0158 | Sadhu Singh, Darbara Singh, Parmjeet Singh Charanjit S/o Puran Singh S/o Chanan Singh every 4 equal part resident Patti Acharja |
| | | (11) Patti Jattan (Patti Rangran) | 75 | 1 | Private | Agriculture | 0.0261 | Nasib Singh 323 part Karnail Singh 46 part Balwant Singh 166/1/2 part S/o Bishna Joginder Singh, Surinder Singh Nirmal Singh, Harnek Singh S/o, Baljinder Kaur D/o Mansa Singh equal Part 66/1/2 part Jasmer Kaur W/o Hakam Singh Kuldeep Kaur W/o Natha Singh equal part 313 part Natha Singh, Hakam Singh S/o Kartar Singh 277 part Gurbachan Singh S/o Ajiab Singh 403 Rajhans Kaur D/o Ajaib Singh 108 part Nachtar Kaur 225 part widow, Manjeet Kaur Daljit Kaur Taranjit Kaur equal part 972 part D/o Labh Singh Labh Kaur D/o Ajmer Singh 162 part Ravinder Widow, Dilbagh Singh, Harvinder Singh, Tej Parkash S/o Balwant Singh S/o Amar Singh equal part 4/5 part Smt. Dharminder Kaur Widow Hakam Singh S/o Gurdev Singh S/o Balwant Singh equal part 442/5 every part 781 part Devinder Singh Iqbal Singh, Tarlochan Singh S/o Gain Singh equal part 48 Gurpreet Kaur W/o Madan Lal 16 part Jaswant Singh S/o Gurbaksh Singh 12 part Daljit Singh S/o Ramsrup 12 part Parveen Kumar Santosh Rai S/o |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------------|--------|--|
| | | | 75 | 9 | Private | Agriculture | 0.0369 | Nasib Singh 323 part Karnail Singh 48 part Balwant Singh 166/1/2 part S/o Bishna Joginder Singh, Surinder Singh Nirmal Singh, Harnek Singh S/o, Baljinder Kaur D/o Mansa Singh equal Part 66/1/2 part Jasmer Kaur W/o Hakam Singh Kuldeep Kaur W/o Natha Singh equal part 313 part Natha Singh, Hakam Singh S/o Kartar Singh 277 part Gurbachan Singh S/o Ajaib Singh 403 Rajhans Kaur D/o Ajaib Singh 108 part Nachtar Kaur 225 part widow, Manjeet Kaur Daljit Kaur Taranjit Kaur equal part 972 part D/o Labh Singh Labh Kaur D/o Ajmer Singh 162 part Ravinder Widow, Dilbagh Singh, Harvinder Singh, Tej Parkash S/o Balwant Singh S/o Amar Singh equal part 4/5 part Smt. Dharminder Kaur Widow Hakam Singh S/o Gurdev Singh S/o Balwant Singh equal part 442/5 every part 781 part Devinder Singh Iqbal Singh, Tarlochan Singh S/o Gain Singh equal part 48 Gurpreet Kaur W/o Madan Lal 16 part Jaswant Singh S/o Gurbaksh Singh 12 part Daljit Singh S/o Ramsrup 12 part Parveen Kumar Santosh Rai S/o Jaswant Rai 8 Part Ramparshad S/o |
| | | | 75 | 13/1 | Private | Agriculture | 0.0319 | Saudagar Singh 15 part Ujagar Singh 24 par Bhdur Singh 22 part S/o and Gurmit Kaur 38 Part Widow and Karamjit Kaur 14 part D/o Mohinder Singh S/o Tilak Singh, Hakam Singh S/o Kartar Singh 58 part Ranjit Singh 19 part S/o Kuljit Kaur 39 part Widow and Natha Singh Balbir Singh, Dalbir Singh, Ranjeet Singh equal part 64 part S/o and Gurpal Kaur Widow and Surinder Kaur Natvir Kaur Khushwinder Kaur Narinder Kaur equal part 23 part D/o Gurbaksh Singh, Dilbagh Singh Harvinder Singh Tejparkash Singh S/o Balwant Singh equal part 150 part Tara chand S/o Palaram 166 part Palwinder Singh S/o Gurbachan Singh 7 part Narinder Singh S/o Jai Singh and Shital Singh S/o Surinder equal part 282 part Narinder Singh S/o Naurata Singh 1 part. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|------|-------|-----|------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 75 | 13/2 | Private | Agriculture | 0.0025 | Smt. Gurbachan Kaur Widow and Harbans Singh, Meha Singh, Tarlochan Singh S/o Jaswinder Singh S/o and Jaswant Kaur, Harbans Kaur, Surinder Kaur, Karamjeet Kaur, Mohinder Kaur D/o Gurdial Singh allies Dyal Singh S/o Jeeva Singh equal part 1/12 part Bakhtawar Singh S/o Jeeva Singh 1/20 part Amarjeet Singh S/o Tara Singh 1/12 part Jaspal Singh, Gurmail Singh S/o Dayal Singh equal part 1/20 part Hakam Singh, Natha Singh S/o Kartar Singh equal part 1/4 part Jaswant Singh Jarnail Singh, Gurmail Singh S/o Kartar Singh S/o Gurdit Singh equal part 1/2 part. |
| | | | 75 | 14 | Private | Agriculture | 0.0284 | Smt. Gurbachan Kaur Widow and Harbans Singh, Meha Singh, Tarlochan Singh S/o Jaswinder Singh S/o and Jaswant Kaur, Harbans Kaur, Surinder Kaur, Karamjeet Kaur, Mohinder Kaur D/o Gurdial Singh allies Dyal Singh S/o Jeeva Singh equal part 1/12 part Bakhtawar Singh S/o Jeeva Singh 1/20 part Amarjeet Singh S/o Tara Singh 1/12 part Jaspal Singh, Gurmail Singh S/o Dayal Singh equal part 1/20 part Hakam Singh, Natha Singh S/o Kartar Singh equal part 1/4 part Jaswant Singh Jarnail Singh, Gurmail Singh S/o Kartar Singh S/o Gurdit Singh equal part 1/2 part. |
| | (12) | Ghail | 44 | 1 | Private | Agriculture | 0.0162 | Gain Singh allies Tara Singh S/o Amar Singh S/o Bhola Singh, Gurdev Singh Baldev Singh, Mohinder Singh S/o Gain Singh allies Tara Singh S/o Amar Singh equal part 1/4 part and Smt. Veena Rani Widow Vikramjeet Singh. |
| | | | 31 | 13/1 | Private | Agriculture | 0.0025 | Bachan Singh S/o Puran Singh S/o Hari Singh. |
| | | | 31 | 13/2 | Private | Agriculture | 0.0101 | Joint ownership possession Khewat 48 equal part Tarlochan Singh 15 part Sarwan Singh 16 part S/o Sadhu Singh S/o Attar Singh, Faqir chand S/o Rulia ram S/o Muda ram 11 part Baljeet ram S/o Pait ram S/o Rulia ram 5 part baja ram S/o Mukandi ram 1 part. |
| | | | 31 | 12/1 | Private | Agriculture | 0.0051 | Jagdev Singh, Hardev Singh S/o Kartar Singh equal part. |
| | | | 31 | 9/3 | Private | Agriculture | 0.0063 | Omparkash, Surta ram Geja ram S/o Kehar Singh S/o Chanduram resi. Devi Nagar. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|------|---------------|-------------|--------|--|
| | | | 31 | 10 | Private | Agriculture | 0.0025 | Omparkash, Surta ram Geja ram S/o Kehar Singh S/o Chanduram resi. Devi Nagar. |
| | | | 26 | 15 | Private | Agriculture | 0.0882 | Smt. Kamla Devi D/o Vijay Singh S/o Pitambar Singh Vasideh |
| | | | 26 | 7 | Private | Agriculture | 0.1286 | Smt. Kanta Devi D/o Raghubir Singh S/o Pitamber Singh. |
| | | | 26 | 2 | Private | Agriculture | 0.0025 | Joint owner possession 28 part Jaol Hakam Singh S/o Kartar Singh S/o Gurdit Singh 7 part Surjit Singh, Kanwaljit Singh Sukhpal Singh, Jasbir Singh S/o Khjan Singh S/o Lachman das 65 part Narinder Singh S/o Fool Singh S/o Inderaj Singh resi. Raipur Manya Distt. Saharanpur 187 part Darshanram S/o Bakhtawar ram S/o Baru Ram 21 part. |
| | | | 26 | 3 | Private | Agriculture | 0.1484 | Joint owner possession 28 part jail. Shamsheer Singh, Gurnam Singh equal part 9 and Nij Murthin Hakam Singh 3 part S/o Kartar Singh S/o Gurdit Singh Tejinder Singh S/o Fool Singh S/o Inderaj Singh resi. Rampur Manya Distt. Saharanpur 48 part Rahan Surjit Singh, Kanwaljit Singh Sukhpal Singh, Jasbir Singh S/o Khajan Singh S/o Lachman Das 26 part |
| | | | | 75 | Gram panchyat | Agriculture | 0.0794 | Joint ownership |
| | | | 18 | 20 | Private | Agriculture | 0.1150 | Smt. Vidyavati widow Hardyal Singh S/o Pitambar Singh. |
| | | | 18 | 21 | Private | Agriculture | 0.0984 | Smt. Vidyavati widow Hardyal Singh S/o Pitambar Singh. |
| | | | 18 | 22 | Private | Agriculture | 0.1151 | Smt. Vidyavati widow Hardyal Singh S/o Pitambar Singh. |
| | | | 19 | 16/1 | Private | Agriculture | 0.0303 | Smt. Vidyavati widow Hardyal Singh S/o Pitambar Singh. |
| | | | 19 | 16/2 | Private | Agriculture | 0.1837 | Bant ram S/o Mangat Ram S/o Jethu ram Bila Rahan 1/2 part Rajesh Kumar S/o Bant ram S/o Mangat ram 160/437 part Rahan bila 58/437 part Ajay Kumar S/o Jwala das S/o Narata ram to see khewat No 97/1 Vishavkarma road Ambala City 160/437 part Murthan. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|--------|--|
| | | | 19 | 15 | Private | Agriculture | 0.0455 | Bant ram S/o Mangat Ram S/o Jethu ram Bila Rahan 1/2 part Rajesh Kumar S/o Bant ram S/o Mangat ram 160/437 part Rahan bila 58/437 part Ajay Kumar S/o Jwala das S/o Narata ram to see khewat No.97/1 Vishavkarma road Ambala City 160/437 part Murthan. |
| | | | 19 | 14 | Private | Agriculture | 0.2489 | Bant ram S/o Mangat Ram S/o Jethu ram Bila Rahan 1/2 part Rajesh Kumar S/o Bant ram S/o Mangat ram 160/437 part Rahan bila 58/437 part Ajay Kumar S/o Jwala das S/o Narata ram to see khewat No.97/1 Vishavkarma road Ambala City 160/437 part Murthan. |
| | | | 19 | 13 | Private | Agriculture | 0.0598 | Lachmandas S/o Gendaram S/o Bhagvana ram Resi. Malkupan Tehsil Dudhan Dist. Patiala. |
| | | | 19 | 8 | Private | Agriculture | 0.2499 | Lachmandas S/o Gendaram S/o Veeru ram 1/2 Nisf and Ajaib Singh S/o Nachtar Singh S/o Bakshish Singh resi. Hidayatpur Tehsil Rajpura Distt. Patiala 1/2 part Nisf. |
| | | | 19 | 9 | Private | Agriculture | 0.1121 | Vachitar Singh S/o Bant ram S/o Mukandi ram resi. Julka Patiala Vijay Kumar S/o Shetal parshad S/o Ganga ram resi.48-A ArtiMarket Ghail road Ambala City Murthin. |
| | | | 19 | 2 | Private | Agriculture | 0.1740 | Vachitar Singh S/o Bant ram S/o Mukandi ram resi. Julka Patiala Vijay Kumar S/o Shetal parshad S/o Ganga ram resi.48-A ArtiMarket Ghail road Ambala City Murthin. |
| | | | 19 | 1 | Private | Agriculture | 0.1698 | Vishal S/o Madanmohan Singh S/o Raghubir Singh. |
| | | | 9 | 21 | Private | Agriculture | 0.1357 | Vishal S/o Madanmohan Singh S/o Raghubir Singh. |
| | | | 8 | 25 | Private | Agriculture | 0.2187 | Vishal S/o Madanmohan Singh S/o Raghubir Singh. |
| | | | 8 | 13 | Private | Agriculture | 0.2799 | Gurmit Singh S/o Sarwan Singh S/o Jwahr Singh 1/8 part Sohan Singh S/o Kapur Singh S/o Buda Singh S/o resi. Chakalhiva Tehsil Distt. Nawansehar 1/8 part Smt. Varinder Kaur W/o Shamsher Singh S/o Mela Singh resi. 2342/2 Ambala City 91 part Kanwal Singh, Kundan Singh S/o Sohan Singh and Smt. Mohinder Kaur W/o Kashmir Singh S/o Kundan Singh and Jasbir Singh, Jaswant Singh S/o Kundan Singh S/o Sohan Singh equal part 476 part 3/4 part Three chahram. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|--------|--|
| | | | 8 | 17 | Private | Agriculture | 0.3103 | Gurmit Singh S/o Sarwan Singh S/o Jwahan Singh 1/8 part Sohan Singh S/o Kapur Singh S/o Buda Singh S/o resi. Chakalhiva Tehsil Distt. Nawanshehar 1/8 part Smt. Varinder Kaur W/o Shamsher Singh S/o Mela Singh resi. 2342/2 Ambala City 91 part Kanwal Singh, Kundan Singh S/o Sohan Singh and Smt. Mohinder Kaur W/o Kashmir Singh S/o Kundan Singh and Jasbir Singh, Jaswant Singh S/o Kundan Singh S/o Sohan Singh equal part 476 part 3/4 part Three chahram. |
| | | | 8 | 12 | Private | Agriculture | 0.0999 | Joint owner possession 474 part Jail. Gurmit Singh S/o Sawan Singh S/o Jawahar Singh 119 part Kanwal Singh S/o Kundan Singh S/o Sohan Singh 69 part Smt. Mohinder Kaur W/o Kashmir Singh S/o Kundan Singh, Jasbir Singh, Jaswant Singh S/o Kundan Singh S/o Sohan Singh equal part 148 part Chanan Singh S/o Sohan Singh S/o Vadhava Singh 20 part Shingara Singh S/o Kartar Singh S/o Sohan Singh 20 part Mnajit Singh S/o Partap Singh S/o Sohan Singh 14 part resi. Mehmudpur Gurdip Singh S/o Partap Singh S/o Sohan Singh 3 part Gurmit Singh S/o Surjit Singh 3 part Sohan Singh S/o Kapur Singh S/o Buda Singh resi. Chakhalovad Tehsil. and Distt. Nawanshaheer 38 part Smt. Varinder Kaur W/o Shamsher Singh S/o Mela Singh resi. 2342/2 Amabal City 40 Part. |
| | | | 8 | 16 | Private | Agriculture | 0.0820 | Joint ownership possession 33 part Gurmit Singh S/o Sawan Singh S/o Jawahr Singh and 9 part Sohan Singh S/o Kapur Singh S/o Buda Singh 8 part Smt. Varinder Kaur W/o Shamsher Singh S/o Mela Singh resi. Ambala City 2 part Kanwal Singh S/o Kundan Singh S/o Sohan Singh and Smt. Mohinder Kaur W/o Kashmir Singh S/o Kundan Singh And Jasbir Singh, Jaswant Singh Joint ownership Kundan Singh S/o Sohan Singh each 4 part equal part. |
| | | | 8 | 9 | Private | Agriculture | 0.2296 | Gumit Singh S/o Sawan Singh S/o Magh Singh. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------|--------|--|
| | | | 8 | 10 | Private | Agriculture | 0.2105 | Kanwal Singh, Kashmir Singh, Jasbir Singh, Jaswant Singh S/o Kundan Singh S/o Sohan Singh each 4 part equal part resi. Mehmudpur Tehsil Rajpura. |
| | | | | 248 | Gram Panchayat | way | 0.0273 | Gram Panchayat |
| | | | | 245 | Gram Panchayat | way | 0.0431 | Gram Panchayat |

[F. No. 2010/LML/12/3-Eastern Corridor]

JAGDIP RAI, Executive Director (Land and Amenities-1)